



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार 06 जनवरी, 2017 / 16 पौष, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

*Shimla, the 28<sup>th</sup> December, 2016*

**No.HHC/GAZ/14-265/03.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave *w.e.f.* 09-01-2017 to 21-01-2017 with permission to prefix Sunday falling on 08.01.2017 and to suffix Special Casual leave falling *w.e.f.* 22-01-2017 to 04-02-2017 in favour of Dr. Abira Basu, Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Sirmaur District at Nahan, H. P.

Certified that Dr. Abira Basu is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Abira Basu would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Sirmaur District at Nahan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,  
Sd/-  
*Registrar General.*

---

## HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

### NOTIFICATION

*Shimla, the 28<sup>th</sup> December, 2016*

**No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.**—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC, Nahan, H. P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Senior Civil Judge-cum-CJM, Sirmaur District at Nahan and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014- Administration of Justice" during the earned leave period of Dr. Abira Basu, Senior Civil Judge-cum-CJM, Sirmaur District at Nahan *w.e.f.* 09-01-2017 to 21-01-2017 with permission to prefix Sunday falling on 08-01-2017 and to suffix Special Casual leave falling *w.e.f.* 22-01-2017 to 04-02-2017 or till she returns from leave.

By order,  
Sd/-  
*Registrar General.*

---

## HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

### NOTIFICATION

*Shimla, the 30<sup>th</sup> December, 2016*

**No.HHC/GAZ/14-52/74-VII.**—In partial modification to this Registry notification No.HHC/ GAZ/14- 52/74-VII-34093-118, dated 29th December, 2016, Shri Partap Singh Thakur, Senior Civil Judge (Leave/Training Reserve), High Court of Himachal Pradesh shall perform the duties and functions of Senior Civil Judge-cum-Chief Judicial Magistrate, Una during the leave period of Ms. Sapna Pandey, Senior Civil Judge-cum-Chief Judicial Magistrate, Una with immediate effect.

The Additional Chief Judicial Magistrate (I), Una shall hold the additional charge of Secretary, District Legal Services Authority, Una and Hamirpur Districts and the Additional Chief Judicial Magistrate (I), Hamirpur shall hold the additional charge of Mobile Traffic Magistrate, Hamirpur and Bilaspur Districts.

BY ORDER OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE  
Sd/-  
*Registrar General.*

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001****NOTIFICATION***Shimla, the 30th December, 2016*

**No.HHC/Admn.6 (24)74-IX.**—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sections 11 and 12 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, has been pleased to appoint and confer the powers of Civil Judge, upon the following Judicial Officers to be exercised by them in original Civil Suits, the value of which does not exceed ₹ 10 lacs within the local limits of the District mentioned against their names *w.e.f.* the assumption of charge :

| Sl. No. | Name of the Judicial Officer | Designation and place of posting                      | District |
|---------|------------------------------|---|----------|
| 1.      | Sh. Tarun Walia              | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (III), Amb.       | Una      |
| 2.      | Ms. Rosy Dahiya              | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (IV), Mandi.      | Mandi    |
| 3.      | Sh. Rishabh Kapoor           | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (II), Kangra.     | Kangra   |
| 4.      | Ms. Deepika Thakran          | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (III), Ghumarwin. | Bilaspur |
| 5.      | Ms. Vibhuti Bahuguna         | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (III), Una.       | Una      |
| 6.      | Sh. Parth Jain               | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (IV), Hamirpur.   | Hamirpur |
| 7.      | Sh. Vishal                   | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (II), Sarkaghat.  | Mandi    |

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001****NOTIFICATION***Shimla, the 30th December, 2016*

**No.HHC/Admn.6 (24)74-IX.**—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under sub section (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to appoint and confer the powers of Judicial Magistrate Second Class upon the following Judicial Officers to be exercised by them within the local limits of the Districts mentioned against their names with effect from the assumption of charge:

| Sl. No. | Name of the Judicial Officer | Designation and place of posting                 | District |
|---------|------------------------------|--|----------|
| 1.      | Sh. Tarun Walia              | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (III), Amb.  | Una      |
| 2.      | Ms. Rosy Dahiya              | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (IV), Mandi. | Mandi    |

|    |                      |   |          |
|----|----------------------|---|----------|
| 3. | Sh. Rishabh Kapoor   | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (II), Kangra.     | Kangra   |
| 4. | Ms. Deepika Thakran  | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (III), Ghumarwin. | Bilaspur |
| 5. | Ms. Vibhuti Bahuguna | Civil Judge-cum- Judicial Magistrate (III), Una.      | Una      |
| 6. | Sh. Parth Jain       | Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (IV), Hamirpur.   | Hamirpur |
| 7. | Sh. Vishal           | Civil Judge-cum- Judicial Magistrate (II), Sarkaghat. | Mandi    |

The above named officers are further specifically empowered to authorize detention in Police custody in terms of the Section 167(2)(c) and powers of a Magistrate of the 2nd Class under Section 261 of the Code of Criminal Procedure, to try summarily any offence, which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding six months with or without fine, and any abetment of or attempt to commit any such offence.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

#### HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

##### NOTIFICATION

*Shimla-1, the 02<sup>nd</sup> January, 2017*

**No. HHC/15-43/Jus/Accts/2014.**—It is hereby notified that the Hon'ble Mr. Justice Piar Singh Rana has relinquished the charge of the office of the Judge, High Court of Himachal Pradesh today, the 02nd January, 2017 (afternoon).

By order,  
(RAJEEV BHARDWAJ),  
Registrar General.

#### HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

##### NOTIFICATION

*Shimla, the 30<sup>th</sup> December, 2016*

**No.HHC/GAZ/ 14-377/2016.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 04 days commuted leave *w.e.f.* 12-11-2016 to 15-11-2016 in favour of Sh. Vishal, Civil Judge, presently under training in the H.P. Judicial Academy, Shimla, H.P.

Certified that Sh. Vishal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vishal would have continued to hold the post of Civil Judge, presently under training in the H.P. Judicial Academy, Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

“मज़बूत लोकतन्त्र – सबकी भागीदारी”

**निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार**  
38—एस.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला—171009

**अधिसूचना**

दिनांक: 27 दिसम्बर, 2016

संख्या: 3-26/2016-ई.एल.एन.-2153—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2016/रा0 दल अनु0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 तदनुसार 22 अग्रहायण, 1938 (शक) जो कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2015/रा0 दल अनु0-II, दिनांक 13 जनवरी, 2015 व समय-समय पर यथा संशोधित उपरोक्त अधिसूचना के अतिक्रमण के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,  
**नरेन्द्र चौहान**  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001

संख्या : 56/2016/रा0दल अनु0-III

तारीख : 13 दिसम्बर, 2016  
22 अग्रहायण, 1938 (शक)

**अधिसूचना**

यतः भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों और मुक्त प्रतीकों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधि-सूचना संख्या 56/2015/रा0द0अनु0-II, तारीख 13 जनवरी, 2015 को अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

2. अतः अब निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (iii) में प्रकाशित तारीख 13 जनवरी, 2015 की, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 56/2015/रा0द0अनु0-II के अतिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है:-

- (क) सारणी-I में, राष्ट्रीय दल और उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक और उनके मुख्यालयों के डाक-पते;
- (ख) सारणी-II में, राज्यीय दल राज्य या वे राज्य जहाँ ये राज्यीय दल हैं और ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक और उनके मुख्यालयों के डाक-पते;
- (ग) सारणी III में, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल और उनके मुख्यालयों के डाक-पते; और
- (घ) सारणी-IV में, मुक्त प्रतीक

जहां तक जम्मू और कश्मीर की विधान सभा के लिए निर्वाचनों का सम्बन्ध है, यह अधिसूचना जम्मू और कश्मीर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1965 के नियम 5 और 10 के निबंधनों तथा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के निबंधनों के अधीन है, जिन्हें जम्मू और कश्मीर विधान सभा के निर्वाचनों के लिए लागू किया गया है, के अनुसार जारी समझी जाएगी।

### सारणी-1

#### राष्ट्रीय दल

| क्रम सं. | राष्ट्रीय दल                               | आरक्षित प्रतीक  | पता  |
|----------|--|---|--|
| 1        | 2  | 3   | 4  |
| 1.       | ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस                 | पुष्प और तृण  | 30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700026, पश्चिम बंगाल।                      |
| 2.       | बहुजन समाज पार्टी                          | हाथी<br>सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (असम राज्य को छोड़कर जहाँ इनके अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची से कोई एक प्रतीक चुनना पड़ेगा) | 4, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001.                                   |
| 3.       | भारतीय जनता पार्टी                         | कमल   | 11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.  |
| 4.       | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया                | बाल और हाँसिया  | अजय भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.  |
| 5.       | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | हथौड़ा, हाँसिया और सितारा   | ए. के. गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्किट), नई दिल्ली-110001. |
| 6.       | इंडियन नेशनल कांग्रेस                      | हाथ   | 24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011.  |
| 7.       | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी                  | घड़ी  | 10, बिशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001.                                       |

### सारणी-॥

#### राज्यीय दल

| क्रम संख्या | राज्य/संघ क्षेत्र का नाम | राज्यीय दल का प्रतीक      | आरक्षित प्रतीक | पता  |
|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--|
| 1           | 2                        | 3                         | 4              | 5  |
| 1           | आन्ध्र प्रदेश            | 1. तेलंगाना राष्ट्र समिति | कार            | मकान नं. 8-2-220/110/1/3, रोड नं. 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश। |

|    |                |  |                              |  |
|----|----------------|--|------------------------------|--|
|    |                | 2. तेलुगु देशम                           | साइकिल                       | तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस,<br>एन0 टी0 आर0, भवन, रोड नं0-2,<br>बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033, (आन्ध्र प्रदेश) ।                             |
|    |                | 3. युवजन श्रमिक रायथु काँग्रेस पार्टी    | छत का पंखा                   | मकान नं. 8-2-269/एस/98, सागर सोसाईटी, रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद- 34, आन्ध्र प्रदेश।  |
| 2  | अरुणाचल प्रदेश | 2. पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश      | मक्का                        | के. रिन्गु कॉम्पलेक्स,<br>जी- एक्सटेंशन रोड,<br>नहारलगुन-791110<br>अरुणाचल प्रदेश ।  |
| 3. | असम            | 1. ऑल इण्डिया यूनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | ताला और चाबी                 | नं. 3, फ्रेन्ड्स पथ, हातिगांव, गुवाहाटी-781038 (असम)   |
|    |                | 2. असम गण परिषद्                         | हाथी                         | मुख्य कार्यालय: गोपीनाथ बोरदोलाई रोड, गुवाहाटी-781001 (असम)  |
|    |                | 3. बोडोलैण्ड पीपल्स फ्रंट                | नांगोल                       | मुख्य कार्यालय कोकराझार, बी.टी.सी. पो. ऑ. कोकराझार, असम पिन-783370   |
| 4. | बिहार          | 1. जनता दल (यूनायटेड)                    | तीर                          | 7, जन्तर मंतर रोड,<br>नई दिल्ली-110001.  |
|    |                | 2. लोक जन शक्ति पार्टी                   | बंगला                        | 12, जनपथ,<br>नई दिल्ली-110011  |
|    |                | 3. राष्ट्रीय जनता दल                     | लालटेन                       | 13 वी.पी.हाऊस, रफी मार्ग,<br>नई दिल्ली-110001.   |
|    |                | 4. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी             | अभी आवंटित किया जाना शेष है। | मौजा- ढक्कनपुरा, मोहल्ला- मोहनपुर पुनाईचक,<br>नियर हडताली मोड,<br>बोरिंग कनाल रोड, पटना-1, बिहार।  |
| 5. | गोवा           | महाराष्ट्रवादी गोमांतक                   | शेर                          | फ्लैट नं0.102, ब्लॉक-1,<br>ड्युक्ल हेवेन,एस0टी0-इन्टेज,<br>पणजी-403001   |
| 6. | हरियाणा        | इंडियन नेशनल लोक दल                      | चश्मा                        | 18, जनपथ,<br>नई दिल्ली-110011  |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 1. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल काँग्रेस      | हल                           | 1) शेर-ए-कश्मीर भवन रेजीडेंसी रोड,<br>जम्मू (जम्मू व कश्मीर) ।<br>2) नवाई सुब्ह कम्पलेक्स,<br>जीरो ब्रिज, श्रीनगर,<br>(जम्मू व कश्मीर) । |

|     |            |   |                                   |   |
|-----|------------|---|-----------------------------------|---|
|     |            | 2. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी       | साईकिल                            | 17, वी. पी. हाऊस रफी मार्ग नई दिल्ली-110001.  |
|     |            | 3. जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | स्याही की दवात और कलम             | 2-इम्पोरियन लेन, रेसीडेन्सी रोड, श्रीनगर ।  |
| 8.  | झारखण्ड    | 1. आजसु पार्टी                                  | केला                              | पूर्णमा टावर, द्वितीय तल, कमरा नं. 2ए, छगनलाल जैन धर्मशाला के सामने, लेक रोड, राँची, झारखण्ड- 834001. |
|     |            | 2. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा                        | तीर-कमान                          | बैरियातू रोड, राँची-834008 (झारखण्ड) ।  |
|     |            | 3. झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)         | कंधा                              | अतिथिशाला, मोरहाबादी, राँची, झारखण्ड ।  |
|     |            | 4. राष्ट्रीय जनता दल                            | लालटेन                            | 13 वी. पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.   |
| 9.  | कर्नाटक    | 1. जनता दल (सेक्यूलर)                           | सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला | 5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003.   |
|     |            | 2. कर्नाटक जनता पक्ष                            | अभी आंबटित नहीं हुआ               | #11, 12 मेन, 17 क्रास, मालेश्वरम, बैंगलूरु-560055 (कर्नाटक)   |
| 10. | केरल       | 1. जनता दल (सेक्यूलर)                           | सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला | 5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003.   |
|     |            | 2. केरल काँग्रेस (एम)                           | दो पतियाँ                         | स्टेट कमेटी ऑफिस, फायर स्टेशन के पास, कोट्टायम, (केरल) ।  |
|     |            | 3. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग                    | सीढ़ी                             | कायदे मिल्लत मंजिल, 36 मारियाकयार लेब्बाई स्ट्रीट, चेन्नई-600001, तमिलनाडु ।                          |
|     |            | 4. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी                 | फावड़ा एवं बेलचा                  | 37, रिपन स्ट्रीट (मुजफ्फर अहमद सारनी), कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल।                                  |
| 11. | महाराष्ट्र | 1. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना                    | रेलवे इंजन                        | कृष्ण कुंज, एम. बी. राउत रोड, शिवाजी पार्क, मुंबई-400028, महाराष्ट्र ।                                |
|     |            | 2. शिवसेना                                      | तीर-कमान                          | शिवसेना भवन, गडिकारी चौक, दादर, मुंबई-400028 (महाराष्ट्र) ।   |
| 12. | मणिपुर     | 1. नागा पीपुल्स फ्रन्ट                          | मुर्गा                            | पोस्ट बॉक नं. 565, कोहिमा-797001, नागालैण्ड ।   |



|     |                          |   |                   |  |
|-----|--------------------------|---|-------------------|--|
|     |                          | 2. पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलाइन्स            | मुकुट             | रागैलांग, इम्फाल-795001, मणिपुर ।  |
| 13. | मेघालय                   | 1. यूनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टी            | ड्रम              | मावलाइ नोनगलाम, शिलांग-793002 (मेघालय) ।   |
|     |                          | 2. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी   | शेर               | केन्चस ट्रेश, लाबान, शिलांग-739004 मेघालय ।  |
|     |                          | 3. नेशनल पीपुल्स पार्टी                   | किताब             | द्वितीय तल, एमडीयू बिल्डिंग एम. जी. एवेन्यू, इम्फाल-795001 (मणिपुर)                            |
| 14. | मिजोरम                   | 1. मिजो नेशनल फ्रंट                       | सितारा            | जनरल हेडक्वार्टर्स-जरकावत आइजॉल (मिजोरम) ।   |
|     |                          | 2. मिजोरम पीपुल्स कॉफ्रेस                 | बिजली का बल्ब     | जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001, (मिजोरम) ।                                   |
|     |                          | 3. जोरम नेशनलिस्ट पार्टी                  | सूर्य (किरण रहित) | जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001 (मिजोरम) ।                                    |
| 15. | नागालैंड                 | नागा पीपुल्स फ्रंट                        | मुर्गा            | पोस्ट बॉक्स नं. 565, कोहिमा-797001 (नागालैंड) ।  |
| 16. | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली | आम आदमी पार्टी                            | झाड़ू             | 206, राउज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली - 110002   |
| 17. | उड़ीसा                   | बीजू जनता दल                              | शंख               | नवीन निवास, एरोड्रम गेट, भुवनेश्वर-751009 (उड़ीसा) ।   |
| 18. | पुडुचेरी                 | 1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कड़गम | दो पतियाँ         | 275, अब्बाई षण्मुगम सलाई, रोयापेट्टह, चेन्नई-600014, (तमिलनाडु)।                               |
|     |                          | 2. ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेस             | जग                | नं. 51, जे. जे. कॉम्पलेक्स, 100 फीट रोड, इल्लापिल्लईचावड़ी, नेल्लीथोप पोस्ट, पुडुचेरी-605005 । |
|     |                          | 3. द्रविड मुन्नेत्र कड़गम                 | उदीयमान सूर्य     | ‘अन्ना अरिवालयम’, 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु) ।                   |
|     |                          | 4. पट्टालि मक्कल काँची                    | आम                | 63, नाट्टू मुथू माइकेन स्ट्रीट, वनीया तेयनामपेट, चेन्नई-600018, तमिलनाडु ।                     |
| 19. | पंजाब                    | 1. शिरोमणि अकाली दल                       | तराजू             | बिल्डिंग ने. 6, सैक्टर 28 बी, मध्य मार्ग चंडीगढ़-160028  |

|     |              |  |                 |   |
|-----|--------------|--|-----------------|---|
|     |              | 2.आम आदमी पार्टी                           | झाड़ू           | 206, राउज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली - 110002  |
| 20. | सिक्किम      | 1. सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट               | छाता            | अपर देवराली, गंगटोक पूर्व सिक्किम ।   |
|     |              | 2. सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा             | 'टेबल लेंप      | कंवो ग्राउंड, पो0ऑ0-टैडॉंग, पूर्व सिक्किम, सिक्किम-737102                                       |
| 21. | तमिलनाडु     | 1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | दो पतियाँ       | 275, आन्वाई षण्मुगम सलाई, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014. (तमिलनाडु) ।                              |
|     |              | 2.द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम                  | उदीयमान सूर्य   | 'अन्ना अरिवालयम' 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु) ।                      |
|     |              | 3.देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम           | नगाड़ा          | 125/7, जवाहरलाल नेहरू सलाई (100 फीट रोड) कोयमबेदु, चेन्नई-600107, तमिलनाडु ।                    |
| 22. | तेलंगाना     | 1.ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन   | पतंग            | दारुस्सलाम बोर्ड, हैदराबाद (तेलंगाना).  |
|     |              | 2. तेलंगाना राष्ट्र समिति                  | कार             | मकान नं-8-2-220/110/1/3, रोड नं 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना.                           |
|     |              | 3.तेलुगु देशम                              | साइकिल          | तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन.टी.आर. भवन, रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033 (आंध्र प्रदेश). |
|     |              | 4. युवाजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी   | छत का पंखा      | मकान नं-8-2-269/S/98, रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-34, आंध्र प्रदेश.                        |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 1. राष्ट्रीय लोक दल                        | हैंड पम्प       | 12-तुगलक रोड, नई दिल्ली-110011  |
|     |              | 2.समाजवादी पार्टी                          | साइकिल          | 18,कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली ।  |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 1.ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक                 | शेर             | नेताजी भवन, T-2235/2, अशोक नगर, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005                           |
|     |              | 2.रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी             | फावड़ा और बेलचा | 37, रिपन स्ट्रीट, (मुजफ्फर अहमद सरनी) कोलकाता-700016, (पश्चिम बंगाल) ।                          |

**सारणी-III**  
**रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल**

| क्रम सं. | रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल | मुख्यालय का पता   |
|----------|---|---|
| 1        | 2   | 4   |
| 1.       | आदर्श जनता सेवा पार्टी                    | रणजीत हाउस, डिडवाड़ा रोड, सालवन,<br>जिला – करनाल, हरियाणा   |
| 2.       | आदर्श जनहित पार्टी                        | हाथी वाली गली म0 नं0 – 22, वार्ड नं0 -9,<br>आसफाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश – 283203   |
| 3.       | आदर्श मिथिला पार्टी                       | ग्राम व पोस्ट - ठहरा गोपालपुर, वाया दिघरा,<br>जिला – समस्तीपुर, बिहार – 848115  |
| 4.       | आदर्शवादी काँग्रेस पार्टी                 | ई0 डब्ल्यू0 एस0 -04, कौशलपुरी कालोनी, फेस-2, निकट पानी<br>टंकी, ग्रामसभा-गद्दोपुर,<br>विकास खण्ड-मसौधा, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद,<br>उत्तर प्रदेश। |
| 5.       | आधी आबादी पार्टी                          | डी-1385/7, डी- ब्लॉक, इन्दिरा नगर, लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश- 226016  |
| 6.       | आदिजन मुक्ति सेना                         | प्रथम तल, 21 दुर्गेश विहार, जे. के. रोड,<br>भोपाल (मध्य प्रदेश)।  |
| 7.       | आदिम समाज पार्टी                          | म0 नं0 – 84, ग्राम – मवैया कलां, पोस्ट – नारीबारी,<br>शंकरगढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश   |
| 8.       | आदिवासी सेना पार्टी                       | ग्राम व पोस्ट-रूपवेल, (निशाल, फलिया), ता0- वनसदा, जिला-<br>नवसरी-396 321, गुजरात।   |
| 9.       | आजाद भारत पार्टी (डेमोक्रेटिक)            | ग्राम+पोस्ट - बेहटा बुजुर्ग, वि0 ख0 - भीतरगांव, जिला -<br>कानपुर, उत्तर प्रदेश।   |
| 10.      | आम आदमी मुक्ति मोर्चा                     | 4, यू.एफ. बाबर प्लेस, टोडरमल रोड,<br>बंगाली मार्केट के पास, नई दिल्ली-110001.   |
| 11.      | आम हिन्दुस्तानी पार्टी                    | गांव- भगौती दूबे का भिस्वाँ, पोस्ट- चौरी चौरा,<br>जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273201.   |
| 12.      | आम जन पार्टी (सेक्यूलर)                   | मीना वाटिका, माँ दुर्गानगर,<br>ग्राम- चकसकरा, पोस्ट- चन्द्रालय,<br>थाना- हाजीपुर सदर, जिला- वैशाली, बिहार।  |
| 13.      | आम जनता पार्टी                            | आम जनता पार्टी ग्राम-जीगीना,<br>डाकघर - मंझरिया विक्रम, जिला-बस्ती,<br>उत्तर प्रदेश   |
| 14.      | आम जनक्रान्ति पार्टी                      | ग्राम व पोस्ट – भगीपुर,<br>शिकोहाबाद रोड, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के पास,<br>जिला – एटा, उत्तर प्रदेश – 207001                                       |
| 15.      | आम जनशक्ति पार्टी                         | डब्ल्यू0जेड0-जे-62, उत्तम नगर, दिल्ली – 110059  |
| 16.      | आम जनता पार्टी डेमोक्रेटिक                | हाऊस नं. 1403, बेला वार्ड नं. 4,<br>ग्राम पंचायत बेला, तहसील- उमरेड, जिला- नागपुर,<br>महाराष्ट्र- 441115  |
| 17.      | आम जनता पार्टी राष्ट्रीय                  | फ्लैट नं0 – 804, 8वाँ तल्ला, घरौंदा कम्पलेक्स,<br>जगदेव पथ मोड़, बेली रोड, पटना,<br>बिहार – 800014  |

|     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 18. | आम नागरिक पार्टी                    | ग्राम – बौल्ला मजपुर, पोस्ट – कीरतपुर निमाना, ब्लॉक - गोंण्डा, तहसील – इगलास, जिला – अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।                 |
| 19. | आम ओडिसा पार्टी                     | 185, वी आई पी कॉलोनी, आई आर सी विलेज, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिसा -751015   |
| 20. | आप और हम पार्टी                     | वार्ड नं. 24, मकान नं. 714/647, मोहल्ला- बसन्ती गली, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार   |
| 21. | आप सबकी अपनी पार्टी                 | फ्लैट नं. 302, सप्तश्रृंगी अपार्टमेंट, सूर्या होटल के पीछे, करबला रोड, पुराना बस स्टैंड के पास, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001 |
| 22. | आपका हमारा पार्टी                   | ग्राम-महु डर पोस्ट – रेवाली, जिला - हजारीबाग, झारखण्ड-825301   |
| 23. | आपकी अपनी अधिकार पार्टी             | मकान सं० – 381/5, नई पर्वतिया कॉलोनी, सारन स्कूल रोड, महादेव चौक, गांव – सारन, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा।                |
| 24. | अपनी सरकार पार्टी                   | 6/शान्तिकुंज सोसायटी, गायत्री मंदिर के सामने, नेशनल हाईवे, कलोल, जिला- गाँधीनगर, गुजरात-382721                             |
| 25. | आरक्षण विरोधी पार्टी                | डीटी-146, तिरखा कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, हरियाणा।  |
| 26. | आर्थिक समानता पार्टी                | 189, बी ब्लॉक, गली नं० 4/6, करावल नगर, दिल्ली-110094.  |
| 27. | आसरा लोकमंच पार्टी                  | म्हाडा कॉलोनी, गाळा क्र.683, गट क्र.74, देवलाई, ता. व जि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र – 431001                                    |
| 28. | आजादी का अंतिम आंदोलन दल            | एम. आई. जी. डी.- 27, शैलेन्द्र नगर, रायपुर – 492001, छत्तीसगढ़।  |
| 29. | अभय समाज पार्टी                     | ग्राम वृ अन्धयाए पोस्ट वृ हरपुर तिवारीए तहसील वृ सदर महाराजगंज जिला वृ महाराजगंज उत्तर प्रदेश।                             |
| 30. | अ-चिक नैशनल काँग्रेस (डेमोक्रेटिक)। | डाकोपगरे (ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के सामने) तुरा, वेस्अ गारो हिल्स, मेघालय-794101                                      |
| 31. | ऐक्शन पार्टी                        | गाँव व पोस्ट- मैंगलगंज, मेन मार्केट, निकट हरिचरणेश्वर महादेव मंदिर, ब्लॉक- पसगां, जनपद- लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश।      |
| 32. | आदर्श जन शक्ति पार्टी               | हाउस नं० 10204, अरेई वाली गली, मान आटो स्टैंड, दुर्गा पुरी, हाई बोवाल कलान, लुधियाना, पंजाब।                               |
| 33. | आदर्श लोक दल                        | आबू नगर, पुलिस थाना फतेहपुर सिटी के सामने, जिला- फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश)।  |
| 34. | आदर्श मानवतावादी पार्टी             | डी.एस./919, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।   |
| 35. | आदर्श पोलिटिकल पार्टी               | 405, कुन्दन भवन कोमर्शियल काम्प्लैक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033.   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 36. | आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी                 | मकान नं० 1369, सुरक्षा-1, सैक्टर-4, ई०एल०डी०ई०सी०ओ० रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।   |
| 37. | आदर्श समाज पार्टी                            | बी-505, कमला नगर आगरा, उत्तर प्रदेश ।  |
| 38. | आदर्श व्यवस्था पार्टी                        | सुगही वार्ड नं. 12, गांव- बंजरिया, टाउन एरिया सलेमपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश -274509   |
| 39. | आदर्शवादी दल                                 | जवाहर रोड, खुर्जा-203136, जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 40. | आदर्शवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)               | मकान नं. 81, मोहल्ला- चित्रसाई, नियर अशोक इंटर कालेज के पास, सदर जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222001  |
| 41. | आधुनिक भारत पार्टी                           | 299ए, नानकारी आई.आई.टी. कानपुर महानगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208016  |
| 42. | आधुनिक विकासवादी पार्टी                      | डी-1/425, सेक्टर – एच,एल०डी०ए० कॉलोनी कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।   |
| 43. | आदिम भारतीय दल                               | बेलदार भवन, कूरी बाजार मार्ग, (बलूआ) कूरी बाजार, जिला- गोरखपुर-273404. उत्तर प्रदेश ।  |
| 44. | आदिवासी जन कल्याण पार्टी                     | द्वारा दक्षिण गुजरात गामित समाज सेवा ट्रस्ट पानवाडी, गुजरात ट्रेडर्स के पास, व्यारा, जिला-तापी, गुजरात-394650 ।                        |
| 45. | अद्वैत ईशावास्यम् काँग्रेस                   | गुरूआईन वाड़ी आश्रम, रीवा नाका, मैहर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश ।   |
| 46. | अगर जन पार्टी                                | वी-949, अग्रवाल वाली गली, मेन कृष्णा गली के पास, मौजपुर, दिल्ली-110053.  |
| 47. | अगिला इंडिया मक्कल कझगम                      | नं 3, द्वितीय क्रॉस, वल्लाल नगर, पेथूचेटीपेट, लॉस्पेट पोस्ट, पुडुचेरी-605008   |
| 48. | अहिला इण्डिया धायगा मक्कल मुन्नैतरा काँची    | नं० 1/407, अय्यर कॉलोनी, थानाकनकुलम, तिरुनगर, मदुरै, तमिलनाडु - 625006   |
| 49. | अहिंसा दल                                    | सिकरवार सदन, एल-1/108,109 सैक्टर-बी, प्रियदर्शनी कॉलोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।   |
| 50. | अहिंसावादी जनता पार्टी                       | एन०टी०पी०सी० मुख्य गेट के पास० नौफरी० ग्राम०लोधी० शमशाबाद रोड० आगरा० जिला . आगरा० उत्तर प्रदेश   |
| 51. | ऐहरा नेशनल पार्टी                            | 1/24, एस.एफ. के एम टी भवन, गली नं० 2, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092  |
| 52. | एम पॉलिटिकल पार्टी                           | 543ए बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी० रुम नं० . 179ए सीईएन नं० .301ए कॅप्टन प्रकाश पट्टे मार्ग० कफ परेड० कोलाबा० मुम्बई० महाराष्ट्र - 400005 |
| 53. | एम्स पार्टी                                  | आजाद चौक, पिपराही बाजार, पोस्ट-पिपराही, जिला-शिवहर, बिहार-843334 ।   |
| 54. | अजेय भारत पार्टी                             | ए-14, मोहन एस्टेट्स, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।  |
| 55. | अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी | सनफूल, कोटा-1, (राजस्थान) ।  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 56. | अकाली दल (1920)                                 | 296, सैक्टर - 10 - ए, चण्डीगढ़-160010 ।  |
| 57. | अखंड भारत नेशनल पार्टी                          | 22-3-947/33/ए/1/1 मेगा सिटी नं. 125, पुरानी हवेली, सेटविन ऑफिस के सामने, हैदराबाद - 500002, आन्ध्र प्रदेश ।        |
| 58. | अखण्ड भारत पार्टी                               | 47 वृ रुकमिणी विहार ए मण्डी समिति के सामने बाई पास ए मथुरा ए उत्तर प्रदेश 281001                                   |
| 59. | अखंड भारत समाज पार्टी                           | ई-14, फर्स्ट फ्लोर, डी.डी.ए.मिनी मार्केट, सुल्तानपुरी दिल्ली-110086  |
| 60. | अखण्ड भारतीय आवाज                               | ए-54 मानेक नगर सी. एच. एस. लिमिटेड, एम.जी. रोड कान्डीवाली (पश्चिम), मुम्बई - 400067, महाराष्ट्र ।                  |
| 61. | अखण्ड भारतीय कवच पार्टी                         | बी-33, अशोक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।   |
| 62. | अखण्ड देशम पार्टी                               | 6, द्वारिकापुरी, सैक्टर - 8, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016 (उत्तर प्रदेश)   |
| 63. | अखण्ड हीन्द पार्टी                              | बी-13, रफीक कम्पाउन्ड, किशन नगर, पश्चिम द्रुतगति मार्ग, दहीसर (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र 400068                    |
| 64. | अखण्ड झारखण्ड पीपुल्स फ्रंट                     | ग्राम व पो. आ. - गिद्धौर, जिला-जमुई, बिहार-811305.   |
| 65. | अखण्ड समाज पार्टी                               | 2/45, बालु अड्डा, संजय गांधी नगर, पाय नारायन रोड, थाना- हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001                        |
| 66. | अखिल भारत हिन्दू महासभा                         | मंदिर मार्ग, नई दिल्ली- 110001.  |
| 67. | अखिल भारत समग्र क्रान्ति पार्टी                 | राजेन्द्र पाण्डे का घर, डा० सलीम अहमद की गली के सामने, कटरा, बस्ती, जिला-बस्ती, पिन कोड सं० 272001, उत्तर प्रदेश । |
| 68. | अखिल भारतीय अमन कमेटी                           | 1/9986, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032.   |
| 69. | अखिल भारतीय अशोक सेना                           | 117/0/117, गीता नगर, कानपुर-208025, (उत्तर प्रदेश) ।   |
| 70. | अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष मोर्चा पार्टी, | ट्रांसफार्मर लेन, उत्तरी नवादा, आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301.  |
| 71. | अखिल भारतीय आजाद लोकहित काँग्रेस पार्टी         | खाडी मौहल्ला, खटीकों का चौक, भिवानी, हरियाणा ।   |
| 72. | अखिल भारतीय आजाद पार्टी                         | फौवारा तिराहा, नई सडक, शहजादपुर, जनपद - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।   |
| 73. | अखिल भारतीय काँग्रेस दल (अम्बेडकर) ।            | च-1, कुम्भा नगर, हाऊसिंग बोर्ड, चितौड़गढ़-312001 (राजस्थान) ।  |
| 74. | अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी                  | ए-201/2, गली नं० 1, विकास मार्ग, शक्करपुर, दिल्ली-110092.  |
| 75. | अखिल भारतीय देशभक्त मोर्चा                      | पुरन्दरपुर, जी.पी.ओ.पटना, (बिहार) ।  |
| 76. | अखिल भारतीय गरीब पार्टी                         | गाँव-कुराना, पोस्ट-सिम्मावाली, जिला-गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 77. | अखिल भारतीय गोरखा लीग                           | महावीर बिल्डिंग, लाडेन्ला रोड, दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल) ।   |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 78.  | अखिल भारतीय हिन्दू क्रांति पार्टी                     | कृष्णा भवन, सेमरिया चौक, सतना,<br>मध्य प्रदेश ।   |
| 79.  | अखिल भारतीय जन संघ                                    | जे-394, शंकर रोड, नई दिल्ली-110060.   |
| 80.  | अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा                        | श्री महात्मा गांधी विचार केन्द्र, उलदान,<br>झाँसी (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 81.  | अखिल भारतीय क्रान्ति दल                               | 7 प्रेम कॉलनी, प्रगति पथ, प्रथम तल, कल्याण नगर, हनुमान<br>मन्दिर के पीछे, टॉक रोड,<br>जयपुर-302011, राजस्थान ।              |
| 82.  | अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी                           | गाँव और पोस्ट-दत्तावाली,<br>जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 83.  | अखिल भारतीय मानव अधिकार दल                            | 1602, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-<br>110093.   |
| 84.  | अखिल भारतीय मानव सेवा दल                              | ए-74, सेक्टर-12,<br>नोएडा (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 85.  | अखिल भारतीय मानवता पक्ष                               | मानवता भवन पेन्टी (कोके), तहसील-सिन्देवाही, जिला-<br>चन्द्रपुर, महाराष्ट्र ।  |
| 86.  | अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्यूलर) ।                  | खारी कुआं मुगलपुरा प्रथम,<br>मुरादाबाद-244001, (उ. प्र.)  |
| 87.  | अखिल भारतीय राजार्या सभा                              | आदर्श गुरुकुल शाही, जिला-पीलीभीत- 262001,<br>(उत्तर प्रदेश) ।   |
| 88.  | अखिल भारतीय राम राज्य परिषद् (प्रेम बल्लभ<br>व्यास) । | श्री कृष्ण बोध धाम, 7, शंकराचार्य मार्ग,<br>सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054   |
| 89.  | अखिल भारतीय रिवालयुशनरी शोषित समाज दल                 | वैशाली नगर, सिद्धेश्वर वेस, स्था० और० पो०-लादुर, जिला-<br>लादुर - 413512 (महाराष्ट्र) ।                                     |
| 90.  | अखिल भारतीय समाजवादी काँग्रेस                         | सी-31, हौज खास, अगस्त क्रान्ति मार्ग,<br>नई दिल्ली-110016.  |
| 91.  | अखिल भारतीय संघर्ष दल                                 | नंगली भट्टा, फतेहगढ़, चुडियाँ रोड,<br>अमृतसर-143001 पंजाब ।   |
| 92.  | अखिल भारतीय सेना                                      | ओम कला निकेतन संकल्प, को. ओप. हाउसिंग सोसायटी,<br>आनन्दगार, विखोरिली पार्क साइट (पश्चिम), मुम्बई - 400079<br>(महाराष्ट्र) । |
| 93.  | अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी                       | अखिल भारतीय शिवसेना भवन, गुड़मंडी,<br>लुधियाना (पंजाब) ।  |
| 94.  | अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी                         | 7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।   |
| 95.  | अखिल भारतीय आमजन पार्टी                               | मुकाम, पोस्ट-लाइपुरा, गाँव-गगवाना,<br>जिला-अजमेर, राजस्थान-305023.  |
| 96.  | अखिल भारतीय आपकी अपनी पार्टी                          | एफ - 2, ग्राउंड फ्लोर, राजेन्द्रा पार्क, नांगलोई,<br>नई दिल्ली- 110041  |
| 97.  | अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी                           | 263, राहुल नगर, कोलार रोड,<br>भोपाल - 462003, मध्य प्रदेश ।   |
| 98.  | अखिल भारतीय जनहित पार्टी                              | पोस्ट - साजणी, तालुक - हातकणंगले,<br>जिला - कोल्हापुर महाराष्ट्र - 416115   |
| 99.  | अखिल भारतीय झारखण्ड पार्टी                            | गांव-किनुडीह, पोस्ट-करनडीह, जमशेदपुर-831002, जिला-पूर्वी<br>सिंहभूम, झारखण्ड ।  |
| 100. | अखिल भारतीय कल्याण पार्टी                             | मो० मिर्दहान दक्षिणी, पोस्ट- दरियाबाद,<br>जनपद- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225403  |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 101. | अखिल भारतीय लोक दल                              | ए - 1, मेन रोड, गोकल पुरी,<br>नियर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर,<br>शनि साई मन्दिर, दिल्ली - 110094   |
| 102. | अखिल भारतीय लोकाधिकार पार्टी                    | शॉप नं० - 9 बी, बिल्डिंग,<br>भुराज ऐनक्लेव, समर्थ वाडी,<br>मान खुर्द स्टेशन रोड,<br>मुम्बई, महाराष्ट्र-400088.                        |
| 103. | अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक काँग्रेस               | एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।   |
| 104. | अखिल भारतीय मानवाधिकार विचार मंच पार्टी         | बलिया(जिलेबियामोड़),<br>सुलतानगंज देवघर रोड,<br>पो0 - मंझली मटिहानी,<br>भाया - बेलहर, जिला - बांका, बिहार।                            |
| 105. | अखिल भारतीय मिथिला पार्टी                       | रत्नेश्वर झा का मकान, गाँव व पो. - परजुआर,<br>जिला - मधुबनी, बिहार, पिन - 847229  |
| 106. | अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ                     | प्लॉट नं० 98, रतन लाल नगर, कानपुर - 208022, उत्तर प्रदेश ।  |
| 107. | अखिल भारतीय नैतिक पार्टी                        | मो० कन्हईपुरवा, निकट बिलग्राम चुंगी,<br>जनपद - हरदोई, उत्तर प्रदेश - 241001   |
| 108. | अखिल भारतीय सर्वधर्म समाज पार्टी                | 72, बजरंग नगर, रोड क्र: 6,<br>मानेवाडा रोड, पोस्ट- पार्वतीनगर,<br>नागपुर, महाराष्ट्र- 440027  |
| 109. | अखिल भारतीय सवर्ण पार्टी                        | 177/क्यू/94, एल० आई० सी० सोसाइटी,<br>शारदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208024   |
| 110. | अखिल भारतीय सुधार पार्टी                        | मकान सं०- 2389, प्रथम तल, हडसन लेन, किंग्सवे कैप, दिल्ली<br>- 110009  |
| 111. | अखिल भारतीय स्वराज दल                           | मकान न० 22/178, मांझखोर रमेड़ी तरौस चौराहा, हमीरपुर,<br>उत्तर प्रदेश ।  |
| 112. | अखिल भारतीय विकास काँग्रेस पार्टी               | एस-7, विकासदीप बेसमेन्ट, स्टेशन रोड,<br>लखनऊ-226001 उत्तर प्रदेश ।  |
| 113. | अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी)          | वार्ड संख्या - 36,<br>होलिडिंग संख्या - 711/499,<br>रेलवे हंडर रोड, उपाध्याय लेन,<br>पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना, बिहार - 800003 |
| 114. | अखिल जन विकास दल                                | 50 ए / 1ए, नाहरपुर, राव एस. के. शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, सैक्टर -<br>7, रोहिणी, दिल्ली-85.   |
| 115. | अखिल राष्ट्रवादी पार्टी                         | मोहारवती सिसोदिया भवन, नजदीक डाक बंगला,<br>नाद्री गेट, कासगंज, जिला एटा (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 116. | अखिल भारतीय रयथा पार्टी                         | नं० 127, श्रवनाबेलागुला टाउन, बेंगलुरु मेन रोड,<br>चन्नारायापटना तालुक, जिला-हसन,<br>कर्नाटक-573135                                   |
| 117. | अखिल इण्डिया जनानयाका मक्कल काची<br>(डॉ इसाक) । | नं० 171, कानन नगर, वींटरपेट, अराकोनम,<br>जिला-वेलौर, तमिलनाडु ।   |
| 118. | अखिल केरला त्रिणमूल पार्टी                      | मकान नं० 161, स्वातिनगर, इटकोट देशम,<br>पल्लिचल विल्लेज, नेमौम पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम<br>केरल - 695020                                   |



|      |  |  |
|------|--|--|
| 119. | अखिलेन्द्रा महादेसम  | डोर नं० 2-9-53, नवाबपेट, मेडक - 502110, मेडक डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।                            |
| 120. | अकिला इण्डिया वल्लालार पेरावई                                | 43, पिल्लायार कोल स्ट्रीट, वीरा रागवपुरम, चेन्नई-600 077, तमिलनाडु ।                                 |
| 121. | अल-हिन्द पार्टी  | बी-2/40, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली - 110029 ।   |
| 122. | ऑल इंडिया पट्टाली मुनेत्र काँची                              | नं० - 90, गांधी रोड, कल्लाकुरुची, विल्लुपुरम - जिला, तमिलनाडु- 606202                                |
| 123. | ऑल इंडिया सत्याज्योति पार्टी                                 | आंगाराकुडिल, 19, एक्सटेंशन, तुरैयूर तिरुचि जिला, तमिलनाडु - 621010.                                  |
| 124. | ऑल इंडिया अम्बेडकर मक्कल मुन्नेत्रकडगम                       | 104, वालाजा रोड, तीसरी मंजिल, अरीवु मनी आरंगम, ट्रिप्लीकेन, चेन्नई-600002, तमिलनाडु.                 |
| 125. | ऑल इंडिया अधिथानार मकल काची                                  | एच. ओ. 24, थंगम कॉलोनी, अन्नागार वीट, चेन्नई -40, तमिलनाडु ।   |
| 126. | ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी                               | म० नं० 5-9-30/सी, मेडिशन हाऊस, बशीर बाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश                                     |
| 127. | ऑल इंडिया बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब नेशनल काँग्रेस          | सी-22, बेसमेंट, चिराग एनकलेव, नई दिल्ली-110048.  |
| 128. | ऑल इण्डिया बहु जनसम्मान पार्टी                               | 107, टीकरी कलाँ, नई दिल्ली-110041  |
| 129. | ऑल इंडिया बी० सी०, ओ० बी० सी० पार्टी                         | म० नं० 1-1-109/18, रामदास नगर, कपड़ा, ECIL, रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश-500062.                  |
| 130. | ऑल इण्डिया भारती जग पार्टी                                   | लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, ग्रेन मार्किट, मनसा- 151505, पंजाब ।                                    |
| 131. | ऑल इंडिया क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एण्ड बैकवर्ड पीपुल्स पार्टी | ब्लाक ए-1, फ्लैट-2, कोलकता - 700054, (पश्चिम बंगाल) ।  |
| 132. | ऑल इण्डिया दलित वेलफेयर काँग्रेस                             | फ्लैट नं० 44, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली ।   |
| 133. | ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी                                 | एम० 77 ए० सेक्टर 9 ए० साकेत नगर ए० भोपाल ए० मध्य प्रदेश 462024                                       |
| 134. | ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक (सुभासिस्ट)                         | 49-एम, मोतीलाल फर्स्ट स्ट्रीट, मदुरई-625010. (तमिलनाडु) ।  |
| 135. | ऑल इण्डिया हिन्दुस्तान काँग्रेस पार्टी                       | 191 सीए चन्द्रनगर ए० नौ दुकान ए० कालवाड रोड ए० गोविन्दपुरा ए० झोटवाडा ए० जयपुर ए० राजस्थान दृ 302012 |
| 136. | ऑल इंडिया जन कांग्रेस पार्टी                                 | ए-1बी/110ए, कृष्णा अपार्टमेन्ट, एल.आई.जी फ्लैट्स, ए-1बी, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063                 |
| 137. | ऑल इंडिया जन समस्यानिवारण पार्टी                             | वार्ड नं० - 1, मु. पो. ता. - कलमेश्वर, जिला - नागपुर, महाराष्ट्र - 441501                            |
| 138. | ऑल इण्डिया किसान मजदूर मोर्चा                                | गली गुज्जर सिंह वाली, बगदादी गेट के अंदर, फिरोजपुर सिटी, पंजाब-152002                                |
| 139. | ऑल इण्डिया क्रान्तिकारी काँग्रेस                             | 184/1469, मोती लाल नगर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-400104, महाराष्ट्र ।                             |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 140. | ऑल इण्डिया लिबरल पार्टी                             | प्लॉट नं० 48, विनायक मन्दिर के पास, सेक्टर-6, एम.वी.पी. कॉलोनी, विशाखापट्टनम-530017, आन्ध्र प्रदेश ।  |
| 141. | ऑल इंडिया लोकराज पार्टी                             | गांव-मेहरबान, तहसील और जिला- लुधियाना (पंजाब)   |
| 142. | ऑल इण्डिया महिला डेमोक्रेटिक फ्रंट (ए०आई०एम०डी०एफ०) | मकान नं० 6-1-57/62, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004, आंध्र प्रदेश ।   |
| 143. | ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी                  | डोर नं० - 9-4-135/35/ए, 9-4-135/35, प्लॉट नं० - 35, सर्वे नं० - 206, 207, 210 199, 198, 195/2, अरुणा कॉलोनी, टोलीचौकी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500008 |
| 144. | ऑल इण्डिया मांची पार्टी                             | फ्लैट नं० एफ-5, साई अपार्टमेंट, काठुरु रोड, वुय्युरु, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश ।  |
| 145. | ऑल इंडिया मजदूर पार्टी (रंगरेटा)                    | मकान नं० - 2453, बाग वाला खूह, जण्डियाला गुरु, जिला - अमृतसर, पंजाब ।   |
| 146. | ऑल इंडिया माइनोंरिटीज फ्रंट                         | 148, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001.  |
| 147. | ऑल इंडिया मूवेन्दार मुन्नानी कड़गम                  | लेक एरिया, मेलुर रोड, मदुरई-625107, (तमिलनाडु) ।  |
| 148. | ऑल इण्डिया मुक्ति दल पार्टी                         | प्लॉट नं० 158/1, म० नं० 37-93/55/1, रोड नं. 3, मथुरानगर, नेरेदमेट क्रोसिंग रोड्स, सिकन्दराबाद-500094 आन्ध्र प्रदेश ।                                    |
| 149. | ऑल इंडिया मुत्ताहिदा कौमी महज                       | मकान नं० 19-2-23/एम/जे/5/ई, प्रथम तल, बहादुरपुरा, मक्का कॉलोनी, हैदराबाद-500053 आन्ध्र प्रदेश ।   |
| 150. | ऑल इंडिया पार्टी फॉर द प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स   | 100 ए/5, 11 वां सेक्टर, 66 वी स्ट्रीट, पुनम बालम सलाई, के०के० नगर, चेन्नई-600078  |
| 151. | आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ( रेडिकल)                   | बी. पी.-18, 40-फीटरोड, पटेल नगर, मुगल सराय, चन्दौली, उत्तर प्रदेश ।   |
| 152. | ऑल इण्डिया पिछड़ा जन समाज पार्टी                    | 475/15 क, कदम रसूल, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।   |
| 153. | ऑल इंडिया राजीव क्रान्तिकारी काँग्रेस               | बी-58, गली नं.18, जितार नगर, नई दिल्ली- 110051  |
| 154. | ऑल इंडिया रक्षा पार्टी                              | पोस्ट बॉक्स सं०- 136, मुख्य डाक घर, करनाल-132001, हरियाणा ।   |
| 155. | ऑल इण्डिया रविदास समता पार्टी                       | भगवत सिंह भवन सं०-10, सेक्टर-11, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।   |
| 156. | ऑल इंडिया समुथुवामक्खल काच्चि                       | 2, कल्याणी नगर, कट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।   |
| 157. | ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मजहबी दल           | गाँव और पो. ऑ. मजीठा, अमृतसर, (पंजाब) ।   |
| 158. | ऑल इण्डिया सिंगारावेलार मुन्नेत्र कड़गम्            | संख्या 2/305, सिंगारावेलार नगर, नीलंगकराई, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।  |
| 159. | ऑल इंडिया स्त्री शक्ति                              | 11-257/1 कॉपरेटिव सोसायटी कालोनी, मदनापल्ले - 517325, चित्तूर, आंध्र प्रदेश ।   |
| 160. | ऑल इंडिया तफसीली यूनाइटेड पार्टी                    | गाँव-सिमुलपुर, पो० - ठाकुर नगर, जिला-24 परगना (एन), (पश्चिम बंगाल) ।  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 161. | ऑल इण्डिया तमिल मक्कल मुनैत्र कड़गम           | नं० 25, वीरापांडी स्ट्रीट, पेराम्बूर, चैन्नई – 600039 तमिल नाडु ।  |
| 162. | ऑल इंडिया ट्राइबस एण्ड माइनॉरिटीज फ्रंट       | विंडरूश हिल एनेक्सी, शिमला-2, (हिमाचल प्रदेश) ।  |
| 163. | ऑल इंडिया उलेमा कांग्रेस                      | नं० 20-24, ज़फाराबाद ग्राम, गुलबर्गा तालुक, जिला – गुलबर्गा, कर्नाटक   |
| 164. | ऑल इंडिया उझावरगल उझाईप्पलरगल काची            | द्वार नं०-55, प्रथम तल, सिनावर गली, तिरुप्पतूर-635601, तमिलनाडु ।  |
| 165. | ऑल इंडिया वीमेन डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी     | नं०-36, गणेश नगर, नियर अम्बेडकर नगर बस स्टॉप, 200 फ्रीट रोड, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600099                                     |
| 166. | ऑल इंडिया वीमेन यूनाईटेड पार्टी               | कमरा नं० - 1, चौथी मंजिल, ए-117, शुबराती अपार्टमेंट, ओखला गाँव, जामिया नगर, नई दिल्ली – 110025                                     |
| 167. | ऑल इण्डियंस गांधी कांग्रेस                    | 212, कालिका नगर, अंदरहल्ली, मेन रोड, बैंगलूरु-560058, कर्नाटक ।  |
| 168. | ऑल जे एण्ड के किसान मजदूर पार्टी              | स्टेण्डर्ड होटल, शहीद चौक, जम्मू, जम्मू और कश्मीर ।  |
| 169. | ऑल जे एण्ड के पीपुल्स पैट्रियाटिक फ्रंट       | जवाहर नगर, हाऊस नं०-97, पुलिस स्टेशन, राघ-बाघ, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) ।  |
| 170. | आल जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | एम. पी. गली, राजबाग, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर ।  |
| 171. | ऑल जम्मू एण्ड कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी         | 1464, मौहल्ला खवाजा बाजार, पावर स्टेशन के पास, अनन्तनाग, पिन कोड – 192101, जम्मू एण्ड कश्मीर ।                                     |
| 172. | ऑल पेंशनर्स पार्टी                            | नं०-12डी पावोडुम तोप्पू, नेल्लूरपेट, गुडियात्तम, वेल्लूर जिला, तमिलनाडु  |
| 173. | ऑल पीपुल्स पार्टी                             | डोर नं० 1-138, पल्लेगुन्टा गांव व पोस्ट, गुराजाला रुरल मण्डल, जिला - गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश ।                                       |
| 174. | अल्पजन समाज पार्टी                            | डाक बंगला मार्केट परिसर, प्रथम तल, दुकान सं०-28, डाक बंगला मार्केट, पो. ऑ. – सासाराम, थाना-सासाराम, जिला – रोहतास, बिहार – 821115. |
| 175. | अमन समाज पार्टी                               | वी-1452, गली नं०-4, विजय पार्क, दिल्ली-110053  |
| 176. | अम्बेडकर जनता पार्टी                          | सं० 57/1 सविमाना इंटरप्राइजेज, भद्रप्पा लेआउट, कोदिगेहल्ली नगरीयहल्ली मेन रोड बैंगलोर- 560092, कर्नाटक।                            |
| 177. | अम्बेडकर क्रान्ति दल                          | शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।  |
| 178. | अम्बेडकर नेशनल काँग्रेस                       | 8-3-323 अमृतपेट, क्रास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।  |
| 179. | अम्बेडकर नेशनल मक्कल काँची                    | दरवाजा नं० 53, गाँधी रोड (फोर्मली पीरन लेन), थिरुपत्तूर, जिला-वेल्लोर, पिन कोड-635601, तमिलनाडु ।                                  |
| 180. | अम्बेडकर पीपुल्स मूवमेंट                      | 39, सरावना स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु) ।  |
| 181. | अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन दल               | डालोहिया कॉलोनी, शाहजहाँपुर, पिन-242001, (उत्तर प्रदेश) ।  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 182. | अम्बेडकर समाज पार्टी                       | 304, मन्दाकिनी एन्क्लेव अलकनन्दा,<br>नई दिल्ली – 110019.   |
| 183. | अम्बेडकर युग पार्टी                        | 240/71 एफ <sup>3</sup> ए स्टेनली रोड<br>कमला नगर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश   |
| 184. | अम्बेडकरवादी पार्टी                        | 136/1, डायमंड हारबर रोड, कोलकता-700063.<br>(पश्चिम बंगाल)।   |
| 185. | अम्बेडकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी              | राष्ट्रभाषा प्रचार समिती के पीछे, वर्धा – 442001, जिला-वर्धा,<br>महाराष्ट्र।   |
| 186. | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया                | द्वारा 26, भोसलेवाडी, आवले बाबू चौक के पास, लष्करीबाग,<br>नागपुर, महाराष्ट्र – 440017  |
| 187. | आमरा बंगाली                                | नं० 2, बल्लव स्ट्रीट, कोलकता-700004,<br>(पश्चिम बंगाल)।  |
| 188. | अनाईथिंडिया समुदाय मुन्नेत्रकजगम           | नं० 7/13, पूर्व माडा स्ट्रीट, थिरुवथीपुरम व पोस्ट चेय्यर तालुक<br>– 604 407, थिरुवन्नामला, जिला-तमिल नाडु।   |
| 189. | अनैतीन्डीया समुदाय मक्कल काची              | 80, कूलडाई वेलन लेन,<br>मेन रोड, डिंडिगुल,<br>तमिल नाडु - 624001   |
| 190. | अनैथिन्थितया तामिझागा मुन्नेत्र कजगम       | 10/2, नलवर नगर, कलवीरामपालायम, भारतीयार, यूनिवर्सिटी<br>(पोस्ट), कोयम्बटूर- 641048 (तमिलनाडु)।   |
| 191. | अनाईथू मक्कल मुन्नेत्रकजगम                 | डी नं०- 199/416 (आर०एस०नं० 177-1बी), प्रथम तल, आरकोट<br>रोड, वडापझानी, चेन्नई-600026, तमिलनाडु।  |
| 192. | अनैथु मक्कल पुराची काँची                   | न.268, अमन कोईल स्ट्रीट,<br>आलडी पोस्ट- विरुथाचलम्,(टीके)<br>कडलूर (डीटी), तमिलनाडु- 606115  |
| 193. | अन्बू उदयम कच्ची                           | 12/11, सुभाष ईलम, तेनी - गुडलूर – 625518, तमिलनाडु   |
| 194. | आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समैक्या समिथि पार्टी | मकान नं० 11-8-118/2 (ओल्ड), 11-8-99/84 (न्यू),<br>नरसिम्हापुरी कॉलोनी, अष्टालक्ष्मी एच वाई डी – विजयवाडा<br>हाईवे, हैदराबाद – 500035, आन्ध्र प्रदेश। |
| 195. | आन्ध्र प्रदेश नवोदया प्रजा पार्टी          | नं० 3-11, तुक्कुगुडागांव, महेश्वरम मंडल, मनखाल पोस्ट, रंगा<br>रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश।  |
| 196. | आन्ध्र राष्ट्र प्रजा समिति                 | ए. सी. स्टेडियम के पीछे, कोनेयापालेम गेट, दरगामित्ता, नेल्लोर<br>– 524001. आन्ध्र प्रदेश।  |
| 197. | अंगिका समाज पार्टी                         | आनन्द आश्रय,<br>पोस्ट ऑफिस- पुराना जूट मिल,<br>शरीफगंज, वार्ड नं. 42,<br>जिला- कटिहार, बिहार-854105  |
| 198. | अन्जान आदमी पार्टी                         | भवन सं. 391/117ए/1, राधा नगर कालोनी, फुलवरिया रोड,<br>दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।   |
| 199. | अंजुमन पार्टी                              | मकान नं. 95, निजातपुरा,<br>नजर अली मार्ग, कोतवाली रोड,<br>उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456006.   |
| 200. | अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी              | द्वार नं० 7/2-2, चीलकलाबावी स्ट्रीट,<br>कडपा, आन्ध्र प्रदेश- 516001  |
| 201. | अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण काँग्रेस पार्टी     | ग्राम व पो० सरकड़ा विश्णोई, विकास खण्ड डिलारी, तह०<br>ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद,<br>उत्तर प्रदेश – 244401  |

|      |                                  |   |
|------|----------------------------------|---|
| 202. | एंटी रिजर्वेशन पार्टी ऑफ इंडिया  | हाऊस नं० 1184, सेक्टर-21-बी, चण्डीगढ़ ।   |
| 203. | अपना दल                          | 1/2 ए. पी. सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।  |
| 204. | अपना दल (सोनेलाल)                | ग्राम-अटरामपुर नवाबगंज, पोस्ट- अटरामपुर,<br>जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 229412                            |
| 205. | अपना दल युनाईटेड पार्टी          | ग्राम-सिसवाँ, पो०-कसया, थाना-कसया,<br>जिला-कुशीनगर, उत्तरप्रदेश - 274402                                    |
| 206. | अपना देश पार्टी                  | मकान नं०- 457, मेजरगंज, जिला - सुल्तानपुर,<br>उत्तर प्रदेश ।  |
| 207. | अपना राज फ्रंट                   | मकान नं. 1096, सेक्टर-7, बहादुरगढ़, हरियाणा।  |
| 208. | अपनी जिन्दगी अपना दल             | ए-119, भूतल, निकट एंजल मेगा मॉल,<br>कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010                              |
| 209. | अप्पाअम्मा मक्कल कझकम            | 3/59, मारियम्मन कोविल स्ट्रीट,<br>पोस्ट - अम्मापाल्यम् ,<br>तालुक व जिला - पेराम्बलूर,<br>तमिलनाडु - 621101 |
| 210. | अरुणाचल काँग्रेस                 | जी-एक्सटेंशन, नहरलागुन<br>(अरुणाचल प्रदेश)  |
| 211. | आर्य दल                          | सेन्ट्रल कैम्प ऑफिस - 775, शान्ति कॉलोनी, इटावा, उत्तर<br>प्रदेश ।  |
| 212. | आर्य सभा                         | 7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001.   |
| 213. | आर्यावर्त पार्टी                 | ग्राम व पोस्ट- बरसैना, थाना - अहिरौली,<br>जनपद - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश - 274207                             |
| 214. | असंख्य समाज पार्टी               | ए-490, गली नम्बर-22, श्याम कालोनी,<br>बुद्ध विहार फेस-2, दिल्ली-110086.                                     |
| 215. | असम गण परिषद् प्रगतिशील          | प्रधान कार्यालय-जी. एस. रोड, उलूबारी,<br>गुवाहाटी-781 007, असम ।  |
| 216. | अति पिछड़ा पार्टी                | मो० बडी पहाडी, पो० सोहसराय, थाना-लहेरी,<br>जिला-नालन्दा-803118, बिहार।                                      |
| 217. | अति पिछड़ा वर्ग महासंघ           | 3/1274, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ उत्तर<br>प्रदेश ।  |
| 218. | अति पिछड़ा जन दल                 | ग्राम: रामपुर बाकली, पो० एवं जिला-बिजनौर,<br>उत्तर प्रदेश ।   |
| 219. | अतुल्य भारत पार्टी               | 91, पीली कोठी, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के पास, हरि<br>नगर, नई दिल्ली-110064.                               |
| 220. | ऑटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी      | रौंगनीहंग, डिफू-782460,<br>कारबी अंगलॉग (असम) ।   |
| 221. | अवामी आमजन पार्टी                | बरिया घाट रोड, वासलीगंज, जिला मिर्जापुर-231001, उत्तर<br>प्रदेश ।   |
| 222. | अवामी पार्टी                     | ई-11/77, न्यू कॉलोनी, हौज खास एक्सटेंशन,<br>मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017.                                   |
| 223. | आवामी समता पार्टी                | भवन संख्या - 631/135, पानी गांव, सेक्टर - 9, पोस्ट -<br>इन्दिरा नगर, लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश - 226016         |
| 224. | आवामी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया | बुखारा, बख्शीवाला रोड, बिजनौर-246701,<br>(उत्तर प्रदेश) ।   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 225. | अवामी विकास पार्टी   | 606/607, जफरीन चेंबर्स,<br>शिवडी रेलवे स्टेशन के सामने,<br>शिवडी (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400015         |
| 226. | आजाद भारत कांग्रेस   | 218, द्वितीय तल, एल.एस.सी. मार्केट,<br>ब्लॉक-ए, सम्राट इन्कलेव, पीतमपुरा,<br>दिल्ली-110034                   |
| 227. | आजाद हिन्दुस्तान पार्टी  | ई ब्लॉक-265, यादव नगर, नई दिल्ली -110042   |
| 228. | आजाद जनता पार्टी   | 208, हिल्लन काम्पलैक्स, आकाशगंगा सुपेला, भिलाई, जिला-<br>दुर्ग, छत्तीसगढ़।                                   |
| 229. | आजाद मजदूर किसान पार्टी  | डी-4, प्रेम नगर-पपपए शनि बाजार रोड, किरारी नहर,<br>नांगलोई, नई दिल्ली -110086.                               |
| 230. | बी० सी० भारथा देशम् पार्टी                                     | मकान नं० 12-13-426, गली नं० 1, तरनाका, हैदराबाद-<br>500017 आन्ध्र प्रदेश।                                    |
| 231. | बी० सी० यूनाइटेड फ्रन्ट  | 15, सप्तगिरि नगर, रेठी बोवली, हैदराबाद-500028, आन्ध्र<br>प्रदेश।   |
| 232. | बारथा समुथाया मुनेत्र मुन्नानी                                 | 400/12, प्रथम तल, टाऊनशिप कमर्शियल कॉम्पलैक्स,<br>कामराजर नगर, मेन रोड, अवाड़ी,<br>चेन्नई-600 071, तमिलनाडू। |
| 233. | बैकवर्ड क्लासेज डेमोक्रेटिक पार्टी, जे० एण्ड के० (बी डी<br>पी) | पीर बाग कॉलोनी, आर्मी गेट के पीछे, सुंजवान रोड, जम्मू, जम्मू<br>और कश्मीर-180 004.                           |
| 234. | बडावारा श्रमिकारा रैतारा कांग्रेस पार्टी                       | 1/ए, पारवथी नगर मेन रोड, बेल्लारी-583103, कर्नाटक।   |
| 235. | बहु जन एकता पार्टी (आर)  | सूराज भवन, आर.डी.-136ए, धर्मपूरा एक्स. नजफगढ़, नई<br>दिल्ली- 110043  |
| 236. | बहु जन किसान दल  | किसान भवन, ऋषभ विहार, सरकुलर रोड,<br>मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।   |
| 237. | बहु जनक्रान्ति पार्टी (मार्क्सवाद-अम्बेडकरवाद)                 | ग्राम-धन्सुआ, पो०-सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़,<br>जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश 209601                             |
| 238. | बहु जन लोकतांत्रिक पार्टी                                      | जी-161, जे. जे. कॉलोनी, वजीरपुर,<br>दिल्ली -110052.  |
| 239. | बहु जनमुक्ति पार्टी  | फ्लैट नं० -14, आशा पुष्प विहार, सहकारी आवास समिति,<br>सेक्टर-14, कौशाम्बी, गजियाबाद,<br>उत्तर प्रदेश।        |
| 240. | बहु जनन्याय दल   | 596/1, न्यू पहाड़पुर, पुलिस कालोनी,<br>थाना- गर्दनीबाग, पोस्ट- अनिसाबाद,<br>जिला- पटना, बिहार-800002         |
| 241. | बहु जन पार्टी  | 125/98, न्यू एल० आई० जी०, बर्रा-7, कानपुर-208027 उत्तर<br>प्रदेश।  |
| 242. | बहु जन रयत पार्टी  | 198क-ई, दत्त हौ, सोसा राबाडे कॉलोनी,<br>कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416001                                       |
| 243. | बहु जन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी                               | 4/17, बी.डी.डी. वर्ली,<br>मुंबई, महाराष्ट्र- 400018  |
| 244. | बहु जन रिपब्लिकन एकता मंच                                      | हरदास नगर, कामठी, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र   |
| 245. | बहु जन सदान मोर्चा   | इसरी बाजार, पो०-इसरी बाजार, जिला-गिरिडिह, झारखण्ड-<br>825107.  |
| 246. | बहु जन समाज मुक्ति मोर्चा                                      | मकान नं० - बी-198, गली नं० - 11, भूतल, भजनपुरा,<br>दिल्ली-110053।  |

|      |                                     |   |
|------|-------------------------------------|---|
| 247. | बहु जनसमाज पार्टी (अम्बेडकर)        | म.सं.-B-33/103, मोहल्ला-शहरियान, कपूरथला, पंजाब   |
| 248. | बहु जनसमाज पार्टी (अम्बेडकर-फुलै)   | मं० वी-25, सन्ध्या वेनस अपार्टमेंट, एस. पी. नगर, मोउला-अली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।   |
| 249. | बहु जनसमाज विकास पार्टी             | 20-बी.डी. एस. कमर्शियल मार्केट, ग्रा०-सदरपुर, सेक्टर-45, पो० ऑफिस अरूण विहार, सेक्टर-37, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश । |
| 250. | बहु जन समाजवादी पार्टी (बाबा साहेब) | 53-54, प्रथम तल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साऊथ पटेल नगर, मैट्रो पिलर नं० 190 के सामने, नई दिल्ली -110008.                            |
| 251. | बहु जनसंघर्ष दल                     | पडाव पुलिस स्टेशन के सामने लक्ष्मणपुरा, पोस्ट ऑफिस-लश्कर, (ग्वालियर) मध्य प्रदेश ।  |
| 252. | बहु जनसंघर्ष पार्टी (कांशीराम)      | बहु जनभवन, खब्बाशपुर, पोस्ट-मलिकपुर, जिला -रोपड़, पंजाब ।   |
| 253. | बहु जन सेना                         | 124ए/जी-1, सेक्टर- 6, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201012   |
| 254. | बहु जनशक्ति                         | माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कैम्पस, पोस्ट-धनसार, जिला-धनबाद, झारखण्ड ।   |
| 255. | बहु जनसुरक्षा दल                    | 1/7, जी. एच. बोर्ड, हरदासनगर, ओल्ड बापूनगर, अहमदाबाद-380024, गुजरात ।   |
| 256. | बहु जनउदय मंच                       | ग्राम-चालकपुर, पोस्ट-जमीन रसूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।  |
| 257. | बहु जन विजय पार्टी                  | 98/5, पोस्ट ऑफिस गली, ग्राम- खुटभार, पोस्ट व तहसील- खजनी, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273212                                     |
| 258. | बहु जनविकास अघाडी                   | ए-301, आरती अपार्टमेंट, वरतक रोड, विरार (पश्चिम) तालुक-वसाई, जिला-थाणे, महाराष्ट्र-401303.  |
| 259. | बज्जिकांचल विकास पार्टी             | सहजानंद नगर, भगवानपुर एन.एच.-28, मुजफ्फरपुर-842002, बिहार ।   |
| 260. | बलीराजा पार्टी                      | प्लॉट नं. 1, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पृथ्वीराज नगर, बेलतरोडी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440034  |
| 261. | बाम पार्टी                          | 538के/780, त्रिवेणी नगर-II, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।  |
| 262. | बंचित स्वराज पार्टी                 | सं० 117, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर रोड, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन-नलहाटी, जिला- वीरभूमि- 737220 पश्चिम बंगाल ।                       |
| 263. | बारक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी     | स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पो० ऑ०, थाना और जिला-करीमगंज, पिन-788711, असम ।   |
| 264. | बेगमपुरा सांझा फ्रंट                | रसीला नगर, बस्ती दनिश्मंदन जालंधर, पंजाब ।  |
| 265. | बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी         | डी-2/329, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा ।  |
| 266. | बेस्ट क्लास पार्टी                  | मकान नं० 94, मुहल्ला एलवल, सदर-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276001  |
| 267. | भारत महाशक्ति पार्टी                | 11ए, डी.डी.ए फ्लैट्स, प्रियदर्शिनी विहार, लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092.  |

|      |                              |  |
|------|------------------------------|--|
| 268. | भागीदारी क्रान्ति दल         | ग्राम व पोस्ट मवई पड़ियाना,<br>ब्लॉक - सरोजनी नगर,<br>तहसील व जनपद - लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश -226008                               |
| 269. | भारत अभ्युदय पार्टी          | 6-6-35, अनुसूया निलयम, कवाड़ीगुडा मेन रोड,<br>कवाड़ीगुडा, सिकन्द्राबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500380                                   |
| 270. | भारत बचाओ पार्टी ऑफ इण्डिया  | एस-528, ग्रेटर कैलाश पार्टी-1, नई दिल्ली -110048.  |
| 271. | भारत भविष्य पार्टी           | मकान सं०-94 स, ग्राम - मुगीसपुर<br>थाना - तारून, पोस्ट - चन्द्रिकागंज,<br>जिला - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश 224141                    |
| 272. | भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी | मकान संख्या - नया नं० 4, भू-तल, बेगम विहार, ब्लॉक-ए,<br>खसरा नं०-16/19, गाँव-बेगमपुर,<br>नजदीक-भैरो मंदिर, दिल्ली-110086 ।       |
| 273. | भारत दल                      | भारत सेवाधाम अरण्यक, क्रान्तिदीप मौराना, नूरपुर जिला-<br>बिजनौर (उत्तर प्रदेश) ।   |
| 274. | भारत देशम् पार्टी            | मकान सं. 8-3-270/1, नेहरू नगर, नवी लाईन,<br>मेन रोड, गुंटुर-522 001, आन्ध्र प्रदेश ।   |
| 275. | भारत देशभक्त संगठन           | 19/460, इंदिरा नगर, लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश - 226016   |
| 276. | भारत जन आधार पार्टी          | फ्लैट नं.4, कुर्ला अमर सीएचएस सोसायटी,<br>जनसेवा पेट्रोल पम्प के सामने,<br>काले मार्ग, कमानी कुर्ला(पूर्व),<br>महाराष्ट्र-400070 |
| 277. | भारत जन पार्टी               | 324, कैलाश नगर,<br>गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 278. | भारत जनता दल तुंगलक          | ग्राम- निरमानी, डाक- निरमाना,<br>ब्लाक- बघरा, थाना- शाहपुर,<br>जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश                                    |
| 279. | भारत का किसान मजदूर पार्टी   | ग्राम-बलियाँ (नयन नगर) पोस्ट - बलियाँ, महाराजगंज,<br>सिवान, बिहार - 8415061 ।  |
| 280. | भारत कौमी दल                 | ग्राम -लाठरदेवा हूण पो० झबरेडा, जिला- हरिद्वार,<br>उत्तराखण्ड ।  |
| 281. | भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी | 3/250, विश्वास खण्ड, गोमती नगर,<br>लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 282. | भारत क्रान्ति रक्षक पार्टी   | बरकतपुर, पोस्ट-बडागाँव, जिला - कौशाम्बी, इलाहाबाद,<br>उत्तर प्रदेश ।   |
| 283. | भारत लेबर प्रजा पार्टी       | 4-25, सीतानगर कॉलोनी, सोमुलागुदेम (पी), पलवन्चा (एम),<br>खम्माम जिला-507115 आन्ध्र प्रदेश ।                                      |
| 284. | भारत लोक सेवक पार्टी         | दुकान नं. 16, डी-ब्लाक मार्केट,<br>पुष्पांजली इन्कलेव, पीतमपुरा,<br>नई दिल्ली- 110034  |
| 285. | भारत मंगलम परिषद्            | जमो बाजार, हास्पीटल चौक, पो० आ० जमो बाजार, जिला<br>सिवान, बिहार ।  |
| 286. | भारत माता पार्टी             | ग्राम व पोस्ट - कटका, जिला - मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश   |
| 287. | भारत नव निर्माण पार्टी       | ए-2, नितेश विला, विवेकानन्द कालोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी,<br>जयपुर- 23, राजस्थान ।  |



|      |                                 |  |
|------|---------------------------------|--|
| 288. | भारत नवनिर्माण वोटर सेना        | 1255-एफ, बसन्त विहार, कानपुर-208021, उत्तर प्रदेश।   |
| 289. | भारत निर्माण पार्टी             | हाई स्कूल रोड, पो० त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल-852139, बिहार।  |
| 290. | भारत न्याय दल                   | एन० एच०.58ए दिल्ली बाई पास रोडए गोपाल विहारए म० नं०.48ए मेरठए उत्तर प्रदेश।  |
| 291. | भारत परिवार पार्टी              | भारत हृदय आश्रम, मौ० कड़छ ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249407   |
| 292. | भारत पीपुल्स सेना               | प्लॉट सं. 6-4-787, फुले नगर, सोमनाथपुर रोड, तालुक- उदगीर, जिला- लातूर, महाराष्ट्र।   |
| 293. | भारत प्रभात पार्टी,             | 105, प्रथम तल ए.जी.सी.आर. एन्क्लेव, कड़कड़मा कोर्ट के पास, दिल्ली-110092   |
| 294. | भारत पुनर्निर्माण दल            | के.जे. - 116, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।  |
| 295. | भारत रक्षक पार्टी (डेमोक्रेटिक) | गांव पोस्ट पक्का सहरना, तहसील जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।  |
| 296. | भारत उदय मिशन                   | सी-3/4, सुमन नगर, वी. एन. पुरव मार्ग, चैम्बर, मुम्बई-400071.   |
| 297. | भारत उत्थान पार्टी              | ग्राम- हरनी औसेरी, परगना- हिसामपुर, पोस्ट- अरई उमरी, तहसील- कैसरगंज, जिला- बहराइच, उत्तर प्रदेश -271904.                                     |
| 298. | भारत विकास मोर्चा               | शेखपुरा रोड, मधुपुर जिला-देवघर, झारखण्ड।   |
| 299. | भारत विकास पार्टी (सेकूलर)      | खसरा नं० - 21/25, नजदीक एच. पी. पेट्रोल पम्प, उपकार प्रोपर्टीज, ए-ब्लाक, हिमगिरी इन्क्लेव, बुराड़ी, दिल्ली -110084                           |
| 300. | भारत विशाल पार्टी               | ए/6ए, डी०डी० ए० फ्लैट, मुनीरका, नई दिल्ली - 110067.  |
| 301. | भारतीय बहु जनप्रजा राज्यम्      | डी नं. 956, अरुणदेवपेट, दसवीं लेन, गुंदूर-522002, आन्ध्र प्रदेश।   |
| 302. | भारतीय मानवाधिकार पार्टी        | 21, राजेन्द्र मलिक स्ट्रीट, कोलकाता - 700007, पश्चिम बंगाल।  |
| 303. | भारत धर्म जन सेना               | इमारत सं०-849/V, मारारिकुलम उत्तर पंचायत, कांचीकुलंगर मंदिर के पूर्व में, मारारिकुलम उत्तर गांव, चेरत्तल तालुका, आलप्पझा जिला, केरल - 688544 |
| 304. | भारतीय चैतन्य पार्टी            | डी. सं. 9-186/7, हाई स्कूल रोड, वेकंट नगर, कडियम, पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533103  |
| 305. | भारथीया सधरमा समस्थापना पार्टी  | हाऊस नं० 3/17, डोरासानी पल्ली, प्रोहतुरमंडल, कडापा डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश।   |
| 306. | भारतीय द्रविड़ मक्कल काची       | 2036, 15वीं मेन रोड, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई-600 040, तमिलनाडु।   |
| 307. | भारतीय जन शब्द                  | 331 (311), वार्ड नं. - 1, कालरा हाउस, मण्डेला, पोस्ट ऑफिस, वेला नाडु तिरुवनन्तापुरम-695 543, केरल।   |
| 308. | भारतीय नेताजी पार्टी            | 3857, चौथा क्रास, गायत्री नगर, बंगलौर - 560021, (कर्नाटक)।   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 309. | भारतीय प्रजा शक्ति                              | सं० 931, 932, करबला मैदान, रेलवे स्टेशन क्रॉस रोड, चन्नापटना टाउन व तालुक, रामनगरा जिला, पिन कोड – 571501 कर्नाटक ।  |
| 310. | भारतीय युवथा, समथा, राष्ट्रीयथा कांग्रेस पार्टी | फ्लैट नं० जी-1, भूतल, ए. आर. के. रेजिडेन्सी प्लॉट नं० 304, सर्वे नं० 153, 154, 163 व 143, बोदपल, ग्राम एवं ग्राम पंचायत – घटकेसर (मंडल), जिला- रंगरेडुडी, हैदराबाद – 500038, आन्ध्र प्रदेश । |
| 311. | भारतीय आम अवाम पार्टी                           | सरिस्ताबाद, इन्द्रपुरी पथ, गली नं० ई, गर्दनीबाग, पटना, बिहार- 800001   |
| 312. | भारतीय अम्बेडकर पार्टी                          | मेन बाजार, कृष्णा नगर, जाउरा फाटक, अमृतसर (पंजाब) ।  |
| 313. | भारतीय अष्ट जन पार्टी                           | 151, सी. सेक्टर, दूसरी मंजिल, कमरा नं० 203, इन्दरपुरी, भोपाल – 462022 (मध्य प्रदेश) ।  |
| 314. | भारतीय आवाज पार्टी,                             | मिलन कमेटी सेवा संघ, संतोष नगर बेहराम बाग, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई – 440102, महाराष्ट्र ।   |
| 315. | भारतीय अवाम ताकत दल                             | ग्राम सुजनडीह, रामपुर पोस्ट, शोहंसा मुंगरा बादशाहपुर तहसील, मछलीशहर जिला, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, 222204   |
| 316. | भारतीय बैकवर्ड पार्टी                           | 71, सूर्य अपार्टमेंट्स, फ्रेजर रोड, पटना – 800001 (बिहार) ।  |
| 317. | भारतीय बहु जन कांग्रेस                          | 117, खोडियारकृपा सोसायटी, कंठरेश्वर महादेव मंदिर के पास, कतारगाम, सूरत, गुजरात ।   |
| 318. | भारतीय बहु जन परिवर्तन पार्टी                   | खसरा नं० 1392, ग्राम लखवाया रसूलपुर रोहटा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।  |
| 319. | भारतीय बहु जन पार्टी                            | 156, भरौली, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।   |
| 320. | भारतीय बहु जन समता पार्टी                       | ग्राम व पोस्ट- सुरजननगर, जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244602   |
| 321. | भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल                  | बंसल गांव, पो. ऑ. – धेघाट, पट्टी-मल्ला, चौकौट, जिला – अल्मोडा (उत्तराखण्ड) ।   |
| 322. | भारतीय बौद्धिक विचार पार्टी                     | गाँव-बल्लानगला पट्टी, पो० शाहपुर खेडी, तह० – धामपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।   |
| 323. | भारतीय छात्रसंघ भारत                            | प्रेमधन मार्ग, बदली घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश – 231 001 ।   |
| 324. | भारतीय कांग्रेस (एम)                            | 16, बतरा कालोनी, एम. टी. एक्स सोनीपत, हरियाणा ।  |
| 325. | भारतीय कांग्रेस पक्ष                            | कसबापेठ, लिंबवाली सवारी के सामने, मु० पोस्ट – बार्षी, जिला – सोलापुर, महाराष्ट्र ।   |
| 326. | भारतीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायंस पार्टी       | मकान सं० 198, मोहल्ला कच्छपुरा, शाक्य नगर, वार्ड नं० 8, पोस्ट राजा का रामपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश ।   |
| 327. | भारतीय डेवलपमेन्ट पार्टी                        | मकान नं० 358, अथीरा, कुरा पोस्ट कोट्टाराक्करा, कोल्लम, केरल – 691557   |
| 328. | भारतीय डा० बी० आर० अम्बेडकर जनता पार्टी         | नं० 18, बारहवीं क्रॉस, एम० टी० एस० लेआउट, केनगिरी उपनागरा, बेंगलूरु – 560060 कर्नाटक ।   |
| 329. | भारतीय एकलव्य पार्टी                            | गांव व पो० – बेल्हार कलां, तहसील मेहडावल, जिला – संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश ।  |
| 330. | भारतीय एकता दल                                  | 189, बसंत अपार्टमेंट, बसंत विहार, नई दिल्ली – 57.  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 331. | भारतीय गन परिषद                              | मकान नं. 3, बाय लेन नं. 4, वार्ड नं. 16, बिष्णुराभा पथ, लालगणेश (उदालवाक्रा), थाना- दिसपुर, जिला- कामरूप मैट्रो, गुवाहाटी, असम- 781034 |
| 332. | भारतीय गांव ताज दल                           | ग्राम – कुका, पो०ओ० मक्सूदपुर, जिला – कपूरथला, पंजाब ।   |
| 333. | भारतीय ग्रामीण दल                            | आर्यवत प्रकाशन मंदिर, बस स्टाप, गोसाईगंज, जनपद – लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।  |
| 334. | भारतीय इन्कलाब पार्टी                        | ग्राम राणा प्रताप नगर, इस्लामपुर, पो० व थाना – इस्लामपुर, जिला – नालन्दा, बिहार, पिन – 801303.   |
| 335. | भारतीय जागृति दल                             | आर. जेड 21 – डी, गली नं० 4, सिडिकेट एन्क्लेव, निकट डाबड़ी मोड, दिल्ली – 110045   |
| 336. | भारतीय जय भीम पार्टी                         | 1304, भानतलैया, सिंधी कैम्प, जिला- जबलपुर, मध्य प्रदेश ।   |
| 337. | भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल                  | आर० टी०ओ० ऑफिस के पास, हु सैनगंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश ।  |
| 338. | भारतीय जन जागृति पार्टी                      | बृजधाम आश्रम, रणहेरा, तहसील – छाता, जिला – मथुरा (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 339. | भारतीय जन किसान पार्टी                       | 1080C, बाबाजी का बाग, तिलक रोड, बलुआ घाट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।   |
| 340. | भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)          | एफ-23, सैनिक सोसायटी, शक्ति नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।   |
| 341. | भारतीय जन सभा                                | मार्फत राजाराम यादव, रघुवीर नगर, न्यू कॉलोनी, देवरिया (उत्तर प्रदेश) ।   |
| 342. | भारतीय जन समाजवादी पार्टी,                   | ए – 62, जे० जे० कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली – 110062.  |
| 343. | भारतीय जनक्रांति पार्टी                      | 12/17, चकखुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।  |
| 344. | भारतीय जनवादी पार्टी                         | ए-559, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलन्द मस्जिद, दिल्ली-110053.   |
| 345. | भारतीय कार्यस्थ सेना                         | 121, विष्णु कॉलोनी शाहगंज, आगरा – 282010. उत्तर प्रदेश।  |
| 346. | भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी                 | नगला दखाल, कोटला रोड, फिरोजाबाद – 283203, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।  |
| 347. | भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक                | मकान नं० -392/1, चक रघुनाथ, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।   |
| 348. | भारतीय क्रान्तिकारी दल                       | ए-5, प्रियदर्शनी विहार, नई दिल्ली-110092.  |
| 349. | भारतीय लोक कल्याण दल                         | एरिया/पोस्ट/तहसील-बिकाबुर, जिला-फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) ।   |
| 350. | भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी (गांधी-लोहियावादी) | सत्यवती निवास, राम दास पथ, मीठापुर बी. ऐरिया, पटना-800001, बिहार ।   |
| 351. | भारतीय मानवता विकास पार्टी                   | 133/4, कुतब एन्क्लेव, फेस-II, नई दिल्ली- 110016.   |
| 352. | भारतीय माइनारिटीज सुरक्षा महासंघ             | 410, अर्कडिया बिल्डिंग, सर जे.जे. रोड, जे.जे. हॉस्पिटल के सामने मुम्बई-400008. (महाराष्ट्र)।   |
| 353. | भारतीय मोमिन फ्रंट                           | 174, आनन्दपुरी, बेस्ट बोरिंग, कैनाल रोड, पटना 800001 (बिहार) ।   |
| 354. | भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी                | 77/129, भगत सिंह कालोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।   |
| 355. | भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इण्डिया)           | म.नं.-18184, चंदसार बस्ती, अटिण्डा-151001. (पंजाब)।  |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 356. | भारतीय नागरिक पार्टी                         | गांव-कनासी, पो. ओ. -कनासी,<br>जिला-फर्रुखाबाद-207501 (उत्तर प्रदेश)।  |
| 357. | भारतीय नेशनल जनता दल                         | 701, सातवीं मंजिल, मेघमल्हार काम्पलेक्स, सेक्टर नं० 11,<br>गांधीनगर, गुजरात-382010                                      |
| 358. | भारतीय नव क्रान्ति पार्टी                    | गांव-मखमैलपुर, पोस्ट-सरायखवाजा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश<br>।  |
| 359. | भारतीय नवयुवक चेतना पार्टी                   | 429/263, निकट अम्बर मैरिज हॉल, मौज्जम नगर, लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश ।  |
| 360. | भारतीय नवयुवक पार्टी                         | मकान नं० 572, बाई साहब की परेड, प्रिया ब्रेड फैक्टरी के पास,<br>लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ।              |
| 361. | भारतीय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी               | ग्राम व पोस्ट- डारा,<br>थाना- जयनगर,<br>जिला- दक्षिण 24 परगना,<br>पश्चिम बंगाल- 743337                                  |
| 362. | भारतीय परिवर्तन कांग्रेस                     | 126, आदिवासी कॉलोनी, राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज कैंसर<br>हॉस्पिटल के निकट, मानेवाडा रोड,<br>नागपुर-440027, महाराष्ट्र । |
| 363. | भारतीय परिवर्तन पार्टी                       | 70-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पाण्डव नगर, मेट्रो स्टेशन शादीपुर के<br>पास, नई दिल्ली- 110008.                                 |
| 364. | भारतीय पीपुल्स पार्टी                        | टी-9, 295/16/11, शिवशक्ति नगर, सैयद चिनचौली रोड,<br>फिल्टर बेड, गुलबर्गा,<br>कर्नाटक-585104.                            |
| 365. | भारतीय पिछड़ा दल                             | ग्राम-खुजरी, पोस्ट-सागर, वाया-चकरमाथा कैम्प, जिला-<br>बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495 220 ।                                     |
| 366. | भारतीय प्रजा पक्ष                            | नं. 374/ए, प्रथम तल, 1-ब्लॉक, 1-क्रॉस, रविन्द्र नाथ टैगोर नगर<br>(आर.टी.नगर), बंगलोर-560032 (कर्नाटक)                   |
| 367. | भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी,                    | 29/3, पंचकुईयाँ, झांसी, उत्तर प्रदेश ।  |
| 368. | भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल | मिस्ट्रा, जिला जांजगीर, विकास खण्ड नवगढ़, छत्तीसगढ़ांचल,<br>छत्तीसगढ़ ।   |
| 369. | भारतीय पूर्वांचल पार्टी                      | ई-68, प्रेमचन्द कॉलोनी, पांडेयपुर(1), वाराणसी,<br>उत्तर प्रदेश ।  |
| 370. | भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष                      | 12, जूना पावर हाऊस, रोटरी हाल के पीछे, जेल रोड, मेहसाना<br>(गुजरात), पिन-384002.  |
| 371. | भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी             | एफ-402, रोड सं० 9-एफ, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर-<br>302 013, राजस्थान  |
| 372. | भारतीय राष्ट्रीय बहु जनसमाज विकास पार्टी     | जी-96, 'शांतिपुरम फाफामऊ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।  |
| 373. | भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी                | सी-2968, सपना कॉलोनी, लखनऊ-226017,<br>(उत्तर प्रदेश) ।  |
| 374. | भारतीय राष्ट्रीय महिला सर्वोदय कांग्रेस      | नं० 2, प्रथम तल, वायुपुत्र आर्केड, वार्ड नं. 15, नियर एन.टी.टी.<br>एफ, पी.बी. रोड, धारवाड, जिला- धारवाड, कर्नाटक-580001 |
| 375. | भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल                    | नया सर्राफा, ग्वालियर-474001 (मध्य प्रदेश) ।  |
| 376. | भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा                      | डी-6, प्रताप बाग कॉलोनी, नया हनुमान मन्दिर, अलीगंज,<br>लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 377. | भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी कांग्रेस पक्ष       | 308, रामनगरी, 2/सी, तीसरा तल, अलन्दी रोड, भोसरी, पुणे-<br>411039, महाराष्ट्र ।  |
| 378. | भारतीय रविदास पार्टी                         | मोहल्ला-कुंडगढ़, पोस्ट-सदर, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ।   |

|      |                                     |  |
|------|-------------------------------------|--|
| 379. | भारतीय रिपब्लिकन पक्ष               | डा. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र)।  |
| 380. | भारतीय सद्भावना समाज पार्टी         | खान मंजिल खपाड़गंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।   |
| 381. | भारतीय समाज दल                      | 85, चौक माकान्डु गंज, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)।  |
| 382. | भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत      | रवेन्द्र इलेक्ट्रॉनिक्स, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।  |
| 383. | भारतीय सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी | ए-1/150, अमन विहार, नांगलोई, नई दिल्ली -110041   |
| 384. | भारतीय समाट सुभाष सेना              | ग्राम . अजीतपुर पो. वृ. कनखल<br>लक्सर रोड हरिद्वार उत्तराखण्ड . 249408   |
| 385. | भारतीय समता समाज पार्टी             | ग्राम-देहरामऊ, पोस्ट-गोसाईगंज,<br>जिला-लखनऊ - 227 125 (उ.प्र.)   |
| 386. | भारतीय संग्राम परिषद                | 48, बैंक स्ट्रीट, खटाव बिल्डिंग,<br>गाउंड फ्लोर, एस. बी. एस. रोड,<br>ओल्ड कस्टम हाउस के सामने, फोर्ट,<br>मुंबई, महाराष्ट्र - 400001                              |
| 387. | भारतीय सन्त मत पार्टी               | बहु झोलरी रोड, ग्राम व पोस्ट - नाहर,<br>तहसील - कोसली, जिला - रेवाड़ी, हरियाणा।  |
| 388. | भारतीय सर्वकल्याण क्रान्ति दल       | 2/643/सी, रामाबाग कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202 001<br>(उत्तर प्रदेश)।  |
| 389. | भारतीय सर्वोदय क्रान्ति पार्टी      | 113, मलिकपुर, जी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009.   |
| 390. | भारतीय सत्य विजयी पार्टी            | सी-120, बेगम विहार ऐक्सटेंशन, बेगमपुर,<br>दिल्ली -110086.  |
| 391. | भारतीय सत्यार्थ संगठन               | भारत नगर, प्रेम विद्यालय- रेलवे क्रॉसिंग, राधापुरम<br>हाउसिंग कॉलोनी के सामने, बिरला मंदिर के पास,<br>वृन्दावन रोड, जीटीवी- 3, मथुरा-281,003,<br>(उत्तर प्रदेश)। |
| 392. | भारतीय शक्ति सेना                   | शक्ति सेना भवन, बैरियर नं० 6, औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद,<br>हरिद्वार - 249 402 उत्तराखण्ड।   |
| 393. | भारतीय श्रमिक दल                    | एल-238, विकास प्राधिकरण कॉलोनी, इंदिरा नगर, राय बरेली<br>(उत्तर प्रदेश)।   |
| 394. | भारतीय सुभाष सेना                   | ग्राम और पो. ऑ. बानकासिया शिवरतन सिंह, जनपद-गोन्डा-<br>271302 (उत्तर प्रदेश)।  |
| 395. | भारतीय सुराज दल                     | सिन्हा भवन, एग्जिविशन रोड, रिजर्व बैंक के पीछे, पटना,<br>बिहार - 800001  |
| 396. | भारतीय स्वजीवी नागरिक पार्टी        | ग्राम- कुरिहा, पोस्ट- रुद्रपुर कोरवा,<br>थाना व तहसील- रुद्रपुर, जिला- देवरिया,<br>उत्तर प्रदेश।   |
| 397. | भारतीय स्वतन्त्र पार्टी             | गांव-नौगाई, पो.ऑ. रघुनाथपुर तहसील, वाडरुफनगर, जिला-<br>सरगुजा, छत्तीसगढ़।  |
| 398. | भारतीय उत्तम सेना                   | ग्राम व पोस्ट - खेड़ाय, थाना - आन्दर, जिला - सिवान, बिहार।   |
| 399. | भारतीय युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)    | वार्ड सं-54, सक्किल सं-71,<br>बिस्कोमान गोलम्बर, बी.एस.एन.एल, टेलिफोन एक्सचेंज के<br>पास, पोस्ट ऑफिस- गुलजारबाग,<br>कुम्हार, पटना, बिहार-800007.                 |
| 400. | भारतीय युवा शक्ति                   | हवेलियों का वास, ग्राम पंचायत, कोसेवाल,<br>तहसील-सुमेरपुर, जिला - पाली, राजस्थान।  |

|      |                                |   |
|------|--------------------------------|---|
| 401. | भारतराष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी | शॉप नं० - 22, सी एस सी-II, डी डी ए मार्केट, आई. पी. एक्सटन्सन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092                      |
| 402. | भारिपा बहु जनमहासंघ            | डॉ. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र)।                                       |
| 403. | भारती समाजवादी मोर्चा          | 3/1108, देहरादून चौक, सहारनपुर-247001. (उत्तर प्रदेश)।  |
| 404. | भारती जन सुरक्षा पार्टी        | प्रधान कार्यालय, धौलवाहा मार्ग, हीरा कालोनी के समीप, टाउन एवं पो०ओ० हरिआना, जिला होशियारपुर, पंजाब-144208     |
| 405. | भारती लोक लहर पार्टी           | 136, अजीत नगर, अमृतसर (पंजाब)।  |
| 406. | भारती समुदाय पार्टी            | 7 सी-10, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, थाना - पी० जी० आई०, तहसील - लखनऊ, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002   |
| 407. | भारतीय आम आदमी परिवार          | 1000 जय अम्बे अपार्टमेन्ट, डी०डी०ए०एल०आई०जी० फ्लैट्स, न्यू कोडाली, मयुर विहार फेज-3, दिल्ली- 110096           |
| 408. | भारतीय आम जनता विकास पार्टी    | ग्राम व पोस्ट- दुलमा, थाना- मधुबन मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार।                                      |
| 409. | भारतीय अहिंसा पार्टी           | 728, निराला नगर, अयोध्यापुरी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।   |
| 410. | भारतीय अंत्योदय पार्टी         | 8- प्रीत विहार, फेज- 11, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248171                          |
| 411. | भारतीय आर्य क्रान्ति मंच       | 83 राम वाटिका, कॉलोनी, गीता पैलेस के पीछे, श्यामगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश - 243005                             |
| 412. | भारतीय अवाम एक्टिविस्ट पार्टी  | गाँव- केशरू, थाना- चन्दौती, जिला- गया, बिहार- 823002  |
| 413. | भारतीय अवाम पार्टी (राष्ट्रीय) | मकान नं०-30 (बी०पी०20), बेचूपुर पटेलनगर, (40 फीट रोड), मुगलसराय, जिला-चन्दौली, उत्तर प्रदेश। पिन कोड -232 101 |
| 414. | भारतीय आजाद सेना               | 15 नं० चौक, बड़कागांव, जिला- हजारीबाग, झारखण्ड- 825311  |
| 415. | भारतीय चैतन्य पार्टी           | बी-97, पंचशील विहार, निकट शेख सराय, कम्यूनिटी सेन्टर, नई दिल्ली।  |
| 416. | भारतीय दलित कांग्रेस           | चौपड़ा पारा, काली मंदिर के पीछे, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -497001।                                  |
| 417. | भारतीय दलित पार्टी             | खाता सं०- 269, मौ०- विजयनगर, पोस्ट- विजयनगर, अँचल- बाँका, जिला- बाँका, बिहार।                                 |
| 418. | भारतीय देशभक्त पार्टी          | 92/एच/2, प्रताप मार्केट, मुनीरका, (मार्फत सोमू प्रेस), नई दिल्ली- 110067.                                     |
| 419. | भारतीय देशभक्त संघ (ब्रजेश)    | शॉप नं० -1, खसरा नं० 1494, नेहरू इन्कलेव, बैंक वाली गली, अलीपुर, दिल्ली- 110036.                              |
| 420. | भारतीय एकता मंच पार्टी         | शबाब बिल्डिंग, टैगोर मार्ग, नदवा रोड लखनऊ 226020, उत्तर प्रदेश।   |
| 421. | भारतीय गांधीवादी पार्टी        | ग्राम व पोस्ट- गड़वार, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश।   |

|      |                                |  |
|------|--------------------------------|--|
| 422. | भारतीय गणतंत्र पार्टी          | मकान नं. 5, गंगाधाम, कुन्दन नगर, बाग मुगालिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।                          |
| 423. | भारतीय गोरखा जनशक्ति           | 26/2, एच.डी. लामा रोड दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल)।   |
| 424. | भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी  | एकता विहार, लेन नं. -1, ग्रामसभा- आमवाला तल्ला, पीओ - कण्डोली, सहस्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड -248001। |
| 425. | भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी     | भवन नं० 15/357, भरोसी की धर्मशाला, पंचम वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश-476001                     |
| 426. | भारतीय ग्रामवासी पार्टी        | ग्राम - विक्रमपुर बाँसपार (मणि चौराहा), पो० - बैतालपुर, जिला - देवरिया, उत्तर प्रदेश                       |
| 427. | भारतीय हरित क्रान्ति दल        | गांव व पो० सोन्टा, वायां - अलीपुर, खेरी, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।                                   |
| 428. | भारतीय हरित पार्टी             | निकट हंस प्राकृतिक चिकित्सालय, मीरापुर रोड, जानसठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251314                       |
| 429. | भारतीय हिन्द एकता दल           | डिफेन्स कालोनी, अनिल शहीद नगर, इज्जतनगर, नैनीताल रोड, बरेली - 243122 उत्तर प्रदेश।                         |
| 430. | भारतीय ईमानदार पार्टी          | सिंधौली, तहसील - पुवायॉ, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।   |
| 431. | भारतीय इंसान पार्टी            | नं० - 84, चतुर्थ तल, बट्ला हाउस, खलीलुल्लाह मस्जिद के पास, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025।             |
| 432. | भारतीय जागरण पार्टी            | पूर्वी नवादा, आरा, भोजपुर- 802301, बिहार।  |
| 433. | भारतीय जन हित विकास पार्टी     | 220, इन्द्रापुरी, जैकबपुरा रोड, गुड़गाँव, हरियाणा - 122001   |
| 434. | भारतीय जन हितकारी पार्टी       | प्लॉट नं० 31-32, शिवनगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान   |
| 435. | भारतीय जन मानस पार्टी          | मकान संख्या - 262 घ, सरसवाँ, थाना - अर्जुनगंज, अर्जुनगंज, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002।      |
| 436. | भारतीय जन मंच                  | 361, गली नं० 13, बुद्ध विहार, (बड़े स्कूल के पीछे), मंडोली गांव, नन्द नगरी, दिल्ली -110093।                |
| 437. | भारतीय जन नायक पार्टी          | 418, न्यू गोविन्द पुरी, कंकर खेड़ा, मेरठ कैन्ट, उत्तर प्रदेश।  |
| 438. | भारतीय जन सहयोग पार्टी         | 8/6, जूही सफेद कॉलोनी, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208014   |
| 439. | भारतीय जन सनमति पार्टी         | ग्राम- हरौला, सेक्टर -5, नोएडा, उत्तर प्रदेश।  |
| 440. | भारतीय जन सेवा पार्टी          | शरीफ मार्केट, हरदोई रोड, सिकरोरी, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -227107                                 |
| 441. | भारतीय जन युग पार्टी           | हीरा नगर, पुरानी छावनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश - 474010   |
| 442. | भारतीय जन काँग्रेस (राष्ट्रीय) | 113/70 बी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना -800023, (बिहार)।   |
| 443. | भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टी   | ए-3, रूम नं. 602, छठा माला, आर.एन. ए. पार्क, वाशी नाका, आर.सी. मार्ग, चेम्बुर, मुंबई - 400074, महाराष्ट्र  |
| 444. | भारतीय जनहित दल                | डी-1/535, जे.जे.कलस्टर, भलस्वा डेरी, नई दिल्ली - 110042  |

|      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| 445. | भारतीय जनमुक्ति पार्टी             | ग्राम - डुन्डुर, पोस्ट - लठैया, थाना - छतरपुर, जिला - पलामू, झारखण्ड - 822116   |
| 446. | भारतीय जनता दल                     | सी-16, संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।  |
| 447. | भारतीय जनता दल (इंटिग्रेटिड)       | मकान नं०-62, गली नं०-16, ए-1 ब्लॉक, सन्त नगर, (बंगाली कॉलोनी), बुराड़ी रोड, दिल्ली-110084।  |
| 448. | भारतीय जनता की एकता पार्टी         | प्लॉट संख्या 29-ए एण्ड 30ए, खसरा नं० 20/1/1, गांव राजापुरा खुर्द दिल्ली, कालोनी मोहन गार्डन, आर-III, ए-2, नई दिल्ली - 110059                    |
| 449. | भारतीय जनता सेक्यूलर पार्टी        | सर्वमंगला नगर, दुरपा, वार्ड नं. 45, पोस्ट- दुरपा, थाना- कुसमुण्डा, तहसील- कटघोरा, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़- 495677                                |
| 450. | भारतीय जनतांत्रिक जनता दल          | 1, दरोगा राय पथ, पटना- 800001, बिहार।   |
| 451. | भारतीय कौटिल्य सेना                | आर 14/6 (बेसमेंट), राजनगर, स्कवायर माल के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश  |
| 452. | भारतीय किसान जनशक्ति पार्टी        | मकान नं० 600, वार्ड नं० 5, घसियारीपुरा, नौवागढ़ी, बहराइच, उत्तर प्रदेश  |
| 453. | भारतीय क्रांति वीर पार्टी          | ग्राम- काजीचक, पोस्ट व पुलिस स्टेशन- संदेश, जिला- भोजपुर, बिहार-802164.   |
| 454. | भारतीय कृषक दल                     | 197, कौशलपुरी (सरला बाजपेयी का बाग), सुभाष नगर के दक्षिण, जनपथ, हरदोई, उत्तर प्रदेश।  |
| 455. | भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी    | ग्राम व पोस्ट- सदाय बिगहा-165, बड़हिया, जिला- लखीसराय, बिहार- 811302.   |
| 456. | भारतीय लोकशाही पार्टी              | खडका रोड, रामदेव बाबा मंदिर, ता०- भुसावल, जिला- जलगांव, महाराष्ट्र- 425201  |
| 457. | भारतीय लोकस्वराज्य पार्टी          | सुभाष नगर, अष्टविनायक कॉलोनी, जि० प० प्राथमिक शाळे समोर, डी० पी० भोसले कॉलेज जवळ, सुलतानवाडी रोड, ता० कोरेगांव, जिला- सतारा, महाराष्ट्र- 415501 |
| 458. | भारतीय महाशक्ति मोर्चा             | जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन- 209601.   |
| 459. | भारतीय मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी | डी-40, मेरठ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद -121003, उत्तर प्रदेश।   |
| 460. | भारतीय मित्र पार्टी                | सर्कल -10, होल्डिंग सं० -79ए/64, मोहल्ला - गोला रोड, बाकरगंज, जिला- पटना, बिहार- 800004   |
| 461. | भारतीय नौजवान इन्कलाव पार्टी       | 2/26, मन्डौली एक्सटेंशन, मन्डौली चुंगी, शाहदरा, दिल्ली- 110093.   |
| 462. | भारतीय नव विकास पार्टी             | 60, सीडा मोहल्ला, चिल्ला गाँव, नियर साई मंदिर, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091  |
| 463. | भारतीय नवजवान सेना (पक्ष)          | श्री. मोरया पार्क, शॉप नं०-4, सोमनाथनगर, सोमनाथ मंदिर के पास, वडगांवशेरी, पुणे-411014, महाराष्ट्र।  |
| 464. | भारतीय नवोदय पार्टी                | ग्राम- अहेरिया, पोस्ट- चकरनगर, चकरनगर चौराहा, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश।  |



|      |  |  |
|------|--|--|
| 465. | भारतीय न्यू संस्कार क्रांतिकारी पार्टी | ग्राम व पोस्ट- सहसराँव, भाया- भगवानपुर हाट,<br>जिला- सिवान, बिहार-841408   |
| 466. | भारतीय नौजवान दल                       | सेक्टर-6, पॉकेट बी-2, म.न. 23, रोहिणी,<br>नई दिल्ली- 110085.   |
| 467. | भारतीय पार्टी                          | न्यू कॉलोनी, पोस्ट-नीम का थाना, जिला-सीकर, राजस्थान –<br>332713  |
| 468. | भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस              | डी.43, राजधानी पार्क, नांगलोई, दिल्ली -110041.   |
| 469. | भारतीय प्रजा जन पार्टी                 | नारायणपुर रोड, कस्बा बानसूर, जिला-अलवर, राजस्थान ।   |
| 470. | भारतीय प्रजातन्त्र निर्माण पार्टी      | 7/7/47-ए न्यू कॉलोनी लाल बाग,<br>पोस्ट ऑफिस – फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।  |
| 471. | भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी              | 357/3, श्याम नगर, गली नं० -1,<br>काली मन्दिर के पीछे, फॉयसागर रोड,<br>अजमेर, राजस्थान – 305001                   |
| 472. | भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी          | ग्राम – नयाटोला बरियारपुर, पंचायत – चम्पापुर, वार्ड नं० 13,<br>थाना – बख्तियारपुर, जिला – पटना बिहार ।           |
| 473. | भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी              | जे- 74ए, गली नं. 14, खसरा नं. 6/14, स्वरूप नगर,<br>दिल्ली- 110042.   |
| 474. | भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता               | 2604/ 207, पार्ट II फ्लोर, नई सड़क, दिल्ली – 110006.   |
| 475. | भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (इन्सान)       | ग्राम – महुआरी पो० जंगीगंज, जिला – सं० र० न० भदोही, उत्तर<br>प्रदेश ।  |
| 476. | भारतीय रोजगार पार्टी                   | ई-77, पुराना जसोला गाँव, निकट मेट्रो पिलर नं०- 141,<br>जसोला, निकट जामिया को-ऑपरेटिव बैंक,<br>नई दिल्ली-110025 । |
| 477. | भारतीय सामाजिक क्रान्ति दल             | गांव- सुवारी, पोस्ट-दानगंज, जिला-वाराणसी,<br>उत्तर प्रदेश ।  |
| 478. | भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा            | वार्ड नं० - 12, शीतला मंदिर के पास,<br>राबर्टसगंज, जनपद - सोनभद्र,<br>उत्तर प्रदेश – 231216                      |
| 479. | भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी            | गांव व डाकखाना – सेरसा, तहसील व जिला – सोनीपत,<br>हरियाणा ।  |
| 480. | भारतीय सामाजिक पार्टी                  | 6, बस स्टैंड, अलिराजपुर,<br>जिला - अलिराजपुर,<br>मध्य प्रदेश – 457887  |
| 481. | भारतीय समाजवादी सेना                   | भवन संख्या- एस.-2/525, मोहल्ला- सिकरौल,<br>पोस्ट- कैण्टूनमेण्ट, जिला- वाराणसी,<br>उत्तर प्रदेश- 221002           |
| 482. | भारती सवैधानिक जनहित पार्टी            | विक्र गोल्ड फार्म, गांव - सरायजोगा, पोस्ट-कान्था, नवाबगंज<br>उन्नाव, उत्तरप्रदेश।                                |
| 483. | भारतीय सर्वजन हितेय समाज पार्टी        | अनंत विहार कॉलोनी, दलदल सिवनी मार्ग, मोवा, रायपुर,<br>छत्तीसगढ़।   |
| 484. | भारतीय सर्वजन पार्टी                   | गांव-रामपुर, हाटा मार्ग, पोस्ट-गौरी बाजार,<br>जिला-देवरिया-274202, उत्तर प्रदेश।                                 |
| 485. | भारतीय सर्वोदय पार्टी                  | 152/126, पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून-248001, उत्तराखण्ड ।  |
| 486. | भारतीय सर्वसमाज पार्टी                 | लाल सिंह कचरी वाला, शनि बाजार वाली गली, टुण्डा नगर,<br>जौहरी पुर, दिल्ली ।                                       |
| 487. | भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी              | ग्राम-बिड़िया, थाना-मंडला, जिला-मंडला, मध्य प्रदेश ।   |

|      |                                     |   |
|------|-------------------------------------|---|
| 488. | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी           | वार्ड नं० 18, ग्राम - खामदार, पो० मोड,<br>तहसील-व्योहारी, जिला - शहडोल, मध्य प्रदेश                                       |
| 489. | भारतीय शक्ति दल                     | डी - 236, विवेक विहार, दिल्ली - 110095 ।  |
| 490. | भारतीय शान्ति क्रान्ति पार्टी       | 1/80, रतन विहार, किराडी, नांगलोई,<br>नई दिल्ली - 110041   |
| 491. | भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट           | वामन नगर पतेरी, सेक्टर - 20, जिला - सतना,<br>मध्य प्रदेश ।  |
| 492. | भारतीय श्रमिक पार्टी                | 79/4, जूहीसफेद कॉलोनी, साकेत नगर,<br>कानपुर नगर - 208014, उत्तर प्रदेश ।  |
| 493. | भारतीय स्वर्ण समता पार्टी           | 201-सी, गोयल एन्कलेव, फैजाबाद रोड, चिनहट लखनऊ उ. प्र.   |
| 494. | भारतीय तारक समाज पार्टी             | 465ए बिनौली, तहसील- बडौत, जिला- बागपत,<br>उत्तर प्रदेश- 250645  |
| 495. | भारतीय ट्रायबल पार्टी               | मु.पो. चंदेरिया, तालुका- वालिया, जिला- भरूच,<br>गुजरात  |
| 496. | भारतीय वंचितसमाज पार्टी             | ग्राम - भुड़िया (फगुहा), तह० व जिला - कन्नौज,<br>उत्तर प्रदेश।  |
| 497. | भारतीय वीर किसान पार्टी             | ग्राम-खापरखेडा, तालुक- जफ्राबाद, जिला- जालना,<br>महाराष्ट्र।  |
| 498. | भारतीय विकास पार्टी                 | 139-बी, टामुरनगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली ।   |
| 499. | भारतीय विस्तारवादी पार्टी           | ग्राम-श्यामपुर, पो० - दुगरेई, जिला - फतेहपुर,<br>उत्तर प्रदेश ।   |
| 500. | भारतीय युवा स्वाभिमान पार्टी        | 196769ए मोहल्ला दृ नारायनपुरए<br>शुक्ला आटा चक्की के पासए गोविन्द नगरए औरैयाए<br>उत्तर प्रदेशदृ 206122                    |
| 501. | भारतीय युवा पार्टी राष्ट्रवादी      | मकान नं० 139ए सोनवरसा बैरियाए<br>जिला. बलियाए उत्तर प्रदेश 277208   |
| 502. | अष्टाचार मुक्ति मोर्चा              | चन्द्रनगर कुरुद रोड कोहका, भिलाई,<br>जिला व तहसील - दुर्ग, छत्तीसगढ़।   |
| 503. | अष्टाचार विरोधी दल                  | आर.जेड.डी.-120सी, निहाल विहार(नानगलोई), दिल्ली-<br>110041   |
| 504. | बिहार जनता पार्टी                   | ग्राम - जेल शहर, ओल्ड रिमाण्ड होम, धर्मनाथ मन्दिर रोड,<br>दौलतगंज, सारण, बिहार - 841301                                   |
| 505. | बिजु स्वाभिमान दल                   | प्लॉट नं० 40, उमापदा, स्टेडियम वी आई पी रोड, पी ओ - एफ<br>सी प्रोजेक्ट, कलिंग नगर, जाजपुर रोड, जाजपुर, ओड़िसा -<br>755020 |
| 506. | बीरा ओड़िया पार्टी                  | मार्फत - श्री पी. सामन्तरे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त),<br>स्था./पो.ऑ. - मधुपटना, कटक - 10 (उड़िसा) ।                         |
| 507. | बोल्शैविक पार्टी ऑफ इंडिया          | डा. शशिकान्त वायेकर, 9 भुपेशनगर, गोरेवाडा रोड, नागपुर-<br>440013, महाराष्ट्र ।  |
| 508. | ब्रज विकास पार्टी                   | ए-193, ट्रांस यमुना कालोनी, फेस - II,<br>आगरा - 286002, उत्तर प्रदेश ।  |
| 509. | बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी | पैलेस के पीछे, किशोरगंज पन्ना, जिला- पन्ना,<br>मध्य प्रदेश ।  |
| 510. | ब्रिज क्रान्ति दल                   | 16, हरियाणा भवन, दयाल बाग, आगरा - 5,<br>उत्तर प्रदेश ।  |
| 511. | बुद्धिविवेकी विकास पार्टी           | आर(यू)-9, द्वितीय तल, पीतमपुरा, दिल्ली - 110088.  |
| 512. | बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी             | बुंदेली सदन, ग्राम एवं पो० - सतारी, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश।   |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 513. | बुन्देलखण्ड काँग्रेस   | 56, ज्वाला हेड़ी मार्केट, शर्बती काम्प्लेक्स, पश्चिम विहार, दिल्ली – 110063.  |
| 514. | बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा  | श्री सुखलाल आइस फैक्ट्री भवन, इलीट चौराहा, झांसी – 284001, (उत्तर प्रदेश) ।   |
| 515. | चैलेंजर्स पार्टी   | दुर्गेश निवास, विठोबा मंदिर के सामने, 68/XX, टेलर स्ट्रीट, काउलबाजार, बेल्लारी, कर्नाटक - 583102 ।                          |
| 516. | चंडीगढ़ विकास पार्टी   | मकान नं० 230, सेक्टर 9-सी, चंडीगढ़ – 160009.  |
| 517. | छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा  | पो. ऑ. दल्ली राजहारा, जिला – दुर्ग- 491228. (छत्तीसगढ़) ।   |
| 518. | छत्तीसगढ़ नव निर्माण सेन   | सी० आर० 12, आर० डी० ए० बिल्डिंग, गुरुनानक मार्केट, शारदा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।  |
| 519. | छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी  | रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ – 497001   |
| 520. | छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी                                   | बजरंग नगर (तात्यापारा वार्ड), रायपुर, छत्तीसगढ़।  |
| 521. | छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच  | 21, बतीस बंगला, भिलाई नगर, जि० – दुर्ग- 490006 छत्तीसगढ़ ।  |
| 522. | छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी                            | खोंगापानी, जिला - कोरिया छत्तीसगढ़ – 497447   |
| 523. | छत्तीसगढ़ विकास पार्टी   | ए-12, फ्लाश विहार, न्यू पुरैना, पोस्ट ऑफिस-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।  |
| 524. | छत्तीसगढ़ समाज पार्टी  | हांडीपाड़ा आजाद चौक, रायपुर – 492001. (छत्तीसगढ़)।  |
| 525. | छत्तीसगढ़िया पार्टी  | म०नं०-93, ग्राम- धनरास, पोस्ट- छुरी, तहसील- कटधोरा, जिला- कोरवा, छत्तीसगढ़ – 495450   |
| 526. | चिल्ड्रन फर्स्ट पार्टी ऑफ इंडिया                                 | 703-704, देवथा प्लाजा, 132, रेजीडेंसी रोड, बेंगलुरु -560025, कर्नाटक ।  |
| 527. | क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट                                     | नं. 9, रोसारी चर्च रोड, सनथोमे, चेन्नई – (तमिलनाडु) ।   |
| 528. | क्रिश्चियन मुन्नेत्र कडगम  | 93 तैयप्पा मुदाली स्ट्रीट, चेन्नई – 600001. (तमिलनाडु)।   |
| 529. | कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी                   | कुन्नुकुड़ी त्रिवेन्द्रम – 695037, (केरल) ।   |
| 530. | कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | यू-90, शक्करपुर, दिल्ली – 110092.   |
| 531. | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) रेड स्टार | सी-141, सैनिक नगर, नई दिल्ली - 110059 ।   |
| 532. | काँग्रेस (सेक्युलर)  | राम राज भवन, मनीक्काठ रोड, कोचीन – 16 (केरल) ।  |
| 533. | करप्शन एबोलिशन पार्टी  | मकान नं० – 219, गाँव व डाकखाना – शेरिया, तहसील – बेरी, जिला – झज्जर, हरियाणा  |
| 534. | दलित कान्ति दल   | जाति मेघवाले, गांव पोस्ट – धौलीपाल, तहसील व जिला – हनुमानगढ़ (राजस्थान) ।   |
| 535. | दलित मजदूर किसान पार्टी  | इ-11/77 न्यू कॉलोनी, हौज रानी मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110017.   |
| 536. | दलित समाज पार्टी   | नव चेतना पथ, शिवपुरी, पो. ऑ. – अनीशाबाद, पटना – 800002, (बिहार) ।   |
| 537. | दलित विकास पार्टी (भारत)   | हाई स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 3, गांव व पोस्ट – घुनवारा, तहसील – मैहर, जिला – सतना, मध्य प्रदेश ।                            |
| 538. | दलित बहु जन पार्टी   | 4-1-1215, स्ट्रीट नं. 3, बोगुल्लाकुन्टा, किंग काटी रोड, हैदराबाद – 500001.  |
| 539. | दलिथा प्रजा पार्टी   | #7/347-2 पी० – ए० – 3. सिम्हापुरी कालोनी, चौथी रोड, आर० टी० सी० बस स्टेशन के पास, कडपा – 516002, कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश । |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 540. | दिल्ली जनता पार्टी                            | वाई - 200, कैप नं०-1, नांगलोई, दिल्ली - 110041   |
| 541. | दिल्ली परिवर्तन पार्टी                        | ई-37, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110027.  |
| 542. | डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी                | गली नं० - 7, गुरु नानक पुरा (पूर्वी),<br>चिन्तपूर्णी मन्दिर के पास, जालंधर, पंजाब ।  |
| 543. | डेमोक्रेटिक काँग्रेस पार्टी                   | 291, ओडियन वाली गली, गोपाल मंदिर के पास,<br>मजीठा रोड़, अमृतसर (पंजाब) ।   |
| 544. | डेमोक्रेटिक क्रप्शन लिबरेशन फ्रन्ट            | 2एफ/1ए नेडुंगनविलै, पोन्नप्पा नाडार नगर,<br>नागरकोइल, तमिल नाडु - 629004   |
| 545. | डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पार्टी      | तुन्डुविला वीडू, पन्जियूर, वेनजारामुड पी.ओ.<br>तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695607   |
| 546. | डेमोक्रेटिक इन्साफ पार्टी                     | डी-62, जी. टी. बी. नगर (करेली), इलाहाबाद,<br>(उत्तर प्रदेश) ।  |
| 547. | डेमोक्रेटिक जनता दल (जे. एण्ड के.)            | 344 ई. पी. किस्टेन कॉलोनी (शहीदी चौक), जोगी गेट, जम्मू<br>(जम्मू व कश्मीर) ।   |
| 548. | डेमोक्रेटिक मूवमेंट                           | वार्ड नं. 1, कथुआ (जम्मू और कश्मीर) ।  |
| 549. | डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया                  | 162, आनन्दराव उमरा मार्ग, अशोक नगर,<br>नागपुर - 17, (महाराष्ट्र) ।   |
| 550. | डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर)       | मोहल्ला - ताजपुरा, राहों, तहसील - नवांशहर,<br>जिला - शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब - 144517   |
| 551. | डेमोक्रेटिक प्रजाक्रान्ति पार्टी सेक्युलरिस्ट | उम्माथुर पो. व ग्राम. हन्सुर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक -<br>571105  |
| 552. | डेमोक्रेटिक सेक्युलर पार्टी                   | कोहिनूर बेकरी, उमरेद रोड, ताजाबाद, औलिया नगर, नागपुर -<br>24, महाराष्ट्र ।   |
| 553. | डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र)   | 63- अनन्दा पलित रोड, कोलकाता - 700014,<br>पश्चिम बंगाल ।   |
| 554. | डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया         | 359, वेस्ट कोदलिया, न्यू बैरकपुर थाना - घोला,<br>जिला - उत्तर 24 परगना, कोलकाता,<br>पश्चिम बंगाल - 700131                          |
| 555. | देस मक्कल मुनेट्र कडगम                        | 3/172, वीरचेल्लैयपुरम कॉलोनी, वल्लीयूर (पोस्ट),<br>पी. कुमारलिंगपुरम, आमतुर (वाया),<br>तालुक एवं जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु - 626005 |
| 556. | देसिया प्रजा सोसलिस्ट पार्टी                  | एन. एस. भवन, वेलायनी, डाकघर - नेमाँम, तिरुवनन्तपुरम -<br>695020, केरल ।  |
| 557. | देश बचाओ जन मोर्चा                            | डी - 6/171, सेक्टर - 31, नोएडा - 201301.<br>(उत्तर प्रदेश) ।   |
| 558. | देश भक्त पार्टी                               | बी - 114, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092.  |
| 559. | देश शक्ति पार्टी                              | 14/39, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।   |
| 560. | देशभक्त निर्माण पार्टी                        | सुल्तानपुर बारहगाँवा पोस्ट व तहसील - मधुबन,<br>जनपद - मऊ, उत्तर प्रदेश   |
| 561. | देशी किसान पार्टी                             | मकान सं० - 1624, वार्ड सं० - 52,<br>लक्खीबाग मानपुर, जिला गया, बिहार   |
| 562. | देशवादी पार्टी                                | मकान नं. 2184 डी- ब्लाक, इन्दिरा नगर,<br>जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016   |
| 563. | देसिया पातुकाप्पु कडगम                        | 'अरिवागम' 33, रामकृष्ण स्ट्रीट, गांधी नगर, सालीग्रामम,<br>चेन्नई - 600093 (तमिलनाडु) ।   |
| 564. | देसिया फारवर्ड ब्लाक                          | नं० 5, एम० पी० एवेन्यू मजेस्टिक कॉलोनी, शालीग्रामम, चेन्नई<br>- 600093, तमिलनाडु ।   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 565. | देसिया मक्कल शक्ति काँची                 | न्यू न - 21, ओल्ड नं० - 11, वैक्टरमन स्ट्रीट, मिंट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600079   |
| 566. | धर्म निरपेक्ष दल                         | 24/42, लोकनाथ चौक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।   |
| 567. | धर्मराज्य पक्ष,                          | 601/602, बिल्डिंग नं० 7, शुभारम्भ फेस - 1, कोनकानीपाडा मार्ग, ऑफ जी बी रोड, मानपाडा, ठाणे- 400610, महाराष्ट्र ।          |
| 568. | दो जमा पांच मुद्दे जन पार्टी             | गांव व डाकखाना - आसन, तहसील व जिला - रोहतक, हरियाणा  |
| 569. | डा. अम्बेडकर पीपुल रिवोल्यूशन मूवमेंट    | नं० 4, ग्यारवीं गली, कुमारप्पा नगर, धारापाडावेडु, कटपाडी, वैल्लोर जिला, तमिल नाडु ।                                      |
| 570. | डॉ. अम्बेडकर पीपुल्स पार्टी              | 106, 4 वां क्रॉस, के. एच. रंगनाथ कॉलोनी, अपोजिट बीएचईएल फैक्ट्री, मैसूर रोड, बंगलौर -26, कर्नाटक                         |
| 571. | डॉ. अम्बेडकर समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी | वेङ्कतेश्वर चतरा, हरदनहल्ली होबली, चामराजनगर तालुक व जिला, कर्नाटक ।   |
| 572. | डा. भीमराव अम्बेडकर दल                   | ग्राम - कोठीडीह, तहसील - परगना नवाबगंज, जनपद - बाराबांकी - 225001, उत्तर प्रदेश ।  |
| 573. | द्रविड़ पेरावाई                          | 69, रंगापिल्लई स्ट्रीट, पांडिचेरी - 605001.  |
| 574. | डुगर प्रदेश पार्टी                       | डाइविंग इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स, जानीपुर जम्मू - 180007, जम्मू और कश्मीर ।   |
| 575. | एकलव्य समाज पार्टी                       | 53, बी-ब्लॉक, पुराना दारुलशफा लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 251001.   |
| 576. | एकता क्रान्ति दल यू. पी.                 | मार्फत-सत्यपाल सागर अमनजय, जलाल नगर, छोटी लाइन के सामने, शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश) ।                                    |
| 577. | एकता समाज पार्टी                         | 6898, नीम स्ट्रीट, अहाता किदारा, बाडा, हिन्दू राव, दिल्ली - 110006.  |
| 578. | एकता शक्ति                               | झंझाड़ी, पो०-भैनी खुर्द, तहसील - नीलोखेडी, जिला - करनाल, हरियाणा ।   |
| 579. | एकता विकास महासभा पार्टी                 | सिन्हा सदन, एल.सी.टी. घाट, पूर्वी मैनेपुरा, थाना- पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पोस्ट- जी.पी.ओ. सदर-पटना, जिला- पटना, बिहार-800001 |
| 580. | इलेचिया धीरविडा मुन्नेत्र कजगम           | 'इलेचियागम', 4-ए, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई - 600017, तमिलनाडु।   |
| 581. | एलुची देशम पार्टी                        | पुराना नं. 1/46, न्यू नं.34, वडिवलपुरम, पोस्ट- वाडुकाचिमथील, तालुक- नानगुनेरी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627102       |
| 582. | एज़हु ची तमिझारगल मुनेत्र कझगम           | 5/197, चिन्ना मंगलाकुडि, उथांगुडि पोस्ट, मदुरै, तमिलनाडु - 625107  |
| 583. | फौजी जनता पार्टी                         | मकान नं० १०४ए गाँव ४ मनोबासए डाकखाना ४ बरालए तहसील ४ सिकन्द्राबादए जिला ४ बुलन्दशहरए उत्तर प्रदेश. 203001                |
| 584. | फेडरल काँग्रेस ऑफ इण्डिया                | होलम्बी खुर्द, गाँव व पो० - होलम्बी कलां, दिल्ली - 110082.   |
| 585. | फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी                 | 244/ब, कठमोड़वा, पोस्ट - मदैनिया, जनपद - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224147   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 586. | फोरम फार प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी          | बी/145-146, मित्तल टावर्स, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र।  |
| 587. | फार्वर्ड ब्लॉक (सोशलिस्ट)                  | टेम्पल स्ट्रीट, पो. ऑ. व जिला - जलपाईगुड़ी - 735101. (पश्चिम बंगाल)।   |
| 588. | फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी            | वार्ड नं. 5, रेस्ट हाउस के सामने, गणेश नगर, मुरमाडी, तहसील व पोस्ट- लाखानी, जिला- भंडारा, महाराष्ट्र- 441804                                     |
| 589. | फ्रीथॉट पार्टी ऑफ इंडिया                   | 121, धर्म विहार, पो. ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर, ओड़िसा - 751030  |
| 590. | फ्रंट ऑफ रेवल्यूशनरी इज्ड क्रिएटिव एफर्ट्स | श्री गोवर्धन पैलेस, धार रोड, उधमपुर - 182101 जम्मू एण्ड कश्मीर।  |
| 591. | गदर पार्टी                                 | मकान सं० 32, रामलीला मैदान के बगल में, पड़ाव वार्ड, पोस्ट मकन्दूरगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001।                                     |
| 592. | गनसंगम पार्टी ऑफ इंडिया                    | डी. नं. 6/786, साक्य मंजिल, पोनविलानगर, तिरुची रोड, नामक्कल, तमिलनाडु- 637001  |
| 593. | गाँधी एकता पार्टी                          | के-63/01, भूतभैरव नखास (खाशीपुरा), वाराणसी, उत्तर प्रदेश   |
| 594. | गांधी प्रकाश पार्टी                        | मकान सं०-126, खाता सं०-236, प्लॉट सं०-637, ग्राम- सिकठी, पोस्ट ऑफिस- अखलासपुर, थाना - भभुआ, जिला- कैमूर, बिहार।                                  |
| 595. | गांधीवादी राष्ट्रीय काँग्रेस               | टीचर्स कॉलोनी तहसील रोड, महोरिया, पोस्ट - महोरिया टाऊन और जिला - मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)।   |
| 596. | गांधीय मक्कल इयक्कम                        | 9-1, तडागम रोड, कौंडमपालयम, कोयम्बतूर, तमिलनाडु- 641030.   |
| 597. | गांधीयन पीपुल्स पार्टी                     | सी - 1255, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016, उत्तर प्रदेश।   |
| 598. | गरीब आदमी पार्टी                           | आर-21, मोहन गार्डन, उत्तम नगर नई दिल्ली - 110059   |
| 599. | गरीब क्रान्ति पार्टी                       | मकान सं. 7, मुकरपुरखेमा, नवाब का आहता, तहसील व जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246701   |
| 600. | गरीब सामना पार्टी                          | म० नं० -399, आवास विकास कॉलोनी, जिला- मिर्जापुर - 231001 उत्तर प्रदेश।   |
| 601. | गरीब एकता पार्टी                           | ए-71 ग्रुप, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली - 110052.  |
| 602. | गरीब जनता पार्टी                           | राजिन्दर नगर, मेन बाजार, पो. ऑ. - विजय नगर, बटाला रोड, अमृतसर (पंजाब)।   |
| 603. | गरीब जनशक्ति पार्टी                        | वार्ड नं. 03, होल्डिंग नं. 15, स्वर्ण वाटिका साड़ी शोरूम के पीछे, मोहल्ला- ब्रम्हपुरा, लक्ष्मी चौक, मेन रोड मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार- 842003 |
| 604. | गरीब जनता दल सेकुलर                        | मित्र मंडल कालोनी, वार्ड नं. 11, स्थित होल्डिंग नम्बर- 470, साकेत विहार, अनिसाबाद, पटना- 2, बिहार  |
| 605. | गरीब राज पार्टी                            | मं० नं० 748ए, झारखण्डी कायस्थवाड़ा, सिकन्द्राबाद, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।  |

|      |                              |  |
|------|------------------------------|--|
| 606. | गरीब समाज पार्टी (शोषित)     | हाजीपुर मालीपुर रोड, निकट राम जानकी मन्दिर, शंकरगढ़, थाना व तहसील – जलालपुर, जिला – अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश – 224149. |
| 607. | गरीब विकास पार्टी            | प्रोफेसर कॉलोनी, बेलबनवा, मोतीहारी, बिहार – 845401.  |
| 608. | गारो नेशनल काउन्सिल          | न्यू तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, (मेघालय)।  |
| 609. | ग्लोबल पीपुल पीस पार्टी      | 1.आनंदनगर पोस्ट . आनंदनगर<br>थाना . कल्याणी जिला . नदिया<br>पश्चिमी बंगाल - 741245                                       |
| 610. | गोवा फॉरवर्ड पार्टी          | शीश महल दूसरी मंजिल कार्यालय 4ए कॉबा मडगांव गोवा 403601  |
| 611. | गोवा प्रजा पार्टी            | क्लासिक अपार्टमेंट्स, हाउस नं० – 69, एल्ला, पुराना गोवा, तिसवाड़ी, नॉर्थ गोवा, गोवा – 403402                             |
| 612. | गोवा सु-राज पार्टी           | 383 – ए, पीराजोना, मोइरा, बारडेज, गोवा, पिन - 403514.  |
| 613. | गोवा विकास पार्टी            | लक्ष्मी सदन, ग्राउंड फ्लोर, असेम्बली कॉम्प्लेक्स के सामने, जरनलिस्ट कॉलोनी के पास, पुरवोरिम, गोवा – 403507.              |
| 614. | गोएमकरेंची ऑट्रेक असरो       | मकान नं० 780/ए, मुगल्ली, साओ जोस डी एरीयल, सालसेट, गोआ।  |
| 615. | गोकुला मक्कल काची            | न्यू नं. 7, ओल्ड नं. 3, वेंकटरामन स्ट्रीट, तेनाम्पेट, चेन्नई, तमिल नाडु- 600018  |
| 616. | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी      | ग्राम व पो. ऑ. तिवेथ, तहसील कटघोरा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।   |
| 617. | गोंडवाना काँग्रेस पार्टी     | शाहपुरा, ए-121, बी० डी० ए० कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।   |
| 618. | गोंडवाना मुक्ति सेना         | एम-2, पूर्वांचल फेस- 1, खजूरीकला रोड, भोपाल- 462021, मध्य प्रदेश।  |
| 619. | गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट   | डॉ०जाकिर हु सैन रोड, (जलपहाड़ रोड) पो. ऑ. और जिला दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (पश्चिम बंगाल)।               |
| 620. | गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट      | शाही निवास चन्द्राबनी, पोस्ट-मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।  |
| 621. | गोर्खाजनमुक्ती मोर्चा        | नॉर्थ प्वाइंट, सिंगामारी, दार्जिलिंग-734 104, पश्चिम बंगाल।  |
| 622. | गोर्खा राष्ट्रीय कांग्रेस    | 9, के.बी. रोड, पोस्ट-घूम, थाना -जोरबंगला, जिला –दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल।  |
| 623. | ग्रामांचल पार्टी             | 3/ए, सत्य नगर, सेन्ट्रल स्कूलके सामने, भुवनेश्वर- 7, उड़ीसा।   |
| 624. | ग्रेट इंडिया पार्टी          | डी नं० 1-1334, देवस्थानम रोड, मंगलागिरी-522503, गन्दूर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश।                                       |
| 625. | गुजरात जन चेतना पार्टी       | ए-69, त्रिकम नगर सेक्शन-1, चौपाटी गार्डन के पास, एल.एच. रोड, सूरत, गुजरात-395010   |
| 626. | गुजरात युवा विकास पार्टी     | मार्फत दरबार कूबा ट्रांसपोर्ट, बस स्टेशन के पास, वाइनगर- 384355, जिला-मेहसाना (गुजरात)।                                  |
| 627. | गुड़गाँवा रेसिडेन्ट्स पार्टी | सी-1927, सुशांत लोक-1, गुड़गाँव -122 002, हरियाणा।   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 628. | गुरुचौद मुक्ति मोर्चा                           | जी-52, अरुणा नगर, मजनू का टीला, सिविल लाईन्स, दिल्ली - 110054                                      |
| 629. | हाकिम अपना पार्टी                               | मौहल्ला महमूद खाँ सराय नखासा चौराहा सम्भल तहसील व जिला वृ सम्भल<br>उत्तर प्रदेश 244302 ।           |
| 630. | हमारा दल  | सी-112, सेक्टर-जी, एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ -12 उत्तर प्रदेश ।                          |
| 631. | हमारा सहारा पार्टी                              | सानंद भवन, ग्राम व पोस्ट - मसौदा, थाना - पालीगंज, जिला - पटना, बिहार - 801110                      |
| 632. | हमारी अपनी पार्टी                               | सर्वे नंबर -75/1, इंद्रायणी विहार, संत नगर, लोहागांव पुणे, महाराष्ट्र - 411047                     |
| 633. | हमारी जनमंच पार्टी                              | 1412ए नया चुक्खवाला देहरादून<br>उत्तराखण्ड ।   |
| 634. | हमदर्दी जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी (जन सेवक) | ग्राम- उधुरा, पोस्ट ऑफिस- दल्लुपुर, थाना- ब्रह्मपुर, जिला- बक्सर, बिहार-802130                     |
| 635. | हरित प्रदेश पार्टी                              | मकान नं० - 349, ग्राम व पोस्ट बिलसूरी, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203205                     |
| 636. | हरित प्रदेश विकास पार्टी                        | मकान नं. 34, ग्राम- तबेलागढ़ी, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250622                      |
| 637. | हरियाणा इंसाफ कांग्रेस                          | फार्म हाउस, नजदीक भगवत भक्ती आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401                             |
| 638. | हरियाणा जन चेतना पार्टी (वी)                    | कोठी नं० - 118ए, सर्कुलर रोड, मॉडल टाउन, अम्बाला सिटी, हरियाणा - 134003                            |
| 639. | हरियाणा जनरक्षक दल                              | 249/3, पार्क रोड, आदर्श नगर, गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा ।  |
| 640. | हरियाणा जनता पार्टी                             | गांव व पोस्ट - रीसालु, तहसील व जिला - पानीपत, हरियाणा - 132103                                     |
| 641. | हरियाणा क्रान्ति दल                             | बबैन रोड, लाइवा, जिला - कुरुक्षेत्र, हरियाणा   |
| 642. | हरियाणा लोकहित पार्टी                           | शॉप नं०-8, एस सी ओ - 2, ओल्ड जुडिशल काम्प्लेक्स, झारसा रोड, सेक्टर - 15, गुडगाँव, हरियाणा - 122001 |
| 643. | हरियाणा नवनिर्माण सेना                          | 101, गाँव- सिलोखरा, गुडगाँव - 122001. हरियाणा ।  |
| 644. | हरियाणा सामाजिक न्याय पार्टी                    | कोठी नं०-239, सेक्टर -7, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र- 136118, हरियाणा ।                              |
| 645. | हरियाणा सर्वजन पार्टी                           | मकान न. 236. वार्ड न. - 2 ग्राम पंचायत रादौर, जिला - यमुना नगर, हरियाणा ।                          |
| 646. | हरियाणा स्वतंत्र पार्टी                         | हाउस नं.- 154, ग्राम व पोस्ट ऑफिस-जखौदा, तहसील- बहादुरगढ़ जिला-झज्जर, हरियाणा ।                    |
| 647. | हिमाचल लोकहित पार्टी                            | शास्त्री भवन, देव नगर कासुम्पटी, शिमला - 171009, हिमाचल प्रदेश ।                                   |
| 648. | हिन्द कांग्रेस पार्टी                           | सी-6, साउथ साइड, जी० टी० रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश                           |



|      |                                     |  |
|------|-------------------------------------|--|
| 649. | हिन्द एकता मिशन                     | ग्राम-लेडुवावर, पोस्ट-कौवरागहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।                                    |
| 650. | हिंद जन कांग्रेस                    | 72, प्यारेलाल कम्पाउण्ड, नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश।  |
| 651. | हिन्द किसान मजदूर पार्टी            | 31/419, केला हाऊस, महाराणा प्रताप नगर, आगरा - 4 (उत्तर प्रदेश)।  |
| 652. | हिन्द मोर्चा                        | समाज सुधार आश्रम, सिरसपुर (दिल्ली)।  |
| 653. | हिन्द रक्षा सेना                    | डब्ल्यू जैड-13 बी, प्रथम तल, मुखराम पार्क एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली - 110018                            |
| 654. | हिन्द राष्ट्रीय एकता पार्टी         | प्लॉट. नं० 104, अंगुरी पैलेस, वजीराबाद रोड, पासुन्डा गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद,<br>यूपी-201005      |
| 655. | हिन्द समदर्शी पार्टी                | एफ-64, गलैक्सी अपार्टमेंट, सेक्टर-43, गुडगांव, हरियाणा-122002  |
| 656. | हिन्द स्वराज्य गणतन्त्र पार्टी      | एस-41, पंचशील पार्क, नई दिल्ली - 110017.   |
| 657. | हिन्द विकास पार्टी                  | पो. ऑ. श्री हर भगवान नगर तापाकालान, काली मन्दिर के पास, जलेश्वर रोड, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)।               |
| 658. | हिन्दू एकता आन्दोलन पार्टी          | हिन्दी एकता कार्यालय, मल्हार, खान भाग, पुलिस चौकी, मकान नं० 927/1, सांगली - 416416, जिला सांगली, महाराष्ट्र। |
| 659. | हिन्दुस्तान ऐक्शन पार्टी            | 156, खन्ना नगर, लोनी, गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश।   |
| 660. | हिन्दुस्तान एकता पार्टी             | दुकान नं० 132/2, केशो राम कौम्पलैक्स, सैक्टर-45 सी० चण्डीगढ़ - 160047  |
| 661. | हिन्दुस्तान जनमोर्चा                | मकान सं० - 1 ग्राम व पोस्ट- टेकुआं, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश - 244182।                                    |
| 662. | हिन्दुस्तान जनता पार्टी             | मैसर्स सोनो सेल्स कोरपोरेशन, सब्जी मण्डी, खोकडपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)।                                   |
| 663. | हिन्दुस्तान क्रान्ति दल             | गाँव- टुन्डलाका, पंचायत-गौधोला, पोस्ट व तहसील - पुन्हाना, जिला - मेवात (नूँह), हरियाणा।                      |
| 664. | हिन्दुस्तान क्रान्तिकारी दल         | ए-65, सेक्टर-34, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश   |
| 665. | हिन्दुस्तान नेशनल पार्टी            | नं० 103/68, कॉलेज रोड, नंगनल्लूर, चेन्नई - 600114, तमिलनाडु।   |
| 666. | हिन्दुस्तान पीपुल्स पार्टी (राजपाल) | 85ए-मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश   |
| 667. | हिन्दुस्तान शक्ति सेना              | म० नं० - 1113/11, दर्शन सिंह नगर, अलिपुर रोड, पटियाला, पंजाब   |
| 668. | हिन्दुस्तान स्वराज कांग्रेस         | शेवर बंगला, ए. बी. नायर रोड, जूहू मुम्बई-400049, महाराष्ट्र  |
| 669. | हिन्दुस्तान उत्थान पार्टी           | मकान सं. 438, ग्राम- रवानी कटीरी, पोस्ट- बुगरासी, तहसील- स्याना, जिला- बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश- 245403        |
| 670. | हिन्दुस्तान विकास दल                | करमन टोला, आरा, जिला-भोजपुर-8002301 बिहार।   |
| 671. | हिन्दुस्तानी आवाम पार्टी            | मं० नं० - 202ए/104, जवाहर नगर, निकट हाथी पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001                                  |
| 672. | हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) | माँ शबरी कुटीर, गोदावरी, थाना - रामपुर, जिला - गया, बिहार - 823001   |
| 673. | हिन्दुस्तानी गरीबवादी पार्टी        | 61, अग्रवाल चैम्बर्स, विकास मार्ग, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर दिल्ली - 110092                                   |

|      |                                       |   |
|------|---------------------------------------|---|
| 674. | हिन्दुस्तानी स्वराज पार्टी            | 69, अशोक मोहल्ला, नांगलोई, दिल्ली -110041.  |
| 675. | हिन्दुस्तान निर्माण दल                | मकान नं० 100, गली नं० 5, कृष्णा नगर, सफदरगंज इंकलेव, नई दिल्ली ।  |
| 676. | हिन्दुस्तान प्रजा पक्ष                | 7/702, 'सी' विंग, शीतलधारा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 28, सेक्टर-7, कामोटे, नवी मुंबई-410209, महाराष्ट्र ।        |
| 677. | हिन्दुस्तान सुरक्षा पार्टी            | नार्थ-इस्ट जोन, बरपेटा रोड, ट्रिस्ट लोज के पास वार्ड नं० 6, जिला बरपेटा, (आसाम) ।                             |
| 678. | हाईटेक पार्टी                         | बी <sup>85</sup> ए विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010 ।                                       |
| 679. | हमार पिपुल्स कन्वेन्शन                | द्वारा लालुवा, मकान नं०-ए/56, बावंगकाउन चिमवेंग एजल-796014, मिजोरम ।  |
| 680. | हम किसान पार्टी                       | मकान नं० - 1699/G-25/A1, विद्या नगर रोड नं० - 1, हरमू, राँची, झारखण्ड - 834002                                |
| 681. | हम सबकी पार्टी                        | ग्राम- महिमापुर (जलालपुर चौमुहानी), पोस्ट - जलालपुर, जिला - जौनपुर, उत्तरप्रदेश - 222136                      |
| 682. | इन्डिपेंडेंट इन्डियन कॉंग्रेस         | मु० पो० पिंपलगांव तर्फे महालुंगे, ता० आंबेगांव, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 410503                              |
| 683. | इंडिपेंडेंट पीपुल्स पार्टी            | मकान सं० - 63, कारगिल कॉलोनी, नरवाल बाला, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर ।  |
| 684. | इन्धिया कुडियारासु काचची              | 11, कारपगम्बल नगर, III स्ट्रीट, कोट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।  |
| 685. | इन्धु द्रविडा मक्कल काची              | नं० 14, बालाजी नगर, चिक्कारायापुरम, मंगादू, जिला- चेन्नई, तमिल नाडु- 600069                                   |
| 686. | इण्डिया द्रविड मक्कल मुन्नेत्र काँची  | द्वार सं० 15/1, वार्ड नं० 21, सरोजनी नगर, टॉवरलाइन कॉलोनी, इरोडे कॉरपोरेशन जॉन - II, इरोडे-638011, तमिलनाडु । |
| 687. | इंडिया मक्कल मुन्नेत्र काँची          | 95, कावेरी स्ट्रीट, भवानी-638301 जिला इरोड, तमिलनाडु  |
| 688. | इंडिया राइजिंग पार्टी                 | मकान सं. 39, फतेहपुर कपुरापुर-1, तहसील- तिरवा, जिला- कन्नौज, उत्तर प्रदेश- 209723                             |
| 689. | इंडियन आर्थिक सुधार पार्टी            | मकान नं० - 1, मनजीत नगर, बस्ती शेख, जालन्धर, पंजाब ।  |
| 690. | इंडियन बहु जनसमाजवादी पार्टी          | 2/3, अम्बेडकर नगर, पोस्ट, नगीना, जिला- बिजनौर - 246762, (उत्तर प्रदेश) ।                                      |
| 691. | इंडियन बहु जनसंदेश पार्टी ( कांशीराम) | बी-525, गुरु हरिकिशन नगर, नई दिल्ली ।   |
| 692. | इंडियन बिजनेस पार्टी                  | 1207, प्रगति टॉवर, 26-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008   |
| 693. | इंडियन क्रिश्चियन फ्रन्ट              | एल.आई.जी. 289, अन्ना नगर, वेल्लकन्नी चर्च के सामने, मदुरै - 625020, तमिलनाडु ।                                |
| 694. | इंडियन क्रिश्चियन सेक्युलर पार्टी     | प्लॉट नं० 8, वहाब नगर, सिख गाँव, सिकंदराबाद - 500009 आंध्रप्रदेश ।  |
| 695. | इण्डियन सिटिजन्स पार्टी               | मरकटा नगर, सैक्टर-10, प्लॉट नं० सी-43, पोस्ट-अभिनवा बिदानसी, कटक-753014, उड़ीसा ।                             |

|      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| 696. | इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी          | डी-978, जन कल्याण स्कूल रोड, भजनपुरा, दिल्ली - 110054।  |
| 697. | इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट | मकान नं०-404, संजय कॉलोनी, अर्थला मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।  |
| 698. | इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी    | 1, बलवन्त राय मेहता लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001.  |
| 699. | इंडियन गाँधीयन पार्टी              | कुरियाकोट्ट बिल्डिंग, थेक्कुमपदम रोड, पट्टिक्कड डाकघर थीसूर जनपद, केरल - 680 509                                      |
| 700. | इंडियन जस्टिस पार्टी               | 5, पुसा रोड, तीसरी मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.   |
| 701. | इंडियन क्रांतिकारी लहर             | मुहल्ला टुडी वाला, बाजीगर बस्ती, फरीदकोट, जिला -फरीदकोट, पंजाब।   |
| 702. | इंडियन लेबर पार्टी (आंबेडकर फुले)  | डी० नं०- 26-28-118, 1 लाइन, नेताजी नगर, ए० टी० अग्रहारम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश - 522004                               |
| 703. | इंडियन मक्कल कलवी मुनेत्रा कजगम    | नं०-3, दीनदयालऊ स्ट्रीट, टी० नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु.  |
| 704. | इंडियन माइनोरिटीज पॉलिटिकल पार्टी  | डी० नं० 9-4-51/35/48, हकीमपेठ (आई. ए. एस.) कॉलोनी, टॉली चौकी, पोस्ट- गोलकुण्डा फोर्ट, हैदराबाद-500008, आन्ध्र प्रदेश। |
| 705. | इंडियन नेशनल ग्रीन पार्टी          | ए-44, पर्यावरण काम्पलेक्स, सैदुला जैब, नई दिल्ली-30.  |
| 706. | इंडियन नेशनल लीग                   | नं. 7, बलवन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग क्रास, नई दिल्ली - 110001.  |
| 707. | इंडियन ओसनिक पार्टी                | के-316, एम.बी. रोड, लाडो सराय, नई दिल्ली - 110030   |
| 708. | इंडियन पीस पार्टी                  | एक्स-919, चॉंद मौहल्ला, गाँधी नगर, दिल्ली - 110031.   |
| 709. | इंडियन पीपुल्स कॉफ्रेंस पार्टी     | मखदूम साहिब मकान नं० -51, रैनावारी, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू एण्ड कश्मीर।   |
| 710. | इंडियन पीपुल्स काँग्रेस            | 79, लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली - 110001  |
| 711. | इंडियन पीपुल्स फारवर्ड ब्लॉक       | तंगरा हाउसिंग एस्टेट, ब्लॉक-एल/1, फ्लैट-5, 40/1, तरंगरा रोड, कोलकाता-15, पश्चिम बंगाल।                                |
| 712. | इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी        | 19, शुभम इनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान।   |
| 713. | इंडियन पब्लिक पार्टी               | गुजरात हाउसिंग कॉलोनी, कमरा संख्या - 1103, ब्लॉक नं. 7/बी. न्यू डबलिया, भारतनगर, भावनगर - 364001 गुजरात।              |
| 714. | इंडियन सवर्ण समाज पार्टी           | मकान संख्या - 0053, दाउदपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश  |
| 715. | इंडियन सेक्युलर काँग्रेस           | 202, पाकेट-बी, एस.एफ.एस. (डी.डी.ए. फ्लैट्स), सुखदेव विहार, नई दिल्ली - 110025.  |
| 716. | इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन काँग्रेस | 10 बी, करंज तर्फ, प्लॉट नं. 7, सातारा, महाराष्ट्र-415002  |
| 717. | इंडियन युनिटि सेंटर                | गांव- इचानगढ़ी, पोस्ट व थाना- जगतबल्लभपुर, जिला- हावड़ा, पिन- 711408, पश्चिम बंगाल।                                   |
| 718. | इंडियन वोटर्स वेलफेयर पार्टी       | नं०-608, 14वीं मेन, गोकुल प्रथम स्टेज, बेंगलोर-560054, कर्नाटक।   |
| 719. | इंडियन यूथ पार्टी                  | 7/545, विकास नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश।  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 720. | इंडियनस फ्रंट                           | 37-12-62, एन०जी०जी०ओ०एस० कॉलोनी,<br>पी० आर० गार्डन्स, विशाखापट्टनम-530007,<br>आन्ध्र प्रदेश ।                      |
| 721. | इंडियन्स विक्ट्री पार्टी                | 54-बी हेनरी रोड, नागरकोइल-629001, तमिलनाडु ।   |
| 722. | इन्डीजीनियस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्वीपरा | अभय नगर, अगरतला-799005, त्रिपुरा ।   |
| 723. | इंडिजिनियस पिपुल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा   | प्रधान कार्यालय – ओल्ड काली बाड़ी रोड, कृष्णानगर,<br>अगरतला-799001. त्रिपुरा ।                                     |
| 724. | इण्डिया जननायक काच्ची,                  | स० 9, थर्ड ऐवन्यू, 34 स्ट्रीट, अशोक नगर,<br>चेन्नई-600083 तमिलनाडु ।   |
| 725. | इंकलाब पार्टी ऑफ इंडिया                 | मौहल्ला पश्चिमी लखपेड़ा, टाउन एवं पोस्ट-मोहम्मदी, जिला-<br>लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन-262804.                 |
| 726. | इन्कलाब विकास दल                        | 92, ग्राम-गावांडी, सरदार पटेल पार्क के पास, धौंडा, दिल्ली ।  |
| 727. | इंकलाबी पार्टी                          | बी०टी०आई० स्कूल के पीछे, महावीर नगर, भिण्ड (मध्य<br>प्रदेश), पिन 477001.   |
| 728. | इंटरनेशनल पार्टी                        | ब्लॉक बी-5, फ्लैट नं. 111, यमुना विहार,<br>दिल्ली- 110053  |
| 729. | इस्लाम पार्टी हिंद                      | मौहल्ला-राजडे पुर, पो० सिटी, जनपद-गाजीपुर,<br>उत्तर प्रदेश ।   |
| 730. | इष्टतन्त्र परिषद                        | ग्राम-दिव्यसिंहपुर, खाता संख्या – 638, प्लॉट नं. 1343, पोस्ट-<br>रायगुरुपुर, थाना – गदिसागोडा, जिला – पुरी, ओड़िसा |
| 731. | इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल               | 93, सोदागरन, दरगाह आला हजरत, बरेली, उत्तर प्रदेश ।   |
| 732. | जे०एण्ड०के० सिटीजन्स पार्टी             | हीरा बिल्डिंग, अबी गुजर, लाल चौक,<br>श्रीनगर(जम्मू और कश्मीर) ।  |
| 733. | जागो भारत फ्रन्ट                        | डी-185बी, मोहन गार्डन, उत्तम नगर,<br>दिल्ली – 110059   |
| 734. | जगनमय नारी संगठन                        | सेक्टर-21/5, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।   |
| 735. | जगत तेलुगु मुन्नेत्र कड़गम              | नं० 33, हाल्स रोड, पी. ए. टावर, एफ-9 ओर 10, एगमोरे, चेन्नई-<br>600008, तमिलनाडु ।                                  |
| 736. | जागो भारत जागो पार्टी                   | 14 ए/84 डब्ल्यू.ई.ए., करोलबाग, नई दिल्ली – 110005  |
| 737. | जागो पार्टी                             | 9-1-108/1, द्वितीय फ्लोर, टाटा चैरी कम्पाउंड,<br>एस० डी० रोड, सिकन्दराबाद-500026, आन्ध्र प्रदेश ।                  |
| 738. | जाग्रत भारत पार्टी                      | 101, विधायक निवास, राजेन्द्र नगर, लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश ।  |
| 739. | जागते रहो पार्टी                        | द्वारा मैसर्स क्षमा आर देसाई, 2, वाटिका बंगला,<br>सबरी स्कूल के पास, वासना रोड, बड़ोदा, गुजरात ।                   |
| 740. | जय आन्धा पार्टी                         | डी. नं० -14-71, चगलनाडु स्टील्स, मोरंपुडी जंक्सन, राजमुंड्री,<br>ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश           |
| 741. | जय भारत पार्टी                          | आर जैड एच-710 ई (इ/54), राज नगर-II,<br>(देव हास्पिटल के पास), पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45.                           |
| 742. | जय भारत समानता पार्टी                   | ए-36/54-v-1, समानता शक्ती भवन, कजकपुरा, कोनीया रोड,<br>वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।                                     |
| 743. | जय छत्तीसगढ़ पार्टी                     | 10, दूसरा माला, शहीद वीरनारायण सिंह परिसर,<br>नगर घडी चौक, जी ई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 ।                    |
| 744. | जय हिन्द पार्टी                         | खरैल पुर्नवास, वार्ड नं. 16, नगर परिषद, सुपौल, बिहार   |
| 745. | जय हिन्द समाज पार्टी                    | ग्राम-खड़हरा (बिन्द वलिया), पोस्ट-दुबिहा,<br>जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 746. | जय जनता जनार्दन पार्टी                                     | मोहल्ला-मनोहरीगंज, मर्दन नाका शहर बाँदा,<br>परगना व जिला-बादा, उत्तर प्रदेश ।  |
| 747. | जय जनसेवा पार्टी   | 14/43, संभाजी चौक, इचलकरंजी,<br>तहसील-हातकणंगले, जिला-कोल्हापुर,<br>महाराष्ट्र-416115 ।                                      |
| 748. | जय जनता पार्टी   | वार्ड नं० 18ए होल्डिंग नं० 27ए भुआ, कैमूर<br>अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पास बिहार-821101 ।                                      |
| 749. | जय जवान जय किसान मजदूर काँग्रेस                            | डब्ल्यू जैड-553-ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय,<br>नई दिल्ली-110046.  |
| 750. | जय जवान जय किसान पार्टी                                    | प्रथम तल, मकान नं० - 60, गली नं० - 7,<br>विक्र कॉलोनी, निकट डी सी डब्ल्यू, पटियाला,<br>पंजाब - 147001                        |
| 751. | जय लोक पार्टी  | एफ-2/5, मयूर विहार, अशोका गार्डन भोपाल,<br>भोपाल, मध्य प्रदेश-462023   |
| 752. | जय महा भारत पार्टी   | जय महाभारत भवन, श्री महावैकुण्ठ पुरम, गांव-बुक्कापुरम,<br>तह० आलमपुरम, जिला-महबूब नगर, आन्धा प्रदेश, पिन-<br>509652.         |
| 753. | जय मानवता पार्टी   | मकान नं०-1, समृद्धि परिसर, साहू आटा चक्की के पास,<br>ललिता नगर, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।                              |
| 754. | जय प्रकाश जनता दल  | 190, प्रताप नगर, मयूर विहार, फेज-I,<br>दिल्ली-110091   |
| 755. | जय समाख्यांधा पार्टी                                       | डी० नं० 4-86, कम्मावरी विधि, माचावरम ग्राम पंचायत<br>लिमिट्स, रायावरम मंडल, जिला - पूर्वी गोदावरी,<br>आंध्र प्रदेश - 533 214 |
| 756. | जय समाज भारतीय समाज पार्टी                                 | टाउन एरिया सादात, पोस्ट - सादात, जिला - गाजीपुर, उत्तर<br>प्रदेश ।   |
| 757. | जय विजय भारतीय पार्टी                                      | पो० ऑ० चिन्नागोटीगल्लू, जिला-चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश।   |
| 758. | जामात-ए-सिरातुल मुस्ताकिम                                  | पोस्ट - छोटा सुजापुर, थाना - कलियाचाक,<br>जिला - मालदा, पश्चिम बंगाल - 732206  |
| 759. | जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी नेशनल काँग्रेस                     | 3-आर सी क्वाटरर्स, प्रेस एन्कलेव, प्रताप पार्क,<br>श्रीनगर - 190001. (जम्मू व कश्मीर)  |
| 760. | जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल युनाइटेड फ्रंट                     | पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, अम्फला चौक, करन नगर, जम्मू तवी -<br>180005, जम्मू व कश्मीर ।  |
| 761. | जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स काँग्रेस                         | जनरल ऑफिस, ओल्ड सैक्रेटेरिएट रोड,<br>श्रीनगर 190001, (जम्मू व कश्मीर) ।  |
| 762. | जम्मू एण्ड कश्मीर पीर पंजाल अवामी पार्टी                   | नजदीक पुलिस स्टेशन पुंछ,<br>केयर ऑफ जिला कोर्ट पुंछ,<br>जम्मू एण्ड कश्मीर  |
| 763. | जम्मू और कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रंट                          | नायब मुफ्ती आजम मंजिल, तेलबल रोड, हाबक क्रॉसिंग,<br>श्रीनगर - 190006 जम्मू और कश्मीर ।                                       |
| 764. | जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी लीग                                | बी - 24, इन्द्रानगर, श्रीनगर - 190001<br>(जम्मू व कश्मीर) ।  |
| 765. | जम्मू एण्ड काश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट            | कुर्सू राजबाग, श्रीनगर - 190008, कश्मीर ।  |
| 766. | जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट                  | 168, रावलपोरा हाउसिंग कॉलोनी, श्रीनगर,<br>(जम्मू व कश्मीर) ।   |
| 767. | जम्मू एण्ड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (सेक्युलर)<br>। | राजबाग, लिटिल एन्जल्स स्कूल के पास, श्रीनगर,<br>जम्मू व कश्मीर ।   |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 768. | जम्मू कश्मीर पीपुल्स पार्टी (सेक्यूलर)  | 96/9, नानक नगर, जम्मू,<br>जम्मू एण्ड कश्मीर – 180004  |
| 769. | जम्मू स्टेट मोर्चा (प्रोग्रेसिव) ।      | 8, ओल्ड ड्राई फ्रूट मार्केट, ज्वैल चौक, जम्मू – 180001, जम्मू<br>व कश्मीर   |
| 770. | जन आवाज पार्टी                          | झींझिकर कानपुर देहात<br>उत्तर प्रदेश. 209302  |
| 771. | जन आदेश अक्षुणी सेना                    | मकान सं० – 117, पठारिया मोहल्ला,<br>पडुआ चौराहा, जी. टी. रोड, भोगांव,<br>मैनपुरी, उत्तर प्रदेश  |
| 772. | जन अधिकार मंच                           | 9 शिवाखण्ड, झिलमिल, दिल्ली – 110095.  |
| 773. | जन अधिकार पार्टी                        | मकान नं० 331ए सर्वोदय नगर चण्डी रोड<br>पिलखुवा उत्तर प्रदेश।  |
| 774. | जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक)          | वार्ड संख्या- 05/14, बर्द्धमान हाता,<br>अर्जुन भवन, अर्जुन नगर, पोस्ट आफिस- पूर्णियाँ,<br>थाना- सहायक के० हाट, जिला- पूर्णियाँ,<br>बिहार – 854301 |
| 775. | जन भावना पार्टी                         | सी – 103, गणेश नगर, पाण्डव नगर कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली –<br>110092 ।  |
| 776. | जन चेतना पार्टी                         | चेम्बर नं. 475, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट,<br>दिल्ली – 110054.   |
| 777. | जन कांग्रेस पार्टी                      | वार्ड नं०- 1, मकान नं०- 395, बोकाखाट टाउन,<br>जिला- गोलाघाट, असम- 785612  |
| 778. | जन एकता दल                              | घेर कटेबाज खान, मस्जिद काले खान के पास, रामपुर, जिला –<br>रामपुर – 244 901, उत्तर प्रदेश ।  |
| 779. | जन एकता पार्टी                          | 147/5, आई० टी० आई० के पीछे, शमशेरपुर, पौंटा साहिब,<br>हिमाचल प्रदेश ।   |
| 780. | जन कल्याण पार्टी                        | फतेहपुर- सहाबपुर, पोस्ट ऑफिस- कसेडा,<br>तहसील- चायल, जिला- कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।  |
| 781. | जन क्रान्ति पार्टी, अण्डमान एंड निकोबार | द्वारा हर्ष मेहरा ट्रेडर्स,<br>सी बी आई कार्यालय के सामने,<br>राँची बस्ती, पोर्ट ब्लेयर-744103 ।  |
| 782. | जन क्रांति स्वतंत्रता पार्टी            | 226/27, गली नं० – 6, महावीर नगर, फिरोजाबाद,<br>उत्तर प्रदेश ।   |
| 783. | जन लोक कल्याण पार्टी                    | ग्राम तथा पोस्ट: बुगाडा, तहसील – शामली,<br>जिला – मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ।   |
| 784. | जन लोकमत पार्टी                         | 2, हसरत बिल्डिंग, आध्यात्मिक नगर, रेलवे फ्लाई ओवर के<br>नीचे, डासना, गाजियाबाद – 201302<br>उत्तर प्रदेश ।   |
| 785. | जन मोर्चा                               | 1, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली – 110001.  |
| 786. | जन राज्य पार्टी                         | 110/F/10A/1A, गाँव-कन्हाईपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद-<br>211001, उत्तर प्रदेश  |
| 787. | जन रक्षा पार्टी                         | भिठौली, सीतापुर रोड, लखनऊ – 226020, उत्तर प्रदेश ।  |
| 788. | जन साधारण पार्टी                        | मकान नं० – 4, डॉ फतेहउल्लाह लेन,<br>मेन रोड, राँची, झारखण्ड- 834001   |
| 789. | जन समानता पार्टी                        | बी – 125, नवजीवन कैम्प, तुगलकाबाद एक्सटेंशन,<br>नई दिल्ली – 110019.   |

|      |                                |  |
|------|--------------------------------|--|
| 790. | जन समर्थन दल                   | 12, कृष्णा विहार, ज्वाला नगर, रामपुर, उत्तर प्रदेश ।   |
| 791. | जन संघ पार्टी                  | ए-90, सेक्टर - 21, जलवायु विहार, नौएडा,<br>गौतम बुद्ध नगर - 201301, उत्तर प्रदेश ।             |
| 792. | जन संघर्ष विराट पार्टी         | गली नं०-2, भूतेश्वर मन्दिर के पास, संत रविदास वाई, सागर,<br>तहसील व जिला - सागर, मध्य प्रदेश । |
| 793. | जन संग्राम पार्टी              | मकान नं.482, सेक्टर-3ए, आवास विकास कालोनी,<br>बोदला, आगरा-7 उत्तर प्रदेश।                      |
| 794. | जन सत्य पथ पार्टी              | प्रथम तल, माधव कॉमप्लेक्स,<br>सिटी पल्स थिएटर के सामने,<br>रायपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380022     |
| 795. | जन सेवा सहायक पार्टी           | ग्राम - तालमहावर, तहसील - बिलासपुर,<br>जिला - रामपुर, उत्तर प्रदेश                             |
| 796. | जन सेवक पार्टी                 | एल0 आई0 जी0 63, शेखपुरा, अलिगंज, लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश ।                                       |
| 797. | जन शक्ति दल                    | शिवाजी नगर, गली नं० 1, निकट कैल्टन स्कूल,<br>लाईन पार, मुरादाबाद - 244 001, उत्तर प्रदेश ।     |
| 798. | जन शक्ति एकता पार्टी           | ग्राम - मंडनपुर, पोस्ट - मीरगंज, जिला - बरेली,<br>उत्तर प्रदेश - 243504 ।                      |
| 799. | जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया      | 7107, स्ट्रीट नं०.3, न्यू विश्वकर्मा नगर,<br>फोकल पॉइन्ट, लुधियाना, पंजाब-141010               |
| 800. | जन शान्ति संगठन                | एए - 14, चंदन वन, फेज - 1, मथुरा<br>उत्तर प्रदेश - 281001.                                     |
| 801. | जन सुराज्य शक्ति               | जन सम्पर्क कार्यालय, वाराणानगर, ता० - पनहाला, जिला -<br>कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416113.        |
| 802. | जन हितकारी पार्टी              | ए/13 - 14, इंडस्ट्रियल एस्टेट, रसूलगढ़,<br>भुवनेश्वर - 751010, उड़ीसा ।                        |
| 803. | जन प्रिय                       | ए/2, कास्टेल-5, कार्नवेल रोड, बंगलौर - 560025, (कर्नाटक) ।                                     |
| 804. | जना सामान्यरा पार्टी (कर्नाटक) | श्री वीरभद्रा स्वामी निलया,<br>पहला मेन, पाँचवां क्रॉस, विजय नगर, तुमकुर, कर्नाटक -<br>572102  |
| 805. | जन स्वराज्य पार्टी             | प्रधान कार्यालय - 83/ए, तृतीय वाई, कलम्मा बाजार, सन्दुर-<br>583119, कर्नाटक ।                  |
| 806. | जन उन्नयन मंच                  | मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, 39,<br>शेक्सपियर सरणी, कोलकाता - 700017,<br>पश्चिम बंगाल ।   |
| 807. | जन वाहिनी पार्टी               | डोर नं. 28-05-37ए, 12 रोड, शांति नगर, एलुरु,<br>पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश-534001.     |
| 808. | जनादेश पार्टी                  | राधे निवास, जरीमरी, जगताप वाडी, कुर्ला अंधेरी रोड, मुंबई -<br>400072                           |
| 809. | जनाधिपथ्या समक्षणा समिती       | केरल राज्य समिती कार्यालय,<br>आयरन ब्रिज डाक घर, एलेप्पी - 688011, केरल ।                      |
| 810. | जनहित पक्ष                     | डी० नं० 109, सेकेंड वाई, कालम्मा स्ट्रीट, बेल्लारी,<br>कर्नाटक - 583101                        |
| 811. | जननायाहा मुनेत्रा कजगम         | नं० 32, न्यु टेन्क गली, नूंगमबक्कम,<br>चेन्नई - 600034, तमिलनाडु ।                             |
| 812. | जनपालना पार्टी .डेमोक्रेटिक    | 8-2-703/2/बी, प्लाट नं.2, रोड नं.-12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद,<br>आन्ध्र प्रदेश -500034         |

|      |                        |  |
|------|------------------------|--|
| 813. | जनसेना पार्टी          | मकान नं० 8-2-293/82/HH/91/A/201, हुडाहाईट्स, एम.एल.ए. कॉलोनी, रोड नं० 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500033 |
| 814. | जनता पार्टी            | ए-77, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली ।  |
| 815. | जनता उदय पार्टी        | 860. गली नं०-4, संजय इन्कलेव, चाचा चौक, परवतिया कॉलोनी, एन० आई० टी० फरिदाबाद, हरियाणा                                    |
| 816. | जनता विकास मंच         | सी-216, आवास विकास कॉलोनी, मीरा भवन, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश ।   |
| 817. | जनता विकास पार्टी      | अबधेक भवन, उदयनगर कॉलोनी, सागर रोड, विदिशा, (मध्य प्रदेश) ।  |
| 818. | जनहित दल               | आर.एम.एस. कालोनी, रोड नं० 2, कंकड बाग, पटना-20, बिहार ।  |
| 819. | जनहित किसान पार्टी     | वार्ड नं० 24, सक्सेना नगर, नगरपालिका परिषद – महाराजगंज, जनपथ-महाराजगंज – 273303, उत्तर प्रदेश ।                          |
| 820. | जनहित लोकशाही पार्टी   | रूम सं० – 41/3, गाँवदेवी रोड, पावणे गाँव, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र – 400705  |
| 821. | जनहित विकास पार्टी     | ग्राम- कपासी, पोस्ट- हसनपुर, ब्लॉक- बलियाखेड़ी, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247111                                     |
| 822. | जनक्रान्ति समाज पार्टी | मकान नं. 16, सदरपुर कॉलोनी, बी.डी.एस.मार्केट, सोम बाजार, सैक्टर-45, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।                  |
| 823. | जनलोक राष्ट्रीय पार्टी | 452, सेक्टर – 19, द्वारका नई दिल्ली ।  |
| 824. | जनमंगल पक्ष            | राम प्रताप, गीता नगर, मेन रोड, गुरुकुल के पास, राजकोट – 360002, (गुजरात) ।   |
| 825. | जनमत पार्टी            | सी2ए/107, पाकेट-16, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058  |
| 826. | जनमत विकास पक्ष        | पोस्ट - ससवाद, पुर्नधार, महाराष्ट्र - 412301   |
| 827. | जन-न्याय दल            | 301, श्री देवरहा – काम्पलैक्स, माता मढिया चौराहा विजय टाकीज रोड, मोतीनगर वार्ड, तहसील व जिला – सागर, मध्य प्रदेश ।       |
| 828. | जनरल समाज पार्टी       | सूरत प्रीटिंग प्रेस, दाना मंडी रोड, बठिण्डा, पंजाब ।   |
| 829. | जनसत्ता पार्टी         | एल-14, महेन्द्रा पार्क, आदर्श कॉलोनी, नई दिल्ली – 110003.  |
| 830. | जनशोषित समाज पार्टी    | ए-618/7, गली नं०-8, भजनपुरा, दिल्ली – 110053.  |
| 831. | जनता दल राष्ट्रवादी    | म० न० - 55/1, हारुन नगर कॉलोनी, सैक्टर - 1, थाना व डाकघर - फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार – 801505                            |
| 832. | जनता राज पार्टी        | मकान नं० 43, ग्राम – तेजपुरा, पोस्ट – इन्दौर, जिला – गाजीपुर, उत्तर प्रदेश – 233226                                      |
| 833. | जनता राज विकास पार्टी  | ग्राम- चकफैज, पोस्ट- सुक्की, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार-843114   |
| 834. | जनता सरकार पार्टी      | I-4/39, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर – 16, रोहिणी, दिल्ली- 110089   |
| 835. | जनता सेना राजस्थान     | मुकाम पोस्ट: वल्लभनगर, जिला – उदयपुर, राजस्थान – 313601  |



|      |                                   |   |
|------|-----------------------------------|---|
| 836. | जनतंत्र पार्टी                    | तीसरी मंजिल, टकसाल थियेटर्स बिल्डिंग, नदेसर, वाराणसी – 221002, उत्तर प्रदेश ।   |
| 837. | जनतावादी कांग्रेस पार्टी          | 161/बी, शिवाजी मैदान के सामने,<br>स्वदेशी मिल रोड, चुनाभट्टी (पूर्व),<br>मुंबई- 400037, महाराष्ट्र                                  |
| 838. | जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)          | बी-32/2, जैन मन्दिर के पीछे, नरिया, वाराणसी,<br>उत्तर प्रदेश ।  |
| 839. | जाथिया तेलुगु अभिवृद्धि सेवा समुह | नं० 171, केशवईगुंटा, निकट – एस० जी० एस० आर्ट्स कॉलेज,<br>तिरुपति – 517501 जिला – चित्तूर, आंध्र प्रदेश                              |
| 840. | जवान किसान मोर्चा                 | क्वाटर नं० एल० आई० जी०, एच० – 1/7, हाउसिंग कॉलोनी,<br>दलपत पूर्व (चन्दवा), आरा, बिहार – 802312.                                     |
| 841. | जय हिन्द जय भारत पार्टी           | एन—106, एच. आई. जी. फ्लैट, संजय नगर,<br>सैक्टर—23, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।   |
| 842. | जेबामणि जनता                      | नं० 33, सैकंड स्ट्रीट, पूर्व अबिरामपुरम, माइलापोर, चेन्नई-<br>600004, तमिलनाडु ।  |
| 843. | झारखण्ड अनुशीलन पार्टी            | ग्रा० व पो० आफिस झिलीमिली थाना – बरीकुल,<br>जिला – बाकुंडा पश्चिम बंगाल – 722135  |
| 844. | झारखंड दिशोम पार्टी               | 12, मार्ग सं० 21, कदमा फार्म एरिया,<br>जमशेदपुर – 831005, झारखण्ड ।   |
| 845. | झारखण्ड जन क्रांति मोर्चा         | मकान सं० – 36, दिनकर नगर,<br>पो० – हटिया रेलवे कॉलोनी,<br>थाना – जगरनाथपुर, राँची, झारखण्ड ।  |
| 846. | झारखण्ड जन मोर्चा                 | द्वितीय मंजिल, अजमेरी टावर, मल्लाह टोली,<br>राँची – 834001, झारखण्ड ।   |
| 847. | झारखण्ड जनाधिकार मंच              | भुवनेश्वरी लोक, काली मंदिर रोड, वर्धमान कम्पाउन्ड, राँची –<br>834001, झारखण्ड ।   |
| 848. | झारखण्ड जनाधिकार पार्टी           | हॉली क्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर पीस रोड,<br>राँची – 834001, झारखण्ड ।   |
| 849. | झारखण्ड की क्रान्तिकारी पार्टी    | 23, पूर्वी जेल रोड, राँची – 1 (झारखण्ड) ।   |
| 850. | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान)   | शुक्ला कॉलोनी, पोस्ट हिनू, राँची जिला,<br>राँची – 834002. (झारखण्ड) ।   |
| 851. | झारखण्ड पार्टी                    | आनन्द सुवानी निवास, एयरपोर्ट रोड, हिनू, राँची, झारखण्ड –<br>834002.   |
| 852. | झारखण्ड पार्टी (नरेन)             | स्थान – रघुनाथपुर, पो. ऑ. – झाड़ग्राम,<br>जिला – मिदनापुर – 721507, (पश्चिम बंगाल) ।  |
| 853. | झारखण्ड पीपुल्स पार्टी            | पो. ऑ. लौबासा, जमशेदपुर, पु० स्टे० – गोविन्दपुर, जिला –<br>सिंहभूम (पूर्व) झारखण्ड ।  |
| 854. | झारखण्ड वनांचल काँग्रेस           | 5, रातू रोड, राँची – 834005, झारखण्ड ।  |
| 855. | झारखण्ड विकास दल                  | 273, लेक एवेन्यू, स काँके रोड, राँची, झारखण्ड   |
| 856. | जस्टिस पार्टी                     | ग्राम- दिकतन खेड़ा, पोस्ट- हरचन्दपुर,<br>जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश -229303 ।   |
| 857. | ज्वाला दल                         | मकान संख्या – 247 बी, मु० – जंगल तुलसीराम,<br>पो० – बिछिया पी.ए.सी. कैम्प, थाना – शाहपुर,<br>जिला – गोरखपुर – 273014 उत्तर प्रदेश । |
| 858. | कैविनयगेर मुन्नेत्रकड़गम          | श्री विश्वेश्वर भवनम, 76, मिलर्स रोड, किलपोक, चेन्नई –<br>600010 (तमिलनाडु) ।   |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 859. | कलिंगा सेना                            | 19ए, मधुसूदन नगर, यूनिट - 4, भूवनेश्वर - 751001, खुर्दा, उड़ीसा ।   |
| 860. | कल्याणकारी जनतांत्रिक पार्टी           | बी-4/260ए, केशवपुरम, नई दिल्ली - 110035 ।   |
| 861. | कल्याणवादी पार्टी,                     | 16, पाण्डेय टोला, पैंतेपुर, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश - 261203   |
| 862. | कामराजार अदितनार कड़गम                 | 6-ई, संस्थान कोइल स्ट्रीट, पुधुकुदिइरुप्पु, नागेरकोइल - 629001 (तमिलनाडु) ।   |
| 863. | कामराजार देसीया काँग्रेस               | 7-वेलायुधा, राजा स्ट्रीट, राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावेली, चेन्नई - 600028 (तमिलनाडु) ।  |
| 864. | कामतापुर पीपुल्स पार्टी (यूनाईटेड)     | गांव एवं पोस्ट- भंदानी, पुलिस स्टेशन- धुपगुड़ी, जिला- जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल- 735210.   |
| 865. | कामगार समाज दल                         | मकान नं० 9/237, मोहल्ला : रायडोपुर, पोस्ट एवं जिला -आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।  |
| 866. | कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी            | चिल्ला रॉय भवन, गाँव - बिधानपल्ली, डाक घर - कदमताला, जिला - दार्जिलिंग - 734433, पश्चिम बंगाल ।                                   |
| 867. | कन्नड़ चालवाली वाटल पक्ष               | 154, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट, बंगलौर - 560053, (कर्नाटक) ।  |
| 868. | कन्नड़नाडु पार्टी                      | 54, ग्राउन्ड फ्लोर, प्रसन्ना कॉलोनी, बसावेश्वर नगर, गोकुल रोड, हु बली - 580030 कर्नाटक ।  |
| 869. | कन्नड़ पक्ष                            | नं० 259/1, फर्स्ट फ्लोर, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट (जैन टेम्पल के सामने), बंगलौर - 560053 (कर्नाटक) ।                             |
| 870. | कर्मा पार्टी                           | शॉप नं० -1, हु डा मार्केट लैज़र वैली पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स के सामने, सेक्टर - 29, गुडगांव, हरियाणा - 122002                    |
| 871. | कर्नाटक क्रान्ति दल                    | नं० 240, सिक्सटीन्थ मेन, सिक्सथ क्रास, फर्स्ट फेज, II स्टेज, वी टी.एम. (ई डब्ल्यू एस) लेआउट, बंगलौर - 560076 (कर्नाटक) ।          |
| 872. | कर्नाटका मक्कला पक्का                  | एच० ओ० नं० 09, ब्लॉक - 4जेएसएस इम्प्लायस लेआउट, साथागली नजाराबाद मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक- 570011                                  |
| 873. | कर्नाटक प्रजा विकास पार्टी             | नं० 15, सम्पंगीमै लेआउट, सिदेदाहल्ली, यशवंतपुर हौबी, नागासन्द्रा पोस्ट, बेंगलुरु नॉर्थ ता०, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक- 560073 |
| 874. | कर्नाटक राज्य रयोता संघ                | 636, आईडल होम्स ले आउट, राजाराजेश्वरी नगर, बंगलौर - 560098 (कर्नाटक)  |
| 875. | कर्नाटक स्वराज्य पार्टी                | सं० 2082, चिदाम्बर कुपा, साई नगर, रायबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक - 591317   |
| 876. | कर्नाटक तामीझार मुन्नेत्र कड़गम        | नं० 6, II फ्लोर, चिक बाजार रोड, क्रास शिवाजी नगर, बंगलौर - 560051, (कर्नाटक) ।  |
| 877. | करुनाडु पार्टी                         | सा. 13/2, नं० 7 मल्लाथाहली, नंजप्पा गार्डन, बेंगलौर-560056 कर्नाटक ।  |
| 878. | काश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट.जे एंड केन्द्र | म० नं० - 254 - मेन रोड, पोस्ट ऑफिस के पास, जवाहर नगर, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।  |
| 879. | केरल काँग्रेस                          | 67. कुमारानसन नगर, कादवानथारा, पो० ऑ० एरनाकुलम, केरल ।  |

|      |                                      |   |
|------|--------------------------------------|---|
| 880. | केरल काँग्रेस (बी)                   | पी.टी. चाको स्मारक, मन्दिरम्, एस.एस. कोबिल रोड, थाम्पनूर, तिरुवनन्तपुरम - 695001, (केरल)।           |
| 881. | केरल काँग्रेस (जेकब)                 | वार्ड 13, बिल्डिंग 346, टी. बी. रोड, कोट्टायम, (केरल)   |
| 882. | केरला कांग्रेस (स्कारिया थॉमस)       | चिंगवन, बिल्डिंग नं. 711, वार्ड नं. 6, कोट्टयम मुनिसिपलिटि, कोट्टयम, जिला- कोट्टयम, केरल            |
| 883. | केरल काँग्रेस सेक्यूलर               | केरल काँग्रेस सेक्यूलर स्टेट कमेटी कार्यालय, भारत बिल्डिंग, पुलीमूडजंक्शन, कोट्टायम - 1, केरल।      |
| 884. | केरला जनपक्षम                        | पुरा - 36, श्यामला निवास, पूजापुरा पी0 ओ0, तिरुवनन्थापुरम - 695012.                                 |
| 885. | केरला जनता पार्टी                    | मुलाकुलम पंचायत, वार्ड नं. 12, बिल्डिंग नं. 2, पूझीकोल पो.ऑ, कडुथुरुती केरल- 686604                 |
| 886. | केरला विकास काँग्रेस                 | ई.पी- III/468, इखवेस्सी, पी.ओ.- चेम्परी, तालीपरम्बा, जिला- कन्नूर, केरल, पिन- 670632                |
| 887. | खानदेश विकास काँग्रेस पार्टी         | बिल्डिंग नं0 2, 15/16, प्रथम तल, खानदेश, मिल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जलगांव - 425001                     |
| 888. | खुन हिन्यूटिप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट | द्वारा खासी स्टूडेंट यूनियन का कार्यालय, जैव चापेल रोड, शिलांग - 793002, मेघालय।                    |
| 889. | किसान गरीब नागरिक पार्टी             | 203, मरकज व्यू द्वितीय तल, 24, अपोजिट कैरिट सिनेमा, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई - 400103 महाराष्ट्र    |
| 890. | किसान क्रान्ति दल                    | नांगला सुखदेव, नीमखेरा - जलेंसर, जिला - एटा (उत्तर प्रदेश)।   |
| 891. | किसान मजदूर बेरोजगार संघ             | गांव - जेतपुर, पोस्ट - फफुन्द, ओरइया, उत्तर प्रदेश।   |
| 892. | किसान मजदूर प्रजा पार्टी             | ए एक्स - 223/224, राजहर्ष कॉलोनी, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।                           |
| 893. | किसान मजदूर सुरक्षा पार्टी           | मकान नं. 45, ग्राम- खेड़िया-हैबतखाँ, पोस्ट- कुलना, तहसील- गथाना, जिला- अलीगढ़, उत्तर प्रदेश- 202001 |
| 894. | किसान मजदूर बहुजन पार्टी             | जे-1/2, दली बाग कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।  |
| 895. | किसान पार्टी ऑफ इण्डिया              | वार्ड नं. 01, जनकपुर रोड, नागेश्वर स्थान, थाना- पुपरी, जिला- सीतामढ़ी, बिहार -843320                |
| 896. | किसान समाज मोर्चा                    | बिचौला भूड, पो0 - पतरिया, तह0 - गुन्नौर, बदायूँ, उत्तर प्रदेश।                                      |
| 897. | किसान समाज पार्टी (एस)               | झिन्नापूर्वा, पोस्ट -धाखेरवा नानकर, तहसील - निघासन, जिला -लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश।             |
| 898. | किसान सेना                           | 101, कोलियान, विशुनगढ़ रोड, छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश।  |
| 899. | किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी        | मकान नं0 - 12/445, मझौला आवास विकास, तहसील - सदर, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।                   |
| 900. | किसान व्यवसायी मजदूर पार्टी          | प्रकाश भवन, नरही बाजार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)   |
| 901. | किशोर राज पार्टी                     | एल - 2/601, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।  |
| 902. | कोन्गु देसा मारुमलरची मक्कल काँची    | नं0 - 301/14, अलगर नगर, गांव - पचनपालयम, पोस्ट - अंतियर, ईरोड, तमिलनाडु- 638501                     |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 903. | कॉंगू नाडु मुनेत्रकडगम                 | 320, बेस्ट काम्पलेक्स कुमारन रोड, त्रिपुर - 641601, कोयम्बदूर (जिला), तमिलनाडु।  |
| 904. | कॉंगुनाडु जननायगा कॉची                 | “इराई अरुल” नं० - 24, मेथा लेआउट, लक्ष्मीपुरम, पीलामेडु (पो.ऑ.), कोयम्बदूर, तमिलनाडु - 641004                              |
| 905. | कॉंगुनाडु मक्कल देसीय कच्ची            | 5/54, ईस्ट स्ट्रीट, पोस्ट - द कॉकरायपेट्टै, तालुक - तिरुचंगोड, जिला - नामकल्लक, तमिल नाडु - 638007                         |
| 906. | कोसल क्रान्ति दल                       | टेलिफोन एक्सचेंज रोड, रुगुदीपाडा, बालेनगिर - 767001, उड़ीसा।   |
| 907. | कोसल पार्टी                            | जी. एम. कॉलज रोड, सम्बलपुर - 768004, (उड़ीसा)।   |
| 908. | कोशल मुक्ति मोर्चा                     | रेलवे स्टेशन रोड, तितिलागढ़, जिला - बोलांगिर, ओडिसा।   |
| 909. | कोशी विकास पार्टी                      | मछली भवन, डॉ अम्बेडकर मार्ग, गांव, पो० व जिला - खगड़िया, बिहार - 851204.   |
| 910. | क्रान्ति दल                            | 132, बाबूगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।   |
| 911. | क्रान्तिकारी जयहिन्द सेना              | द्वारा एडवोकेट आर० एन० काचवे, देवी प्रसाद होटल के पास, एम आई डी सी सेन्ट्रल रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई-400093, महाराष्ट्र। |
| 912. | क्रान्ति परिषद्                        | म० नं० 2019, मिस्त्रीखान रोड, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)।   |
| 913. | क्रान्तिकारी किसान सेना                | सी-221, ओल्ड मीनल रेसीडेन्सी, राज होम्स, जे० के० रोड, भोपाल-462023, मध्य प्रदेश।   |
| 914. | क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी          | एम एल ए फलैट नं० 26, वीर चन्द पटेल पथ, पटना (बिहार)।   |
| 915. | क्रान्तिकारी विकास दल                  | 78/09 सी., मौ० - बिरसा आदिवासी कॉलोनी, पोस्ट - गुलजार बाग, थाना - आलमगंज, जिला - पटना - 800007, बिहार।                     |
| 916. | क्रान्तिकारी युवा पार्टी               | मकान नं. 318, ओल्ड रोहतक रोड, गुर्जर गली, शाहजादा बाग, दया बस्ती, दिल्ली-110035  |
| 917. | क्रांतीसेना महाराष्ट्र                 | 5-ए, ज्योतिसदन शितलादेवी, टेंपल रोड, माहिम, मुम्बई, महाराष्ट्र।  |
| 918. | कूकी नेशनल असेम्बली                    | ग्रेस कॉटेज, पेटेवेंग, कवाकेलथेल, पो. ऑ. - इम्फाल, पिन - 795001, (मणिपुर)  |
| 919. | लेबर एण्ड जॉब सीकर्स पार्टी ऑफ इण्डिया | 66, रोयेपेट्टा हाइ रोड, मायलापोर, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)।   |
| 920. | लेबर पार्टी (सेक्यूलर)                 | 382/4, गली हरदेव, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली-110009.  |
| 921. | लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया (बी.बी. प्रसाद) | बी-5, कांति नगर, दिल्ली - 110051.  |
| 922. | लेबर समाज पार्टी                       | चेम्बर नं० 91, सिविल कोर्ट, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।   |
| 923. | लघुजन समाज विकास पार्टी                | बड़ापुरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।   |
| 924. | लक्ष्यधर गणतांत्रिक पार्टी             | पुरानी बस्ती, चौकीदारपाड़ा, पो० ओ० के० एम० रोड, झारसुगुड़ा-2, जिला - झारसुगुड़ा ओडिसा।                                     |
| 925. | लाल मोर्चा                             | आर० जेड० सी० - 113, विष्णु गार्डन, खयाला, नई दिल्ली - 110018.  |
| 926. | लट्टिन काँग्रेस                        | बवाली, पोस्ट-खाश, जिला-मेरठ-250621, (उत्तर प्रदेश)।  |

|      |                                |  |
|------|--------------------------------|--|
| 927. | लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी        | 20, भारतीय नगर, अल्लागप्पापुरम, कराईकुडडी-630003, तमिलनाडु।  |
| 928. | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी       | ग्राम- शान्तिपुर (मिर्जा), पोस्ट ऑफिस- मिर्जा, पुलिस स्टेशन- पलाशबरी, जिला- कामरूप, असम-781125   |
| 929. | लोक चेतना दल                   | ग्राम - पकड़ी जलाल, पोस्ट - शुभंकरपुर, जिला - मुजफ्फरपुर, बिहार - 843113   |
| 930. | लोक आवाज दल                    | होलिडिंग नं० 20/11, सर्किल नं० 264, अम्बेडकर चौक, विष्णुपुरी, पटना - 800002, बिहार।  |
| 931. | लोक भलाई पार्टी                | 5-एफ एफ, राजगुरुनगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना, (पंजाब)।  |
| 932. | लोक भारती                      | ए/702, वेदन्त उन्नत नगर नं. 2, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई-400062.   |
| 933. | लोक दल                         | केन्द्रीय कार्यालय, 8, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।  |
| 934. | लोक एकता पार्टी                | एस-8/188, सुधाकर रोड, खजुरी कैण्ट, वाराणसी-221 002, उत्तर प्रदेश।  |
| 935. | लोक गठबंधन पार्टी              | नं० - बी - 16-ए, बेसमेंट ऑफ अलिशा अपार्टमेंट (अतरौला हाउस, 27/6, राम मोहन राय मार्ग) मदन मोहन मार्ग, कृषि भवन के नज़दीक, 3 वे रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001 |
| 936. | लोक हित राष्ट्रीय विकास पार्टी | ग्रेन मार्केट, लॉगोवाल, जिला - संगरूर, पंजाब।  |
| 937. | लोक जन संघर्ष पार्टी           | ग्राम- जमुनहा, विकास खण्ड बांकेगंज, पोस्ट- सौंखिया, जिला- लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802   |
| 938. | लोक जन विकास मोर्चा            | कचहरी रोड, थाना-कोतवाली, पोस्ट-राँची-834001, झारखण्ड।  |
| 939. | लोक जनहित पार्टी               | ग्राम - डालूपुर सुल्तानपुर पोस्ट - प्रेमपुर, जनपद - कन्नौज उत्तर प्रदेश।   |
| 940. | लोक मानवाधिकार पार्टी          | सी. 32/27-16ए, विद्याविहार कॉलोनी, छित्तपुर, वाराणसी-221002, उत्तर प्रदेश।   |
| 941. | लोक परित्राण                   | "सौभाग्य" 12-13 तिलक नगर-II महामन्दिर, जोधपुर - 342 010, राजस्थान।   |
| 942. | लोक परिवर्तन पार्टी (डी.सी.)   | भापरा रोड, पुलिस चौकी के सामने, जी.टी. रोड, समालखा, जिला-पानीपत हरियाणा।   |
| 943. | लोक रक्षा पार्टी               | ग्राम व पोस्ट ऑफिस - सिरसा, जिला - इटावा उत्तर प्रदेश।   |
| 944. | लोक सत्ता पार्टी               | फ्लैट नं.801, श्रीनिवास टावर्स, आईटीसी काकतीय होटल के पास, बेगमपेट, हैदराबाद-500016, तेलंगाना  |
| 945. | लोक सेवा दल                    | पोस्ट बधिया, तहसील लखीसराय, बिहार-811302.  |
| 946. | लोक शाही पार्टी (सेकुलर),      | 187-एच, 6/2, जीवन नगर, आश्रम चौक के नजदीक, महारानी बाग बस स्टैंड के सामने, नई दिल्ली - 110014  |
| 947. | लोक शक्ति                      | 83, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.   |
| 948. | लोक विकास पार्टी               | 41, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092.  |
| 949. | लोकनायक पार्टी                 | 172/3 सी, पूर्वी मोती बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली - 110 007.  |
| 950. | लोको संमिलोन                   | पोस्ट ऑफिस-जलेश्वर, जिला-गोलपारा, असम।   |
| 951. | लोकप्रिय समाज पार्टी           | प्रजापति धर्मशाला मंदिर, श्री कालका जी, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019.   |
| 952. | लोकसंग्राम                     | एच० नं० 1321, लेन नं० 4, धुले-424001.  |

|      |                                    |  |
|------|------------------------------------|--|
| 953. | लोकसेना                            | 63/एच०/एस०, मदनमोहन बर्मन एस्टेट<br>कोलकता-700007, पश्चिम बंगाल।   |
| 954. | लोकशासन आन्दोलन पार्टी             | 259, गुहा गांव, तालुक - रहु री<br>जिला - अहमदनगर, महाराष्ट्र - 413705  |
| 955. | लोकशासन पार्टी ऑफ इंडिया           | सं० नं० 67, प्लॉट सं० 25, प्रतिक बिल्डिंग, फ्लैट नं० 3,<br>विद्यानगर, पुणे-411032, महाराष्ट्र।                 |
| 956. | लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी           | इ-1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर, डाकघर-रविग्राम, रायपुर,<br>छत्तीसगढ़।   |
| 957. | लोकतांत्रिक चेतना पार्टी           | मुमताज मंजिल, आजाद नगर, बादा, उत्तर प्रदेश।  |
| 958. | लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्यूलर) | मेन रोड, फिरोजपुर, पोस्ट-ऑफिस आन्देर,<br>जिला-सिवान, बिहार-841231,   |
| 959. | लोकतांत्रिक मानवतावादी पार्टी      | दुकान नं० 5, एस० डी० 366, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर<br>प्रदेश।  |
| 960. | लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी     | ई-2, ओल्ड सोसाइटी, सैजपुर रेलवे स्टेशन के पास,<br>सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात- 382245                        |
| 961. | लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी        | 27-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, माता सुन्दरी रोड,<br>नई दिल्ली-110002.   |
| 962. | लोकतांत्रिक समता दल                | डी०-104, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001, बिहार।   |
| 963. | लोकतांत्रिक सरकार पार्टी           | द्वारा पी० के० खरिया, एडवोकेट, शताब्दी चैम्बर, नं०-1,<br>डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मांडला-481 661, मध्य प्रदेश।       |
| 964. | लोकतांत्रिक सर्वजन समाज पार्टी     | बी-103, सपना अपार्टमेंट, रामनगरी, आशियाना नगर, पटना-<br>800025 बिहार।  |
| 965. | लोकतांत्रिक जनता फ्रंट             | ई०-13/307, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जवाहर पार्क, विकास मार्ग,<br>लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092                          |
| 966. | मा तेलंगाना पार्टी                 | 8-2-540/4, रोड नं० 4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद<br>(आन्ध्र प्रदेश)।   |
| 967. | मानववादी जनता पार्टी               | ग्राम- दोगी, पोस्ट- गोरौर, थाना - छबिलापुर,<br>वाया - राजगीर, जिला- नालन्दा, बिहार- 803116                     |
| 968. | मानीला कॉंग्रु पेरावाई             | नं० 41, नारायणगुरु रोड, साईबाबा कॉलोनी,<br>कोयम्बटूर-641011, तमिलनाडु।   |
| 969. | मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना        | 2983, प्रिंस कालोनी, न्यूकंचनपुर, आधारतल,<br>जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश।                                       |
| 970. | महा लोकतंत्र पार्टी                | शॉप नं०.4, बसन्त गंगा मार्केट,<br>मकान नं०. 762/648, पुराना कटरा,<br>इलाहाबाद-211002, उत्तर प्रदेश             |
| 971. | महाभारत महाजन सभा                  | प्लॉट नं० 10, विवेकानंद नगर, इनर रिंग रोड, कोलाथुर, चेन्नई-<br>600099, (तमिलनाडु)।                             |
| 972. | महागुजरात जनता पार्टी              | ए-203, सत्यमेव-1, एस.जी. रोड, हाई कोर्ट के सामने,<br>अहमदाबाद गुजरात।  |
| 973. | महाजन मंडली पार्टी                 | मं० नं० - 1-8-27/20, जी०एच०एम०सी० - 1483,<br>स्ट्रीट नं०-12, चिक्कड़पल्ली, हैदराबाद,<br>आन्ध्र प्रदेश - 500020 |
| 974. | महाजना सोशलिस्ट पार्टी             | द्वार नं० 1-14-297/1, बालामराई, रसूलपुरा, सिकन्द्राबाद,<br>हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश                             |
| 975. | महाकौशल विकास पार्टी               | "शान्ति कुटीर" 281, संजीवनी नगर, जबलपुर<br>(मध्य प्रदेश)।  |

|      |                                 |  |
|------|---------------------------------|--|
| 976. | महाक्रान्ति दल                  | ग्राम-83 अवहदपुर, पोस्ट- कोइलारी,<br>तहसील व परगना- केराकत, जिला- जौनपुर,<br>उत्तर प्रदेश- 222148  |
| 977. | महामुक्ति दल                    | ग्राम – उसरांव, डाक घर – इटार्ये, तहसील - मड़ियाहूँ जिला –<br>जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।   |
| 978. | महान दल                         | ए-218 डी, धीरज नगर एक्सटेंशन, एतमादपुर,<br>निकट फौजी ढाबा, सैक्टर-30, फरीदाबाद, हरियाणा।   |
| 979. | महानायक सरदार पटेल संघ          | 52/98, द्वितीय तल, चितरजन पार्क,<br>नई दिल्ली- 110019.   |
| 980. | महानवादी पार्टी                 | ग्राम व पोस्ट - कुतुबपुरचनोरा, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश<br>।   |
| 981. | महाराणा क्रांति पार्टी          | म. नं० – 698, वार्ड नं० – 14,<br>बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर,<br>राजस्थान   |
| 982. | महाराष्ट्र परिवर्तन सेना (टी)   | ग्राम – मांगवडगांव, तालुका – केज, जिला – बीड, महाराष्ट्र ।   |
| 983. | महाराष्ट्र विकास आघाडी          | गोविंदयज सदन, श्याम नगर, लातूर, महाराष्ट्र।  |
| 984. | महात्मा गांधी नेशनल लेबर पार्टी | 3/366 जी, कुथुकल स्ट्रीट, पारामाकुडी, रामानाथपुरम<br>जिला, तमिलनाडु- 623707.   |
| 985. | महिला अधिकार पार्टी             | 29-ए नहरपुर, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085.  |
| 986. | महिला प्रधान पक्ष               | 1261, 16 मेन, 20 क्रास, ए ब्लॉक, सहकारा नगरा, बैंगलौर –<br>560092 कर्नाटक ।  |
| 987. | महिला स्वाभिमान पार्टी          | ग्राम - गुमटी नं० - 5, सराय करोरा, गोसाईगंज,<br>जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227125   |
| 988. | मै ही भारत                      | 2 ए "रायल", हेस्टिंग्स पार्क रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।   |
| 989. | मैदानी क्रान्ति दल              | मुख्यालय – मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।   |
| 990. | मजदूर किसान अकाली दल            | गाँव-75 जी बी, डाकघर-72 जी बी, वाया-रामसिंहपुर, तहसील-<br>अनूपगढ़, जिला-गंगानगर, राजस्थान।   |
| 991. | मजदूर किसान यूनियन पार्टी       | 459/1, मो०-सरवट (वसन्त विहार), पो०-खास, जिला व शहर-<br>मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251001   |
| 992. | मजलिस बचाओ तहरीक                | 16-4-593/ए चेनेहलगुडा, हैदराबाद-500024,<br>(आन्ध्र प्रदेश)।  |
| 993. | मजलिस मर्कज़-ए-सियासी पार्टी    | 10-5-391/54/182/ए, भूतल, कशाई-घौंसिया अलीम, सैयद<br>नगर, 95ए, विधायक कॉलोनी के सामने,<br>रोड नं० -12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।                              |
| 994. | मक्कल काँग्रेस वजहापड़ियार      | 18, तेलुगु ब्राह्मण स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई-600 042,<br>तमिलनाडु।  |
| 995. | मक्कल देसिया जननायका काची       | 245/6, आर. के. मुट्ट रोड, माइलापोर, चेन्नई-600 004,<br>तमिलनाडु।   |
| 996. | मक्कल देसिय काची                | 137, कक्कन कॉलोनी, नंगमबाक्कम, चेन्नई,<br>तमिलनाडु – 600034  |
| 997. | मक्कल कूटामैपु काची             | न. 348ए, केप रोड, एट्टूकडै बाजार,<br>टी.एम.बी. बैंक के पास, एडालकुडी, कोट्टार पोस्ट, वैवीस्वरम<br>गाँव, अगस्तीस्वरम तालुक, नागरकोईल,<br>कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु-629002. |
| 998. | मक्कल मनाडु काची                | 82/1, 5वीं स्ट्रीट, पदमानाभा नगर, अडयार,<br>चेन्नई -600 020 तमिलनाडु।  |

|       |                                     |  |
|-------|-------------------------------------|--|
| 999.  | मक्कल मरुमलार्ची मुनेत्र कड़गम      | नं० 13ए, प्रथम तल, थियागाराजन नगर, कोडुंगईयुर, चेन्नई – 600118 तमिलनाडु।   |
| 1000. | मक्कल शक्ति काची                    | न्यू नं० 41, पुराना नं० 15, बाजार लेन, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600 015, तमिलनाडु।                                    |
| 1001. | मक्कल सनानायगा कडियार्सु कॉची       | नं. 3/123, गंगाई अम्मन कोइल स्ट्रीट, साउथ मलायमबक्कम गांव, कुनराथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600069  |
| 1002. | मक्कलाच्ची कच्ची                    | नं. 57, जगजीवनराम स्ट्रीट, पारुम्बू, अलवारकुरीची, अम्बासुमुतीरम तालुक, तिरुनेलवेली- जिला, तमिलनाडु-627412                            |
| 1003. | माना पार्टी                         | 5-4-719, कैटलमण्डी, नामपाल्ली, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश।  |
| 1004. | मानव अधिकार रक्षा पार्टी            | 36, दरियास्थान स्ट्रीट, ग्राऊंड फ्लोर, ऑफिस नं० - 3, काटावाला बिल्डिंग (गोपमणि चेम्बर), मुम्बई, महाराष्ट्र – 400003                  |
| 1005. | मानव एकता पार्टी                    | दादुसिंह कालोनी, प्लॉट नं० 53, सिरपुर, जिला-धुलिया (धुले), महाराष्ट्र।   |
| 1006. | मानव हित पार्टी                     | भवन संख्या-575/1, सेक्टर-24, ट्यूवैल कालोनी, आगर रोड. एटा, उत्तर प्रदेश- 207001  |
| 1007. | मानव जागृति मंच                     | 552, बैंक कॉलोनी, देवली गांव, नई दिल्ली-110062.  |
| 1008. | मानव कल्याण मंच                     | सा० 6/186, एम० एक्स – 1, अकथा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।  |
| 1009. | मानव क्रान्ति पार्टी                | न्यू सर्राफा बाजार, वार्ड नं. 11, नगर पंचायत खागा, जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश- 212655   |
| 1010. | मानव मुक्ति मोर्चा                  | हमीदगंज वार्ड नं०-13, पत्थर मिल के सामने, डाक घर-मैदिनी नगर-822101, जिला-पालामू (झारखण्ड)  |
| 1011. | मानव समाज पार्टी                    | 9538, गोशाला बारादरी किशनगंज, दिल्ली-110006.   |
| 1012. | मानव पार्टी                         | जी-23, यूरेका टावर्स, किट्टूर चेन्नम्मा सर्किल, हु बली-580029, (कर्नाटक)।  |
| 1013. | मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी           | जे-6/7-बी-डी, पुलिस स्टेशन के समीप, जैतपुरा वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221001   |
| 1014. | मानवतावादी क्रान्ति दल              | मानव भवन, कुल्लीखेड़ा, अहमामऊ, पोस्ट – अर्जुनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश   |
| 1015. | मानवतावादी समाज पार्टी              | 638/307, ग्राम-जरहरा, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।   |
| 1016. | मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट    | लैरिक येंगबाम लैकई (साऊथ), 33 के० वी० इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के सामने, के० एम० टावर के पास, तिरुपति लेन, पूर्व इम्फाल – 795010 मणिपुर। |
| 1017. | मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट      | कोइजम अपार्टमेंट, वीआईपी कॉलोनी, 107/109 बाबूपारा, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795001  |
| 1018. | मणिपुर पीपुल्स पार्टी               | पीपुल्स रोड इम्फाल- 795001, मणिपुर।  |
| 1019. | मणिपुर पीपुल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक) | क्वार्टर नं० 1, टाईप-4, बाबूपारा, इम्फाल-795001, (मणिपुर)।   |
| 1020. | मनिथा उरिमईगल कलागम                 | 14/41, गुड्स शैड स्ट्रीट, मदुरै – 625 001 तमिल नाडु।   |



|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1021. | मनीथानेया मककल काची                                | तीसरी मंजिल, सं० 6, वडा मराइकोयेर गली, चेन्नई-600001, तमिलनाडु।  |
| 1022. | मनुवादी पार्टी                                     | 201, बिरहाना, पांडेगंज, सुभाषमार्ग, लखनऊ-226004, (उत्तर प्रदेश)।   |
| 1023. | मानवाधिकार नेशनल पार्टी                            | 12, द्वितीय तल, स्वागत काम्पलेक्स, रामबाग रोड, मणीनगर, अहमदाबाद, गुजरात - 382443   |
| 1024. | मारालैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट                         | सेहा-796901, छिमतुईपुई जिला, (मिजोरम)।   |
| 1025. | मरूमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कड़गम                  | 'त्यागम,' नं० 141, रूक्मणि लक्ष्मी पति सलाई, इगमोरे, चेन्नई-600008, (तमिलनाडु)।  |
| 1026. | मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाईटेड) | सैदपुर, पटना-800004 (बिहार)।   |
| 1027. | मार्क्सिस्ट कोअर्डिनेशन                            | 115-एम.एल.ए. फ्लैट, वीरचंद पटेल पथ, पटना-800004, (बिहार)।  |
| 1028. | मार्क्सवादी जनता पार्टी                            | 33, कुन्दन पुरा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251002   |
| 1029. | मर्यादी दल   | ग्राम चोरकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान।   |
| 1030. | मातृ भक्त पार्टी                                   | रघुनाथ फार्म, ग्राम व पोस्ट-कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा।  |
| 1031. | मातृ भूमि विकास पार्टी                             | मार्फत श्री काशीनाथ त्रिपाठी, अस्पताल रोड, मऊ चिबी, बांदा-210209, (उत्तर प्रदेश)।  |
| 1032. | मजदूर दलित किसान महिला गरीब पार्टी (हिन्दुस्तानी)  | गढ़ी अशरफ खान, जसमई रोड, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश  |
| 1033. | मजदूर विकास दल                                     | क्वाटर नं० प्लॉट-ई/124, फेज-I, छिन्द, राउरकेला, जिला-सुन्दरगढ़, ओडिसा-769015   |
| 1034. | मीनवर मक्कल मुन्नानी                               | नं० - 51, ओल्ड नं० - 24, तम्बु लेन, रॉयपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600013   |
| 1035. | मेघ देशम पार्टी                                    | मेघवंश भवन, ई-70 बी, बजरंग विहार तृतीय, हरमाडा घाटी, जयपुर, राजस्थान।  |
| 1036. | मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी                          | मिशन कम्पाउंड, मावखार, शिलांग-793001 (मेघालय)।   |
| 1037. | मेरा गाँव मेरा देश पार्टी                          | मकान नं० - 142, गाँव - इस्लामपुर, पोस्ट - साउथ सिटी-II, गुड़गाँव, हरियाणा - 122018   |
| 1038. | मेधा पार्टी  | 13 ई/10ए, राजीव नगर (सुतुरखाना), डाकखाना-तेलियरगंज, जनपद - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।   |
| 1039. | एम जी आर थॉडरकल काच्ची                             | नं० 18/33ए, वट्टाविलई, कप्पिवारी पोस्ट, कन्याकुमारी, जिला-629156, तमिल नाडु।   |
| 1040. | मिहिर सेना   | नागर्स च्वाइस ए एस <sup>47ए</sup> साउथ साइड जी <sup>0टी0</sup> रोड ए जी <sup>0टी0</sup> रोड ए लाल कुंआ ए गाजियाबाद ए उत्तर प्रदेश। |
| 1041. | माइनोरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी                      | 13, हाइड्रो रोड काम्प्लैक्स, मोमिनपुरा, नागपुर - 440018, महाराष्ट्र।   |
| 1042. | मिथिलांचल विकास मोर्चा                             | महु आर गौड़ा बौराम, पोस्ट - आसी, जिला - दरभंगा, बिहार - 847203   |
| 1043. | मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा                            | सुपौल बाजार, कालेज रोड, वनदेवी नगर, बिरौल, दरभंगा, बिहार-847203  |

|       |                                  |  |
|-------|----------------------------------|--|
| 1044. | मिजोरम काँग्रेस पार्टी           | हैडक्वार्टर्स, आइजॉल, मिजोरम-796 001 ।   |
| 1045. | मोडरेट पार्टी                    | ग्राम-खखड़ी (मगहरा चौराहा).पोस्ट-बालेपुर कलां, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1046. | मोमिन कान्फेंस                   | 47/26, वारिस प्लाजा, हु सैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश) ।                                    |
| 1047. | मूल भारती (एस) पार्टी            | मं० नं० 25, खूनी मसित के पास, मोगा, मेहला सिंह मोगा-142001, जिला-फरीदकोट, (पंजाब) ।                                |
| 1048. | मूल निवासी समाज पार्टी           | गाँव-मघईपुर, डाकखाना-महाराजगंज, जनपद-आजमगढ़-276137, उत्तर प्रदेश ।   |
| 1049. | मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इण्डिया | परसपुर-कुड़वार, सुल्तानपुर-228155, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1050. | मौलिक अधिकार पार्टी              | बिरौली-मोतीनगर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224201.  |
| 1051. | मूल निवासी पार्टी ऑफ इंडिया      | ग्राम व डाक- बसन्तपुर, जिला- मुर्शिदाबाद, एस.डी. व पी.एस. धुमकल, पश्चिम बंगाल- 742406.                             |
| 1052. | मुसलसल ईमान समाज पार्टी          | 261, चक्की वाली गली, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1053. | मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश       | सुल्तान मंजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 1054. | नाम तमिलार काँची                 | द्वार नं० 7, प्लॉट नं० 8, हॉस्पिटल रोड, सैन्थिल नगर सिन्ना पोरु, चेन्नई- 600 116 तमिल नाडु ।                       |
| 1055. | नागा नेशनल पार्टी                | हेडक्वार्टर्स अजा डेली ऑफिस, चर्च रोड, देवलाहलैंड, इम्फाल, (मणिपुर) ।  |
| 1056. | नागरिक अधिकारशक्ति सेवा पार्टी   | ए-63, जनता जीवन कैम्प, तिगरी, खानपुर, दिल्ली-110062  |
| 1057. | नागरिक चेतना पार्टी              | सर्वोदय नगर, टीचर्स कॉलोनी पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ।   |
| 1058. | नागरिक एकता पार्टी               | 19/1168, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।   |
| 1059. | नैतिक पार्टी,                    | 314, सिटी सेंटर निकट प्रेस क्लब, हजरतगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1060. | नक्री भारतीय एकता पार्टी         | वार्ड नं०-1, मोहल्ला-हरिजन वाला, किठौर मेरठ, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1061. | नलवजहिककडगम                      | कथिरवन इल्लम, 94/2, कलवै चेट्टी स्ट्रीट, चिन्तदपत, चेन्नई, तमिलनाडु- 600002  |
| 1062. | नामाधु द्रविड इयक्कम             | एस.सी.सी. एन्थनी पिल्लई इलम, न्यू नं० 41, ओल्ड नं० 18.7 काँस स्ट्रीट, शिनाय नगर पश्चिम, चेन्नई-600030 (तमिलनाडु) । |
| 1063. | नमाधू मक्कल काँची                | नं० 3, पिल्लायर कैल स्ट्रीट, कस्बा, वेल्लोर-632001, तमिलनाडु ।   |
| 1064. | नमदु कोन्गु मुनेत्र कलगम         | 5एफ संजीत प्लाजा, तिरु वी.का. स्ट्रीट, तिरुपुर रोड काँगेयम, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु- 638701.                        |
| 1065. | नारायणी सेना                     | निवास-ग्राम, पोस्ट-मालीपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1066. | नशा मुक्त भारत पार्टी            | तेजस्वी हाउस, विवेक विहार कॉलोनी, फरुखाबाद रोड, नई मंडी, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001                               |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1067. | नैशनल अधिकार इंसाफ पार्टी                         | मकान नं. - 230, गली नं० - 7,<br>एस० ए० एस० नगर, अबोहर रोड,<br>श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब                                |
| 1068. | नेशनल अमन पार्टी                                  | मो० - पंजाबियान, नगीना, जिला - बिजनौर,<br>उत्तर प्रदेश - 246762  |
| 1069. | नेशनल अपनी पार्टी                                 | डी-1, 242/9, मेन सर्कुलर रोड, सोनिया विहार,<br>दिल्ली - 110094   |
| 1070. | नेशनल बैकवर्ड (मूल), दलित, माइनॉरिटीज़ क्रांति दल | 1st ई-17, जय नारायण व्यास कॉलोनी,<br>बीकानेर, राजस्थान - 334003  |
| 1071. | नेशनल भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी                     | 576/2, पंजाबियान-5, खुर्जा, बुलन्दशहर,<br>उत्तर प्रदेश- 203131   |
| 1072. | नेशनल ब्लैक पैन्थर पार्टी                         | दुकान क्र.1, हिल पार्क, तिरुपति अपार्ट., कोकणीपाडा, कुरार<br>गांव, मुम्बई,<br>महाराष्ट्र - 400097                      |
| 1073. | नेशनल कन्फेड्रसी ऑफ इंडिया                        | 63, साउथर्न एवेन्यू फ्लैट नं० - 9, कोलकाता,<br>पश्चिम बंगाल - 700029   |
| 1074. | नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी                          | सेन्ट्रल ऑफिस-चंगानाचेरी-2 कोट्टायम जिला, (केरल)।  |
| 1075. | नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सेक्युलर)               | टीसी 28/1628, पुल्लामाडॉम कम्पाउन्ड,<br>श्रीकण्ठेश्वरम, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695023                                    |
| 1076. | नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रन्ट                  | सी-4डी, 42बी, जनकपुरी, नई दिल्ली।  |
| 1077. | नेशनल डेवलपमेन्ट पार्टी                           | हाऊस नं०-ए-8-2, मुल्तानी कॉलोनी, बीदर-585 401,<br>कर्नाटक।   |
| 1078. | नैशनल फ़ेडरल पार्टी                               | म. नं० 80/3ए, ग्राउंड फ्लोर, बसंत गाँव, वसंत विहार,<br>नई दिल्ली - 110057  |
| 1079. | नेशनल फ्यूचर पार्टी                               | देवरिया हाउस, जी.पी.ओ.के पीछे पुरानी मण्डी, अजमेर,<br>राजस्थान।  |
| 1080. | नेशनल जागरण पार्टी                                | मकान संख्या-14, मौंटेशरी स्कूल लेन,<br>निकट वाले मारुति ऑटो मोबाईल्स, बोरिंग रोड, पटना,<br>बिहार-800001.               |
| 1081. | नेशनल जनहित कांग्रेस (ए बी)                       | 043ए/ 5 प्यारे लाल बिल्डिंग, सरकारी कालेज के पास, महरौली<br>रोड, गुडगांव, हरियाणा।                                     |
| 1082. | नेशनल जनक्रान्ति दल                               | के-316, बस टर्मिनल के पास, कुतुब मीनार के सामने, एम.बी<br>रोड, लाडो सरास, नई दिल्ली-110030                             |
| 1083. | नेशनल जनसत्ता पार्टी                              | तेजाजी चेंच्या वाली ढाणी मु० पो० - खोरी,<br>तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर-303103 राजस्थान।                                 |
| 1084. | नेशनल जनता पार्टी (इंडियन)                        | प्लॉट नं० -385, खाता नं० - 105,<br>ग्राम - मोहम्मदपुरहरी,<br>पोस्ट व थाना - भगवानपुर,<br>जिला - वैशाली, बिहार - 844114 |
| 1085. | नेशनल लोकहिन्द पार्टी                             | सी-1375, राजाजीपुरम, लखनऊ-226 017, उत्तर प्रदेश।   |
| 1086. | नेशनल लोकमत पार्टी                                | ग्राम - जिसौरी, डाकखाना - मुंडाली, जिला - मेरठ, उत्तर<br>प्रदेश।   |
| 1087. | नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी                          | 46, गुलिस्ता कॉलोनी, लखनऊ-226001,<br>(उत्तर प्रदेश)।   |
| 1088. | नेशनल ऑरगनाइजेशन काँग्रेस                         | नं० 1, जीवन नन्दम, सलिया, के. के. नगर,<br>चेन्नई-6000 78, (तमिलनाडु)।  |

|       |                                    |  |
|-------|------------------------------------|--|
| 1089. | नेशनल पार्टी                       | रूदेन बर्दोय-202524, (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 1090. | नेशनल पीस पार्टी सेक्यूलर          | रसूलपुर ब्युर, पोस्ट अवधन, तहसील चायल, जनपद-कौशाम्बी, -उत्तर प्रदेश -212218  |
| 1091. | नेशनल पीपुल्स काँग्रेस             | मकान नं. 3-6-200, फ्लैट नं. 105, अरूणोदया अपार्टमेन्ट, स्ट्रीट नं. 15, हिमायतनगर, हैदराबाद- 500029 आन्ध्र प्रदेश                     |
| 1092. | नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी           | प्लॉट नं० 157, ब्लॉक बी-3, सुल्तानपुरी कॉलोनी, नई दिल्ली-110086  |
| 1093. | नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस           | होलिडिंग नं. 223, हाउस नं. 6, वार्ड नं. 26, प्रगति पथ पर स्थित, राजधानी मस्जिद के पास, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006.                 |
| 1094. | नेशनल सर्वसमाज पार्टी              | मकान संख्या-66, खसरा सं०-1995, इकबाल कालोनी, निकट सना मस्जिद, ग्राम पसौन्डा, परगना लोनी, तहसील व जिला गजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201001 |
| 1095. | नेशनल सेक्यूलर कान्फ्रेंस          | एम०आई०एस०एफ०ए, कोडुवली (पी० ओ०), कोझिकोड डी टी., केरल-673572.  |
| 1096. | नैशनल सेक्युलर पार्टी              | सी-20/बी, फर्स्ट फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016  |
| 1097. | नेशनल स्टुडेंट्स पार्टी            | 16/2 कर्णनीशवरार पागोडा स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004, (तमिलनाडु) ।   |
| 1098. | नेशनल टार्गेट पार्टी               | नं. 158/ए, तेहखण्ड ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020.   |
| 1099. | नेशनल टाइगर पार्टी                 | सेन्ट्रल हेड आफिस-सरोजनगर, पोस्ट आफिस-कालगीगंज, वाया/थाना-कहैलगांव, जिला-भागलपुर, बिहार- 812303.                                     |
| 1100. | नैशनल युनियनिस्ट जमींदारा पार्टी   | 129, नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001  |
| 1101. | नेशनल विकास पार्टी (इण्डिया)       | बी-40/ए-11, गणपति पेराडाइज सेन्ट्रल स्पाइन, विद्या धर नगर जयपुर-302023, राजस्थान ।   |
| 1102. | नेशनल वेलफेयर पार्टी               | 16, नेहेरूजी नगर, करुप्पारायन, कोयल स्ट्रीट, समुन्दीपुरम साउथ, त्रीपुर - 641603, तामिलनाडु   |
| 1103. | नेशनल वर्ल्ड लाईफ पंचतत्व पार्टी   | पाटीदार कॉलानी, भीलखेड़ी रोड, शुजालपुरमंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश ।  |
| 1104. | नेशनल यूथ पार्टी                   | फ्लैट नं० ए-202, यूरो अपार्टमेन्ट, सैक्टर-5, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 1105. | नेशनलिस्ट चेरिटी काँग्रेस          | बिशोप हाउस, गाब्रियल कम्पाउन्ड, पानाविलाइ थक्काले-629175, जिला-कन्याकुमारी, तामिलनाडु ।  |
| 1106. | नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रन्ट           | एस-8, दिब्या मॉल, टॉक राड, लाल कोठी, जयपुर (राजस्थान)।   |
| 1107. | नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस पार्टी   | 19/7/130-ए, थानापाड़ा रोड, पोस्ट- दिनहाटा, जिला- कूचबिहार, पश्चिम बंगाल।   |
| 1108. | नेशनलिस्टिक तेलंगाना राष्ट्र समिति | 23-6-431/1, गोवलिपुरा, हैदराबाद-500 265, आन्ध्रा प्रदेश ।  |
| 1109. | नव भारत डेमोक्रेटिक पार्टी         | चिरावाल एवं एसोसिएट, एफ 6/35, यूनाईटेड अपार्टमेन्ट्स, ईस्ट स्ट्रीट, पुणे- 411001 महाराष्ट्र ।  |
| 1110. | नव जनक्रान्ति पार्टी               | बी - 11/42, अहाता रोहिला, गौरीगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221001  |
| 1111. | नव युवक दल                         | ग्राम टिकरा, पोस्ट-घुंघटेर, -तहसील - फतेहपुर, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225302 ।  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1112. | नव भारत नेशनल पार्टी                          | सर्वे सं०-627, भैरव गुट्टा, ग्राम-रवाल्कोले, मंडल-मेदचल, जिला-रंगा रेड्डी. आन्ध्र प्रदेश ।                            |
| 1113. | नव निर्माण नागरिक समिति                       | 6/7/8, शंकरमठ रोड, बासनगुडी, बंगलौर-560004, (कर्नाटक) ।   |
| 1114. | नव प्रजा राज्यम पार्टी                        | पुरानाम० नं० 10-30 नया म० नं० 11-54, हरिजन-वाडा ( पी व एम ) यूतूनूर जिला - आदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश - 504311           |
| 1115. | नव तेलंगाना पार्टी                            | म० नं० 8-2-598/बी, रोड नं० 8, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034   |
| 1116. | नवतारम पार्टी                                 | डोर नं० 26-37, सुब्बैयाथोटा, चिलकलुरीपेट, जिला - गुंटूर आंध्र प्रदेश - 522616   |
| 1117. | नवबहु जन समाजपरिवर्तन पार्टी                  | 185, सहयाद्रीनगर, जी - वार्ड, लोनावला, तहसील - मावल, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 410401                                 |
| 1118. | नवभारत एकता दल                                | धीमान भवन, नगरोटा सूरियां, तहसील- ज्वाली, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश-176027  |
| 1119. | नवभारत निर्माण पार्टी                         | 30, डी. एस.आई.डी.सी.कॉम्पलेक्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110 002.  |
| 1120. | नवीन भारत निर्माण मंच                         | पीपलवाडी खाड़की, गाँव व डाकघर-कसोर जिला-आनंद, गुजरात ।  |
| 1121. | नवजवान संघर्ष मोर्चा                          | डी/711, टाउनशिप, भवनाथपुर, गढ़वा, झारखण्ड-822112  |
| 1122. | नवोदयम पार्टी                                 | डी० नं० 4-96/2, राम मन्दिर के पास, नल्लाकावरी स्ट्रीट, इटुकुरु गाँव, गुन्दुर रुरल मण्डल, जिला-गुन्दुर आन्ध्र प्रदेश । |
| 1123. | नवयुग पार्टी                                  | 1-ग्राउंड फ्लोर, बेगमपुर, मालवीय नगर नई दिल्ली-110017   |
| 1124. | नया दौर पार्टी                                | ए-406 डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024   |
| 1125. | नेहरु जनहित कांग्रेस                          | सैनीपुरा मोहल्ला, बाद शाहपुर, तहसील व जिला-गुडगाँव, हरियाणा ।   |
| 1126. | नेलोपा (युनाइटेड)                             | बी. डी. ओ. बिल्डिंग, दुर्गा देवी मार्ग, शीश महाल, हु सैनाबाद चौक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।                               |
| 1127. | नेताजी आदर्श पार्टी                           | 298, कुट्टीयानी, 28- थोडुपुझा, इड्डुकी जिला, केरल- 685584   |
| 1128. | नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय आजाद पार्टी | मो० गायत्री नगर, कस्बा व पोस्ट-बांदा, जिला-शाहजंहापुर, पिन कोड-242402, उत्तर प्रदेश ।                                 |
| 1129. | नेताजी सुभाष पार्टी                           | शाजनवा, जिला-गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 1130. | न्यू ऑल इन्डिया कांग्रेस पार्टी               | ए-138, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली- 110092 ।  |
| 1131. | न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया             | द्वितीय तल, 9 ए/ 83, डब्ल्यू. ई. ए. करोलबाग, नई दिल्ली-110005 ।   |
| 1132. | न्यू इण्डिया पार्टी                           | म० नं० 20-3-314, विधाननगर गोदावरीखानी-505209, जिला-करीमनगर, (आन्ध्र प्रदेश) ।   |
| 1133. | न्यू लाइफ पीपुल्स पार्टी                      | नं० 15 /16, जूडी फ्लैट्स, नं० 13 रोसरी चर्च रोड, संथोम, चेन्नई-600004 तमिलनाडु ।                                      |
| 1134. | न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी                    | मकान नं. 167/2/5/एफ/4, पहली मंजिल, ब्रम्हानन्द नगर, ताडाली रोड, कामतघर, भिवंडी, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र - 421305       |
| 1135. | न्यु सोशलिस्ट मूवमेंट                         | 104, महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स, अपोजिट एल्लीसब्रिज पो० ओ०-एल्लीसब्रिज, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।                    |

|       |                                      |   |
|-------|--------------------------------------|---|
| 1136. | न्यूज काँग्रस                        | बाई महल, दूसरी मंजिल, वादिया गली, तारदेव, मुम्बई-400 034, महाराष्ट्र ।  |
| 1137. | निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल      | मकान नं. 105टी, मोहल्ला- जंगल सालिकराम, बाइपास रोड, संगम चौक, पादरी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273014            |
| 1138. | निर्धन समाज पार्टी आफ इण्डिया        | 11 ए राजीव विहार (बन्दीबाबा मन्दिर के पास), मछरिया, नौबस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208011 ।                    |
| 1139. | निर्जातिता समाज बिप्लबी पार्टी       | गाँव-दुर्गापुर पो-हरीताला (बगुला), पीएस-हंसखली जिला-नदिया-741502 पश्चिम बंगाल ।                                     |
| 1140. | निर्मल इण्डिया पार्टी                | सा 6 /8 एच -15, सत्संग नगर, बेनीपुर, पहाड़िया, वाराणसी - 221007 उत्तर प्रदेश  |
| 1141. | निस्वार्थ सेवा पार्टी                | वेद आर्युवेदिक स्टोर, बस स्टैंड के पास, महेन्द्रगढ़, हरियाणा ।  |
| 1142. | नूरी पार्टी                          | 102, कदोदरा-बरदोली रोड, सूरत, गुजरात ।  |
| 1143. | नार्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी   | सागोलबंड टेरालाउक्राकपाम लेइकाई, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर- 795001  |
| 1144. | नार्थ ईस्ट सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी | मावली मावदतबाकी, डांग नॉगपाथा, शिलांग- 793008 जिला ईस्ट खासी हिल्स मेघालय ।   |
| 1145. | ओडिशा जन मोर्चा                      | प्लॉट सं० -17, ग्राम नखोर, डाकघर गोपीनाथपुर, जिला-खुर्द, भुवनेश्वर-751002, ओडिशा                                    |
| 1146. | ओजस्वी पार्टी                        | फ्लैट संख्या-38, प्लॉट संख्या-36, अंजता अपार्टमेंट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 ।                                       |
| 1147. | उड़ीसा कम्यूनिस्ट पार्टी             | एम. एल. ए. कॉलोनी, यूनिट-4 भुवनेश्वर, (उड़ीसा) ।  |
| 1148. | उड़ीसा गण परिषद्                     | ए/52, खरवेला नगर, यूनिट-III, भुवनेश्वर-751001.  |
| 1149. | उड़ीसा मुक्ति मोर्चा                 | 15, भौमा नगर, यूनिट- IV, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।  |
| 1150. | उड़ीसा सोशलिस्ट पार्टी               | म्यूनिसिपल कम्पाउण्ड, चौधरी बाजार, कटक-753009 (उड़ीसा) ।  |
| 1151. | पचाई तमिझागम काँची                   | 12/143, इदिथाकरई, हरिजन कॉलोनी, विजयापति, राधापुरम(तालुक), तिरुनेलवेली (जिला), तमिलनाडु- 627104                     |
| 1152. | पहचान मंगलकारी पार्टी                | एल-II 56, मदनगौर, दिल्ली-110 062 ।  |
| 1153. | पंथर्स रिपब्लिकन पार्टी              | ‘आनंदवन’, महात्मा फुले नगर, पीर बाजार, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431005                                      |
| 1154. | परम दिग्विजय दल                      | मकान न० - 7/297/7, विकास नगर, सेक्टर-7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश  |
| 1155. | पर्वतीय प्रजातांत्रिक पार्टी         | 39/ए, लेबॉग कार्ट रोड, नियर माहेश्वरी पेट्रोल पम्प, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734301.                               |
| 1156. | परचम पार्टी ऑफ इण्डिया               | 1-रहमत बानो मार्केट, मेडिकल कॉलेज रोड, सिविल लाइन्स, अलीगढ़ -202002, उत्तर प्रदेश ।                                 |
| 1157. | परिवर्तन समाज पार्टी                 | गंडे वाली सड़क, लश्कर, ग्वालियर-474001, (मध्य प्रदेश) ।   |
| 1158. | पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म      | 183, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, (पश्चिम बंगाल)।  |
| 1159. | पार्टी किसान मजदूर व्यापारी          | रेलवे रोड, हाथरस जंक्शन, महात्मा प्राकृतिक चिकित्सालय, नंगला हीरा, हाथरस जंक्शन, महामाया नगर, हाथरस, उत्तर प्रदेश । |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1160. | पश्चिम बंगा राज्य मुस्लिम लीग            | 129, कोल्लिन स्ट्रीट कोलकाता-700016,<br>(पश्चिम बंगाल)   |
| 1161. | पश्चिमांचल विकास पार्टी                  | क्वार्टर नं० 10 ई. सेंट जोसफ स्कूल के सामने, साखीपारा,<br>जिला-सम्बलपुर, उडीसा-768001                        |
| 1162. | पश्चिमी प्रजातंत्र मोर्चा                | 386, शाहनत्थन, मेरठ, उत्तर प्रदेश  |
| 1163. | पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वराज पार्टी       | सरधना रोड, कंकड़ खारा, मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।   |
| 1164. | पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी        | म० सं० - 1, कसाना निवास, ग्राम - मोरना,<br>सेक्टर - 35, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर,<br>उत्तर प्रदेश - 201308 |
| 1165. | पाशुमपोन मक्कल कड़गम                     | नं० - 102, एल. बी. रोड, अडयार, चेन्नई,<br>तमिलनाडु- 600020.  |
| 1166. | पैट्रियाट                                | 28-अप्पावु स्ट्रीट, कुड्डालोर पोर्ट, पिन-607003, तमिलनाडु ।  |
| 1167. | पैट्रियाटिक पार्टी ऑफ इण्डिया            | 4/28 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश।   |
| 1168. | पीस पार्टी                               | जोहरा काम्प्लेक्स, बड़हलगंज, पो०- बड़हलगंज, जिला-<br>गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।                                  |
| 1169. | पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी ऑफ इण्डिया | हरि खारुई निवास, महात्मा फुले रोड, नयगांव दादर, मुम्बई<br>(महाराष्ट्र)।                                      |
| 1170. | पैदल पार्टी                              | डी नं० 18-131 (ए), ग्राम - काटुरि वारी पालेम,<br>पोदिलि मंडल, जिला - प्रकाशम, आन्ध्र प्रदेश - 523240         |
| 1171. | पेडारीकम निरुमुलना पार्टी                | डी. नं० 66-1-3/ए. एस. अचूथापुरम, काकीनाडा-533004, ईस्ट<br>गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।               |
| 1172. | पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्ट               | मुख्यालय-गुवाहाटी, एच.ओ. उदालगिरी, जिला-दारंग बोडोलेण्ड<br>(असम) ।   |
| 1173. | पीपुल्स पार्टी                           | ए-23, सुभाष नगर, रुड़की, जिला- हरिद्वार,<br>उत्तराखण्ड   |
| 1174. | पीपल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (सेक्यूलर)      | डुप्लेक्स-38, सलेश्री विहार, चन्द्रशेखरपुर,<br>भुवनेश्वर-751021, उडीसा ।                                     |
| 1175. | पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब                   | 7112, वार्ड नं० 2, मलोट रोड, गीद्दरबाहा (मुक्तसर), पंजाब-<br>152101.   |
| 1176. | पीपुल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस ऑफ इण्डिया  | बॉकरा, पोस्ट ऑफिस-बिराती, कोलकाता-700 051, पश्चिम<br>बंगाल ।   |
| 1177. | पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम                 | सी-177, सेक्टर-'जे', अलीगंज, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 1178. | पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी               | मास बिल्डिंग, अरनाकुलम उत्तर, पो०-कोचीन-18, (केरल) ।   |
| 1179. | पीपुल्स ग्रीन पार्टी                     | 19सी/1, जीवन ज्योति अपार्टमेंट्स, वार्ड नं० 1, महारौली, नई<br>दिल्ली-110030 ।                                |
| 1180. | पीपुल्स गार्जियन                         | डी-302, ब्लू हिल्स, नगर रोड, पुणे (महाराष्ट्र) - 411006  |
| 1181. | पीपुल्स मूवमेंट ऑफ इण्डिया               | 9/215/22, योजना-3, सेक्टर-9, आवास विकास कॉलोनी, झूंसी,<br>इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211 019.                    |
| 1182. | पीपुल्स पावर पार्टी                      | पो० बी० नं० 16, शिवाजी नगर पोस्ट ऑफिस,<br>मुम्बई-400043, महाराष्ट्र ।  |
| 1183. | पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी                 | साप्ताहिक जयभीम, आनंद टाकिज के सामने, सीताबादी,<br>नागपुर-440012 (महाराष्ट्र) ।                              |
| 1184. | पेरुन्थालाईवर मक्कल काँची                | एन आर डी टॉवरस, प्रथम एवेन्यू, अशोक नगर,<br>चेन्नई-600083 तमिलनाडु ।   |
| 1185. | फूले भारती लोक पार्टी                    | मेन गुरुद्वारा रोड, बाबा बकाला, जिला-अमृतसर, पंजाब-<br>143201.   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1186. | पिछड़ा समाज पार्टी  | मोहल्ला जती, नगीना, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1187. | पिछड़ावर्ग महापंचायत पार्टी                                 | मो. जामालपुर (करहाँ रोड),<br>पोस्ट- मोहम्मदाबाद गोहना, जिला- मऊ,<br>उत्तर प्रदेश- 276403   |
| 1188. | प्लेन्स ट्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम                           | पी०ओ० व टी० ओ० कोकड़ाझाड़, जिला-कोकड़ाझाड़, (असम) ।  |
| 1189. | पॉलिटिकल ऐसंशियल और ऐक्यूरेट कौंसिल ऑफ<br>एक्सपर्ट्स पार्टी | डोर नं० 24-21, वैस्या स्ट्रीट, पाँच रोड जंक्शन, अमेरिकन<br>हॉस्पिटल रोड, नरसीपट्टणम,<br>जिला – विज्ञाग, आन्ध्र प्रदेश – 531116   |
| 1190. | पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी                                    | 12/391, गली नं० – 12, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर,<br>दिल्ली-110092   |
| 1191. | पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस                                | प्लॉट नं० 157-158, पॉकेट ई-20, सैक्टर-3, प्रथम तल, रोहणी,<br>दिल्ली-110085.  |
| 1192. | प्रबुद्ध भारत पार्टी  | 7ए, हॉस्पिटल स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता- 700 072, पश्चिम<br>बंगाल ।  |
| 1193. | प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी                                   | एम०डी०-26-17/6, एस०आर०टी०आर०एम०सी०एच० चेन्नई<br>रोड, अम्बाजोगई, जिला-बीड-431517, महाराष्ट्र                                      |
| 1194. | प्रगतिशील जनता पार्टी                                       | ‘सत्या प्रमोद’ ए अभिमन्यु नगर ए बेली रोड ए<br>पोस्ट दानापुर ए थानारूपसपुर ए दानापुर ए पटना ए<br>बिहार 801503                     |
| 1195. | प्रगतिशील लोक मंच   | ईश्वर सदन, सोनकर फार्म, धौलाखेड़ा,<br>पो० ओ० - अर्जुनपुर (हल्द्वानी), जिला – नैनीताल,<br>उत्तराखण्ड ।                            |
| 1196. | प्रगतिशील मगही समाज   | मकान नं०-605/334, वार्ड नं०-44, मोहल्ला-माइनपुर<br>(अक्षयवट), थाना –सिविल लाईन्स, जिला –गया, बिहार।                              |
| 1197. | प्रगतिशील मानव समाज पार्टी                                  | गांव-वारी (नईपुरवा) पो० दशरथपुर-221304.<br>जिला-भदोही, (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 1198. | प्रगतिशील पार्टी  | 111, बादशाह नगर, लखनऊ, 226007 (उत्तर प्रदेश) ।   |
| 1199. | प्रगतिशील समाज पार्टी                                       | 58/12/1 डी, नवादा, सरकुलर रोड, राजापुर, इलाहाबाद, उत्तर<br>प्रदेश ।  |
| 1200. | प्रजा भारथ पार्टी   | प्लॉट नं० 106, ब्लॉक ‘ए’, अर्चना अपार्टमेन्ट, ईस्ट मैरिडपल्ली,<br>सिकन्दराबाद-500026 (आन्ध्र प्रदेश) ।                           |
| 1201. | प्रजा चैतन्य पार्टी   | 1-7-578/31/2, जेमनी कालोनी मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, आन्ध्र<br>प्रदेश ।   |
| 1202. | प्रजा पार्टी  | 3-5-898/1, हिमायतनगर, हैदराबाद-500029<br>(आन्ध्र प्रदेश) ।   |
| 1203. | प्रजा राज पार्टी  | 287/264/1, मेरठ बुलन्दशहर रोड, हापुड़ – 245101 उत्तर प्रदेश ।  |
| 1204. | प्रजा सत्ता पार्टी  | 1-91/24, राघवेन्द्रा नगर, पार्वतापुर (ग्राम),<br>ग्राम पंच. – घटकेसर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद,<br>आन्ध्र प्रदेश – 500098 |
| 1205. | प्रजा शान्ति पार्टी   | 382, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद,<br>आन्ध्रा प्रदेश ।   |
| 1206. | प्रजामंडल पार्टी  | बर्थवाल निवास ए शीतला माता मंदिर मार्ग ए<br>लोअर भक्तियाना ए श्रीनगर ए गढवाल ए<br>उत्तराखण्ड वृ 246174                           |
| 1207. | प्रजासत्तक भारत पक्ष  | मु०-शिलेश्वर, पो०-भादस, ता०-मुलशी,<br>जिला – पूणे – 412108, महाराष्ट्र   |



|       |                                |  |
|-------|--------------------------------|--|
| 1208. | प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी      | श्री राम सदन – 40, सरायपित्थू ऑशिक, नयागाँव (केशरुआ), सीतापुर रोड, हरगाँव, जनपद – सीतापुर, उत्तर प्रदेश।     |
| 1209. | प्रजातन्त्र आधार पार्टी        | 46, पुरानी फौजदार की चाली, मेम्को चार रास्ते के पास, नरोडा रोड़, अहमदाबाद-382345 गुजरात।                     |
| 1210. | प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी     | स्टेशन चौक, मुख्य डाकघर के सामने, रायगढ़, छत्तीसगढ़  |
| 1211. | प्रजातांत्रिक बहुजनशक्ति दल    | टी-1, श्रीराम हाउस, 117 एच-2/52, पांडुनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।   |
| 1212. | प्रजातान्त्रिक लोक एकता दल     | 3, कौटिल्य मार्ग, पटना-800 001, बिहार।   |
| 1213. | प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी    | गाँव- हकीमाबाद, तहसील – आस्टा, जिला – सिहोर, मध्य प्रदेश।  |
| 1214. | प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी  | सी-17, यादव नगर, ग्राम – समयपुर, दिल्ली – 110042।  |
| 1215. | प्रवासी निवासी पार्टी          | महा महल बिल्डींग, टी.सी-1/1502/7, पजहाया रोड, मेडिकल कालेज पी.ओ. जिला- तिरुवनंतपुरम, केरला-695011            |
| 1216. | प्रेम जनता दल                  | म. नं० – 1-4-524/ए/7/1, भोलकपुर, बादी मस्जिद के पास, मुशीराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।                     |
| 1217. | प्रिज्म                        | टॉप फ्लोर, 4-सी.एच.एच.ए.-30, विज्ञान नगर, कोटा- 324005 (राजस्थान)।   |
| 1218. | पृथक बस्तर राज्य पार्टी        | 8, सीनियर एच० आई० जी०, सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।  |
| 1219. | प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी | गांव व पोस्ट – सूरजावाली (सलेमपुर), जिला-बुलन्दशहर-203001, उत्तर प्रदेश।                                     |
| 1220. | प्रोग्रेसिव पार्टी             | बी ब्लॉक, गली नं० -5, शनि बाज़ार रोड, अमृत विहार, बुराड़ी, दिल्ली – 110084।                                  |
| 1221. | प्रोग्रेसिव पिपुल्स पार्टी     | मकान नं.-975, 976, श्याम कॉलोनी, बुद्धविहार फेस-II, कृष्णा मंदिर के पास, थाना – विजय विहार, दिल्ली – 110086। |
| 1222. | प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया       | मकान नं. ई-2/39, पाँचवा पुस्ता सोनिया विहार, दिल्ली-110094.  |
| 1223. | प्राउटिस्ट सर्व समाज           | सेवा निकेतन कम्पाउण्ड, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश   |
| 1224. | पब्लिक डेवलेपमेंट पार्टी       | मुरलीपुरशेख सलाह तकिया, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।   |
| 1225. | पब्लिक मिशन पार्टी             | सीता कुंज, गोदावरी अपार्टमेंट के सामने, आशियाना दीघा रोड, पटना, बिहार-800014                                 |
| 1226. | पब्लिक पार्टी                  | “इकबाल महल”, 234ए, अटाला, इलाहाबाद – 211003 उत्तर प्रदेश।  |
| 1227. | पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी         | 14ए/57, पहला तल, डब्लु.ई.ए, करोलबाग, नई दिल्ली- 110005   |
| 1228. | पुडुचेरी डेवलेपमेंट पार्टी     | नं० - 51, सेकण्ड क्रॉस, सेल्वा नगर, उरुवाईयार, पुडुचेरी - 605110।  |
| 1229. | पुडुचेरी पडाईपली मक्कल काच्ची  | सं० 4, फर्स्ट स्ट्रीट, थेंड्रल नगर, पुडुचेरी-605013.   |

|       |                                  |   |
|-------|----------------------------------|---|
| 1230. | पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी         | 958-मटौर सेक्टर-70,<br>एस.ए.एस.नगर, सिंडिकेट बैंक से सटा हुआ<br>पंजाब- 160070                                 |
| 1231. | पंजाब लेबर पार्टी                | ग्राम और डाकखाना-आधनियों, तहसील-मलोट,<br>जिला-मुक्तसर, पंजाब।   |
| 1232. | पंजाब पीपुल्स पार्टी             | 14, सैक्टर-28, अरुण विहार, नोएडा-201303<br>(उत्तर प्रदेश)।  |
| 1233. | पंजाब विकास कांग्रेस पार्टी      | पंज पीर चौक, जालन्धर, पंजाब।  |
| 1234. | पंजाबी दल                        | मकान नं० बी.वी/30ए, रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड, बरनाला-<br>148101, जिला-संगरूर (पंजाब)।                         |
| 1235. | पुराची भारतम                     | नं. 54, नेशनल हाईवे, पूनामल्ला, चेन्नई-56 (तमिलनाडु)।   |
| 1236. | पुरातचिकारा थोझिललार काँची       | नं० 3, करिकालन ईस्ट, प्रथम गली, (एस. पी. हॉस्पिटल के<br>पीछे, अंजाप्पर होटल), अदमबक्कम, चेन्नई,<br>तमिल नाडु। |
| 1237. | पूर्वांचल गण परिषद्              | मकान नं. 34, पाकेट 28, सेक्टर 24, रोहिणी,<br>दिल्ली-110085.   |
| 1238. | पूर्वांचल जनता दल                | ग्राम व पोस्ट - जनाड़ी, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश।   |
| 1239. | पूर्वांचल जनशक्ति पार्टी         | श्री विश्वेश्वर आश्रम सतुवाभार, पोस्ट-बिहारी बुजुर्ग, खजनी,<br>गोरखपुर-273 212, उत्तर प्रदेश।                 |
| 1240. | पूर्वांचल जनता पार्टी (सेक्युलर) | फ्लैट नं. 2, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पॉकेट-1, फेस- 1,<br>सेक्टर- 12, द्वारका, नई दिल्ली-110078                      |
| 1241. | पूर्वांचल क्रान्ति पार्टी        | यादवगंज पोस्ट व सिकराराजनपद व जौनपुर<br>उत्तर प्रदेश।   |
| 1242. | पूर्वांचल महापंचायत              | नं० - 601 डी, शिप्रा सन सिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद,<br>उत्तर प्रदेश।  |
| 1243. | पूर्वांचल राज्य बनाओ दल          | 374, बक्शीपुर उत्तर पावर हाऊस के नजदीक,<br>जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।  |
| 1244. | पूर्वांचल विकास पार्टी           | एल-131, गली नं. 5, महीपाल पुर एक्सटेंशन,<br>नयी दिल्ली- 110037.   |
| 1245. | पुथिया नीधि काची                 | 6, नार्थ बौग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017 (तमिलनाडु)।  |
| 1246. | पुथिया तमिलागम                   | 132, न्यू एम.एल.ए. होस्टल, गर्वर्नमेंट एस्टेट,<br>चेन्नई - 600 002 (तमिलनाडु)।                                |
| 1247. | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया        | 2-1-83, कोला स्ट्रीट, तिरुपति- 517501,<br>(आन्ध्र प्रदेश)।  |
| 1248. | कौमी एकता दल                     | भवन सं० - 228, मो० - अस्तुपुरा तहसील - सदर, जनपद -<br>मऊ, उत्तर प्रदेश।                                       |
| 1249. | कौमी जनता दल                     | 9 बी, त्रिलोकनाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।   |
| 1250. | रैडिकल डेमोक्रेट्स               | घर क्रमांक 4-9-771/पी70, पवनागिरि कॉलोनी, हयातनगर,<br>हैदराबाद, तेलंगाना -501505                              |
| 1251. | रहबर पार्टी                      | वार्ड नं० 2, मोहल्ला कच्ची मस्जिद, रायसेन, तहसील व जिला<br>रायसेन, मध्य प्रदेश।                               |
| 1252. | राजस्थान देव सेना दल             | बस स्टैंड के सामने, धमाई हवेली, दूदू, जयपुर, राजस्थान।  |
| 1253. | राजस्थान जन सत्ता                | ग्रामीण कन्या छात्रावास, वाटर वर्क्स के पास, सादुलपुर, चुरू-<br>331023, राजस्थान।                             |
| 1254. | राजस्थान विकास पार्टी            | 43, चाँद बिहारी नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर-302012<br>(राजस्थान)।  |

|       |                                   |   |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1255. | राजदल हरियाणा                     | डी / एस 45, ब्रास मार्केट, बावल रोड, रेवाड़ी-123401, हरियाणा  |
| 1256. | राजलोक पार्टी                     | बी-123, स्ट्रीट नं. 8, कमल विहार, बुरारी, दिल्ली-110084.  |
| 1257. | राजनैतिक विकल्प पार्टी            | 204 - शाही भवन, डाक बंगला, पटना - 800001, बिहार   |
| 1258. | राज्य नौजवान शक्ति पार्टी         | गाँधीनगर पुलिस थाना के पास, जम्मू, जम्मू व कश्मीर   |
| 1259. | राज्याधिकार पार्टी                | एच-नं.10-4-ए /390, एड्डागोट्टा, ईस्ट मैरीडपल्ली, सिकन्दराबाद-17, आन्ध्र प्रदेश।   |
| 1260. | रक्षका सेना                       | नं. 604, वायुनन्दा लेआउट, हैबल, केम्पापुरा, बंगलोर - 560024, कर्नाटक।   |
| 1261. | रानी चेन्नमा पार्टी               | वक्कलागेरी दयामवनकट्टी, गडग-582101, कर्नाटक।  |
| 1262. | राष्ट्र भक्त दल                   | बाबा बजरंगदास जी की बगीची खाटीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर - 302012, राजस्थान।  |
| 1263. | राष्ट्र हित पार्टी                | 706/707 एम के हाईट्स सीएचएस, बी विंग, सी.टी.एस.नं. 621, एल.वाई आफिस के सामने, एस.जी. बार्वे मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई-400070 महाराष्ट्र। |
| 1264. | राष्ट्र निर्माण पार्टी            | डी 25 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024।   |
| 1265. | राष्ट्र सेवा दल                   | 85/40, ऑफिसर फ्लैट, बेली रोड, पटना-800001, बिहार।   |
| 1266. | राष्ट्र शक्ति                     | 1112, एस /5, टैगोर गार्डन बस स्टैंड के पास, यमुना नगर-135001, जिला यमुना नगर, हरियाणा।  |
| 1267. | राष्ट्र विकास झुंभेश पार्टी       | दूसरी मंजिल, अपोलो एन्क्लेव, जैन देरासर के सामने, मोढेरा क्रॉस रोड, महेसाणा, गुजरात - 384002  |
| 1268. | राष्ट्रसमर्पित जनसमूह             | एच-101, ग्राउण्ड फ्लोर, चन्दु पार्क, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051.  |
| 1269. | राष्ट्रवादी बहुजन क्रान्ति पार्टी | मौहल्ला - चिरंजीलाल, कस्बा - अफजलगढ़, तहसील - धामपुर, जनपद - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246722  |
| 1270. | राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी     | बेगारिया का खेड़ा, पो.आ.बरवान कलां, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।   |
| 1271. | राष्ट्रवादी जनता पार्टी           | अनील भारती भवन, 43-ए, सुखबीर नगर, कराला, नई दिल्ली-110081.  |
| 1272. | राष्ट्रवादी क्रान्ति दल           | इन्दु निवास, गाँव देवी रोड, पोयसर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र- 400101.   |
| 1273. | राष्ट्रवादी प्रताप सेना           | ग्राम-नारायणपुर बासका पो.आ.धौलाना, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।  |
| 1274. | राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी         | एम.एम.एस., 1/84, सेक्टर - ए, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश   |
| 1275. | राष्ट्रवादी चेतना पार्टी          | रा.मकान सं. 16एफ/एफ, के.एच.सं. 28/10, रियाल गार्डन, नागलोई, नई दिल्ली-110041  |
| 1276. | राष्ट्रवादी इंसान पार्टी          | 18/84/6सी, पुरा दलेल, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश  |
| 1277. | राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी     | अम्बर विला, 127/660 डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर-208014 उत्तर प्रदेश।   |
| 1278. | राष्ट्रवादी जनवादी मंच            | मकान नं-160, जोधी का पूरा, आजमगढ़ नगर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।  |

|       |                                       |   |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1279. | राष्ट्रवादी लेबर पार्टी               | डी-12/104, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली - 110085  |
| 1280. | राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी (एल. बी.) | एम. सी. यूनिट नं० 4 - 467, नूनसर जोहड़, पतराम गेट, भिवानी, जिला - भिवानी, हरियाणा - 127021                              |
| 1281. | राष्ट्रवादी प्रजा दल                  | सी-2/60, राम पार्क-1 लोनी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102   |
| 1282. | राष्ट्रवादी समाज पार्टी               | 16/17, सिविल लाईन्स, पदम अपार्टमेंट के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश।   |
| 1283. | राष्ट्रवादी समता पार्टी               | 196 /187क, ग्राम-बलीपुर खुर्दवां, तहसील-गौरीगंज, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश।  |
| 1284. | राष्ट्रवादी सेना                      | मुख्य शाहदरा चौक, दिल्ली - 110032.  |
| 1285. | राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल               | 512/695न, पहली गली, निशातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।-226007  |
| 1286. | राष्ट्रवादी स्वर्ण एकता पार्टी        | प्लॉट नं० - 11, द्वितीय तल, अवधपुरी खण्ड - 1, खरगापुर मार्केट, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।                           |
| 1287. | राष्ट्रवादी युवा पार्टी               | आरसी हाउस, प्रगति नगर, चकमोहब्बत, पो.ओ- भीखनपुर, थाना-अहियापुर, जिला- मुज़फ्फरपुर बिहार- 842004                         |
| 1288. | राष्ट्रीय आदिवासी बहु जन पार्टी       | प्लाट नं०-4, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन नं०- 490 020                                    |
| 1289. | राष्ट्रीय आम पार्टी                   | पार्टी कार्यालय 19ए, दूसरी मंजिल, ओम हीरा पन्ना मॉल, न्यू लिंक रोड, ओसिवरा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400053 |
| 1290. | राष्ट्रीय आमजन पार्टी                 | बी-225, ओल्ड मिनाल, जे.के.रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462023.  |
| 1291. | राष्ट्रीय आदर्श पार्टी                | पित्थूवाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।   |
| 1292. | राष्ट्रीय अग्रणीय दल                  | ग्राम-खमौना, पोस्ट-रेसीपुर, थाना-जन्सा, जनपद-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।   |
| 1293. | राष्ट्रीय अहिंसा मंच                  | 132/1, महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता - 700 007   |
| 1294. | राष्ट्रीय एकता मंच पार्टी             | डी-197, कुँवर सिंह नगर नांगलोई, दिल्ली - 110041   |
| 1295. | राष्ट्रीय अमन सेवा                    | अमन हाउस, संजय गांधी नगर, रोड नं० 9, शिवाजी नगर सं० 2, गोवंडी, मुम्बई, महाराष्ट्र -400043.                              |
| 1296. | राष्ट्रीय अम्बेडकर दल                 | अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार, सेन्ट्रल जेल रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।   |
| 1297. | राष्ट्रीय अंत्योदय कॉंग्रेस           | एस.एस. III/800, सेक्टर - 1, कोपरखैरणे, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र - 400709  |
| 1298. | राष्ट्रीय अपना दल                     | मकान नं० 232/81/4डी, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।  |
| 1299. | राष्ट्रीय आर्य राज सभा                | 769/2, विजय पार्क, झांग कॉलोनी, रोहतक - 124001, हरियाणा।  |
| 1300. | राष्ट्रीय आवामी दल                    | 152, काजी टोला, सैलानी रोड, ओल्ड सिटी, बरेली-243005, उत्तर प्रदेश।  |
| 1301. | राष्ट्रीय बैकवर्ड पार्टी              | 1/44, शान्ति नगर, एटा-207001, उत्तर प्रदेश।   |
| 1302. | राष्ट्रीय बहु जनकाँग्रेस पार्टी       | टी ए - 137/3 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019.   |

|       |                                       |  |
|-------|---------------------------------------|--|
| 1303. | राष्ट्रीय बहु जनहिताय पार्टी          | सी.-158, कैप्टन सतीश मार्ग, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली -110034.  |
| 1304. | राष्ट्रीय बाल्मिकी सेना पक्ष          | जगदगुरु महर्षि बाल्मिकी स्वामी मंदिर मार्ग, सी.एम.ई. राम नगर बोपखेल, पुणे - 411031 (महाराष्ट्र)।                                 |
| 1305. | राष्ट्रीय बन्धुत्व पार्टी             | 554, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।   |
| 1306. | राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी        | 86 - बी, डी.डी.ए. फ्लैट्स, मस्जिद मोठ, फेज - II, ग्रेटर कैलाश, भाग - III, नई दिल्ली - 110 048।                                   |
| 1307. | राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी        | मकान नं० - 144, गांव-मांगावास, डाकखाना-पलड़ा, तहसील-बैरी, जिला-झज्जर, हरियाणा  |
| 1308. | राष्ट्रीय काँग्रेस (बाबू जगजीवनराम)   | वार्ड सं० 45, मोहल्ला - बलदेवपुरी, जनपद - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।   |
| 1309. | राष्ट्रीय काँग्रेस (जे०) पार्टी       | सैंधरी, पोस्ट - हरथला, वाया-पाकवड़ा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।  |
| 1310. | राष्ट्रीय देहात मोर्चा पार्टी         | 601, रोहित हाउस, 3- टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली - 110001   |
| 1311. | राष्ट्रीय देशज पार्टी                 | टुंगरी टोली, अरगोडा, सेन्ट फ्रांसिस स्कूल, पोस्ट-हारमू, जिला-रांची, झारखण्ड, पिन - 834012  |
| 1312. | राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी | 108, शंकर शाह नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।   |
| 1313. | राष्ट्रीय एकता पार्टी                 | सी० एन० - 716, तालीवालान, सी०एन० - ब्लॉक, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली - 110005.   |
| 1314. | राष्ट्रीय एकता पार्टी (सैक्यूलर)      | भवन नं० 543, मोहल्ला- उपादियान, वार्ड नं० 14, किठौर, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश।   |
| 1315. | राष्ट्रीय एकता विकास पार्टी           | नूर मस्जिद के पास, मदाना मस्जिद ट्रांसफार्मर वाली गली, अशोक विहार, वार्ड नं० 42, लोनी, तहसील एवं जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। |
| 1316. | राष्ट्रीय गरीब दल                     | 110, रामनगर, पानीपत, हरियाणा।  |
| 1317. | राष्ट्रीय गरिमा पार्टी                | बी-14, कस्तूरबानगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल - 462001, मध्य प्रदेश।  |
| 1318. | राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी             | सारखेल हाउस, तिफरा, बिलासपुर - 495223, छत्तीसगढ़।  |
| 1319. | राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी          | 62, सिविल लाईन्स, रुड़की, जनपद - हरिद्वार, उत्तराखण्ड।   |
| 1320. | राष्ट्रीय ग्रामीण पार्टी              | ग्राम - चकरेशानपुर (केमराला) पो० आ० घोड़ी बछेरा (दादरी), जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।                                      |
| 1321. | राष्ट्रीय हमारा दल                    | 22/191, ढोली खार, मन्टोला, आगरा (उत्तर प्रदेश)।  |
| 1322. | राष्ट्रीय हिन्दू सेना                 | 158/1, देव नगर, जिला- फिरोजाबाद - 283203 उत्तर प्रदेश।   |
| 1323. | राष्ट्रीय हिन्दुस्तान सेना, कर्नाटक   | शिवा शक्ति, 141, न्यू बस स्टॉप के पीछे, वासवी नगर, हुबली - 580 030, कर्नाटक।   |
| 1324. | राष्ट्रीय हित काँग्रेस                | 712, जी- ब्लॉक, मिलिट्री रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.  |
| 1325. | राष्ट्रीय इन्डीपेंडेंट मोर्चा         | माईनिंग रोड, किंओझार (ओ.एस.एम. ई. लेडीज़ हॉस्टल के सामने), पोस्ट/द्वारा : किंओझारगढ़, जिला : किंओझार - 758001 ओड़िसा।            |
| 1326. | राष्ट्रीय इन्दिरा पार्टी              | दत्तपुरा, सब्जीमण्डी के पास, मुरैना, मध्य प्रदेश।  |
| 1327. | युवा पार्टी                           | 1-8-1-83, गैरेज नं० - 83, ग्राउंड फ्लोर, बागलिंगम्पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश   |

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
| 1328. | राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी           | 470, परमानतपुर, (सपना आइस फैक्ट्री के पीछे), पोस्ट- कचहरी, तहसील- सदर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222002                   |
| 1329. | राष्ट्रीय जन जन पार्टी             | ग्राम- नवादा खुर्द, पोस्ट- सहदुल्लहपुर, भाया- हाजीपुर, जिला- वैशाली, बिहार  |
| 1330. | राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी         | जी - 290, ओल्ड सीमा पुरी, दिल्ली - 110095.  |
| 1331. | राष्ट्रीय जन सहाय दल               | 112, न्यू कर्नाट प्लेस, देहरादून, उत्तराखण्ड ।  |
| 1332. | राष्ट्रीय जन समानतावादी (अम्बेडकर) | 71- बी, पॉकेट ए -3, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019   |
| 1333. | राष्ट्रीय जन संसद                  | शक्ति नगर, पुराना जी.टी. रोड, खुरजा, जिला - बुलन्दशहर - 203131, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1334. | राष्ट्रीय जन सेवक पार्टी           | गांव - नांगला जमालपुर, पोस्ट- पंचली खुर्द, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1335. | राष्ट्रीय जनाधार पार्टी            | 596 एस <sup>ए</sup> के <sup>ए</sup> 04501501ए सुमिरन खेड़ा<br>आदर्श विहार <sup>ए</sup> लखनऊ <sup>ए</sup> उत्तर प्रदेश ।     |
| 1336. | राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी          | 61, मंगला पुरी फेस- 1, पालम, नई दिल्ली - 45.  |
| 1337. | राष्ट्रीय जनाधिकार सुरक्षा पार्टी  | गाँव - कृष्णापुर, पोस्ट - धोपाहाट कृष्णापुर, जिला - 24, परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल ।                                      |
| 1338. | राष्ट्रीय जनआन्दोलन पक्ष           | 'पोवराभवन' नं० 567 (38) , 60 फीट रोड, गोकुल मथीकेरे लेआउट, बंगलौर - 560054 , (कर्नाटक) ।                                    |
| 1339. | राष्ट्रीय जनसचेतन पार्टी           | सेनारपुर, सुकान्ता नगर (मिलानपाली) (शिव मन्दिर के पास) पो० आफिस व पुलिस स्टेशन - सोनारपुर, कोलकाता - 700150, पश्चिम बंगाल । |
| 1340. | राष्ट्रीय जनता जनार्दन पार्टी      | सूरज का पुरवा, अतररूरल, पो० ऑ० अतररी जिला-बाँदा, उत्तर प्रदेश ।   |
| 1341. | राष्ट्रीय जनहित पार्टी             | कोठी नं० 75, सेक्टर - 17, पंचकुला- 134109. (हरियाणा)।   |
| 1342. | राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी      | 109- एफ, नजीम पुरा, भूड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203001   |
| 1343. | राष्ट्रीय जन-जागरण मोर्चा          | राज मंजिल, वार्ड नं० 12, गोपालगंज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट - गोपालगंज, बिहार ।  |
| 1344. | राष्ट्रीय जनक्रान्ति मोर्चा        | ग्राम - बभने आलमनगर, पोस्ट - प्रतापपुर, जिला - चतरा, झारखण्ड ।  |
| 1345. | राष्ट्रीय जनक्रान्ति पार्टी        | 5/24 एच - 10 (आर०), आई०टी०आई० रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001  |
| 1346. | राष्ट्रीय जनमत पार्टी              | ग्राम - फतूहा, पोस्ट-हनुमानगंज, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।   |
| 1347. | राष्ट्रीय जनमोर्चा                 | सी-69/10, गली नं०- 10, सी ब्लॉक, मुस्तफाबाद, दिल्ली - 110094  |
| 1348. | राष्ट्रीय जनप्रिय पार्टी           | एच -II - 76/डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ - 226012, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1349. | राष्ट्रीय जनरक्षक पार्टी           | ग्राम - बिर्जापुर, पोस्ट - अडूकी, जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1350. | राष्ट्रीय जनसभा पार्टी             | फारेस्ट कॉलोनी वार्ड, जिला- कोण्डागांव, छत्तीसगढ़- 494226.  |
| 1351. | राष्ट्रीय जनसंघ                    | पुराना - 20, नया-35, विक्टोरिया पार्क, स्पोर्ट्स कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1352. | राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी       | अपर चुटिया, रांची, झारखण्ड – 834001  |
| 1353. | राष्ट्रीय जनसेना पार्टी                | दुकान नं. 101, मदीना कॉम्प्लेक्स, कुंभारटेक, शिरपुर, जिला- धुले, महाराष्ट्र।                                     |
| 1354. | राष्ट्रीय जनसेवा – सेकुलर पार्टी       | 428, ब्राह्मण वाडा, पुराना वाई नं०- 23, बल्लभगढ़ – 121004, जिला – फरीदाबाद, हरियाणा।                             |
| 1355. | राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (एकलव्य)      | पोस्ट व गांव – बिंजहोल, तहसील और जिला – पानीपत, हरियाणा – 132103.  |
| 1356. | राष्ट्रीय जनशांति पार्टी               | 52/2, स्कूल वाई चौक, जी.जी.आई.सी. के पीछे, प्रतापगढ़ – 230001, उत्तर प्रदेश।                                     |
| 1357. | राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी             | मकान नं. 953/सी, गरोबा मैदान, भंडारा रोड, बगडगंज, नागपुर (पूर्व), महाराष्ट्र-440008                              |
| 1358. | राष्ट्रीय जनता पार्टी                  | निकट शिव मन्दिर कालोनी, सौरखा, जाहिदाबाद, सैक्टर – 115, नोएडा, जिला – गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश।                 |
| 1359. | राष्ट्रीय जनतंत्र पक्ष                 | 24, स्टार अपार्टमेंट्स, विद्या विहार मार्ग, सेक्टर – IX, रोहिणी, दिल्ली - 110085                                 |
| 1360. | राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी | गोविन्द चिकित्सालय, परसिया मोड़, रसूलपुर, रसड़ा – बलिया, उत्तर प्रदेश।   |
| 1361. | राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (सेक्यूलर) | फ्लैट नं० 153-154, वीर चन्द पटेल पथ, पटना- 800001 (बिहार)  |
| 1362. | राष्ट्रीय जनउत्थान पार्टी              | ए-655-56, आवास विकास, हंसपुरम (कैनाल रोड), नौबस्ता, कानपुर नगर – 208021, उत्तर प्रदेश।                           |
| 1363. | राष्ट्रीय जनविकास पार्टी (डेमोक्रेटिक) | मनोरमा सदन, इन्द्रपुरी सिपारा, पोस्ट आफिस- ढेलवाँ, थाना- बेऊर, जिला- पटना, बिहार- 800020.                        |
| 1364. | राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी)  | 9/168, इन्द्रानगर, पानी टंकी के पास लखनऊ – 226016.   |
| 1365. | राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी  | 788- ई/24, यूनियन बैंक के सामने, नजदीक पुरानी कचहरी, रोहतक रोड, सोनीपत - 131001, हरियाणा।                        |
| 1366. | राष्ट्रीय कल्याण पक्ष                  | 904, अटलान्टा टावर, इन्कलाब सोसायटी गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद – 380006, गुजरात।                                     |
| 1367. | राष्ट्रीय कामगार पार्टी                | बी डब्ल्यू-97, डी, शालीमार बाग, दिल्ली - 110088  |
| 1368. | राष्ट्रीय कमजोर वर्ग पार्टी            | केन्द्रीय कार्यालय – पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पोस्ट ऑफिस, (उच्च तल), पटना – 800023 (बिहार)। |
| 1369. | राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी               | गाँव व पोस्ट – सुल्तानपुर तहसील – नीलोखेड़ी, हरियाणा – 132116.   |
| 1370. | राष्ट्रीय किसान कॉंग्रेस पार्टी        | मकान नं० 1-11-602 रमामाता आंबेडकर नगर, गुरु गोविंद सिंघजी स्टेडियम के पास, ता. जि. नांदेड, महाराष्ट्र।           |
| 1371. | राष्ट्रीय किसान पार्टी                 | गांव व पो०-धानौधा, तहसील व जिला – महेन्द्रगढ़, (हरियाणा)।  |
| 1372. | राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी (यूनाईटेड) | मौहल्ला – पटेगंज कांठ, पोस्ट – कांठ, तहलील- कांठ, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244501                        |
| 1373. | राष्ट्रीय किसान विकास पार्टी           | ग्राम व पोस्ट – परासी, तहसील – मनगवा, जिला – रीवा मध्य प्रदेश - 486111   |
| 1374. | राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी             | लिमडा लेन, मकरानी पाडा, जामनगर – 361001, (गुजरात)।   |
| 1375. | राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी              | लोधी प्रजापीठ, लौह पुरुष डा. साक्षी नगर, शिकोहाबाद रोड, जिला एटा – 207001, उत्तर प्रदेश।                         |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1376. | राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल                 | गोपाल नगर, मेन सुरखपुर रोड, नजफगढ़,<br>नई दिल्ली - 110043.  |
| 1377. | राष्ट्रीय क्रान्तिकारी जनता पार्टी        | 407, दुर्गा चैम्बर्स, डी. बी. गुप्ता रोड, करोल बाग,<br>नई दिल्ली - 110005.  |
| 1378. | राष्ट्रीय क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी    | मकान सं०-65/25 के, छितवापुर रोड, लाल कुँआ, लखनऊ, उत्तर<br>प्रदेश।   |
| 1379. | राष्ट्रीय लोक जागृति पार्टी               | बैरक नं० - 27 के पास, बुद्ध विहार के सामने, भीम नगर,<br>उलहासनगर - 421001, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र।                         |
| 1380. | राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी              | एम - 12, मीर विहार, मदनपुर डबास, दिल्ली।  |
| 1381. | राष्ट्रीय लोक सर्वाधिकार पार्टी           | म. नं० -630, ग्राम- पसौंडा, बौद्ध विहार मंदिर, साहिबाबाद,<br>गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश                                      |
| 1382. | राष्ट्रीय लोक सेवा मोर्चा                 | 206, लव कुश टावर, एकजीवीशन रोड, पटना 800001, बिहार।   |
| 1383. | राष्ट्रीय लोक तन्त्र दल                   | ग्राम मोहल्ला - नगला काशी, तहसील - धौलाना, जिला -<br>हापुड़, उत्तर प्रदेश - 245301  |
| 1384. | राष्ट्रीय लोकहित पार्टी                   | ए-40/35 ए, अमरपुर मढिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।   |
| 1385. | राष्ट्रीय लोकमंच                          | 1303, नौरंग हाऊस, बी-ब्लॉक,<br>21-कस्तूरबागाँधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001   |
| 1386. | राष्ट्रीय लोकराज पार्टी                   | भवन सं० - 73/382, मोहल्ला - वनखण्डी टीला,<br>(सहकारी बैंक के पीछे), मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001                           |
| 1387. | राष्ट्रीय लोकशाही पार्टी                  | सर्वे नं० - 40/1, 40/2 एवं 40/3,<br>मकान सं० - 411 एवं 412, ग्राम - बीड बुदुक,<br>तालुक - कर्जत, जिला - रायगड, महाराष्ट्र |
| 1388. | राष्ट्रीय लोकशक्ति पार्टी                 | अर्जुन नगर कालोनी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, उत्तर<br>प्रदेश - 262802   |
| 1389. | राष्ट्रीय लोकस्वराज पार्टी                | पद्मा फॉर्म, गाँव - छप्परा खेड़ा,<br>नजदीक बालाजी मंदिर फूसगढ़,<br>करनाल, हरियाणा   |
| 1390. | राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समभाव सेकुलर पार्टी | म०नं० 411, कृष्णबिहारी नगर,<br>बांदा सागर रोड वर्मा तिराहा,<br>जिला व तहसील - फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।                      |
| 1391. | राष्ट्रीय लोकवादी पार्टी                  | ए/6ए, ग्राउण्ड फ्लोर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली - 110015   |
| 1392. | राष्ट्रीय मच्छुवा समाज पार्टी             | रेलवे रोड, दादरी, नियर रावाजी फार्म हाउस,<br>गोतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)।   |
| 1393. | राष्ट्रीय महा जनशक्ति दल                  | कमरा नं० -17, एम. नरेश मुन्ना चॉल, जयहिन्द नगर, पाईप<br>लाइन, खार पूर्व, मुम्बई - 400 051, महाराष्ट्र।                    |
| 1394. | राष्ट्रीय महान दल                         | 108/60, आवास विकास कॉलोनी, ग्राम तैमूरपुर<br>पोस्ट-बिजनौर, जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश।                                    |
| 1395. | राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी            | मकान सं० 1488 अन्ना नगर, सेक्टर-बी,<br>पोस्ट - गोविन्दपुरा, भोपाल - 462023, मध्य प्रदेश।                                  |
| 1396. | राष्ट्रीय महाशक्ति पार्टी                 | 5, रुपायातन एस. वी. रोड। विले पार्ले पश्चिम,<br>मुम्बई-400056, महाराष्ट्र।  |
| 1397. | राष्ट्रीय महिला जनशक्ति पार्टी            | ग्राम सभा-सैंता जिगिनियाँ, पोस्ट-काँटा गुलजारपुर, ब्लॉक-<br>फतेहपुर, जिला-उन्नाव, पिन-909801,<br>उत्तर प्रदेश।            |
| 1398. | राष्ट्रीय मानव अधिकार पार्टी              | 17/700, ग्राम- गोपालपुर, पो. आजादपुर (तिमारपुर), दिल्ली -<br>110009   |



|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1399. | राष्ट्रीय मानव एकता काँग्रेस पार्टी        | गुरुद्वारा के सामने, स्टेशन रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।  |
| 1400. | राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी               | मकान नं०-1485, किदवई नगर, भारद्वाजपुरम, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211006.  |
| 1401. | राष्ट्रीय मंगलम पार्टी                     | 19/23, वेस्ट मोती बाग, स्ट्रीट नं - 3, सराय रोहिल्ला, दिल्ली - 110 035.   |
| 1402. | राष्ट्रीय मार्क्सवादी दलित लहर पार्टी      | ग्राम: छोंकरवाड़ा तहसील: वैर जिला: भरतपुर राजस्थान ।  |
| 1403. | राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी                | ब्लॉक बी, संत नगर, गली नं० 57, बुरारी रोड, दिल्ली - 110009.   |
| 1404. | राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी | अशोक ऐवन्यू, गांव - लालगंज, थाना - सदर, जिला - राँची, झारखण्ड।  |
| 1405. | राष्ट्रीय मजदूर किसान पार्टी               | आकाश भवन, आई0डी0बी0आई0 बैंक के सामने, मेन रोड दादरी, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, विकास खण्ड- विसरख, तहसील- सदर, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश । |
| 1406. | राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी                    | मकान नं० - 57, ग्राम-मानेसर, मोहल्ला - मोहन पट्टी, जिला - गुडगाँव, हरियाणा - 122050.  |
| 1407. | राष्ट्रीय नौजवान दल                        | 20/575, डी०डी०ए० फ्लैट, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली - 110062  |
| 1408. | राष्ट्रीय परिवर्तन दल                      | बी - 4 ए/25, राणा प्रताप बाग, दिल्ली - 110007.  |
| 1409. | राष्ट्रीय पीस पार्टी                       | 17जी/322, सैक्टर - 17, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1410. | राष्ट्रीय प्रगति पार्टी                    | गढ़ पर, नारदीगंज रोड, नवादा, पोस्ट व जिला - नवादा - 805 110, बिहार।   |
| 1411. | राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रजातन्त्र पार्टी     | 3518, दरीबापन, शीला सिनेमा के सामने, पहाडगंज, नई दिल्ली - 110055.   |
| 1412. | राष्ट्रीय प्रजा काँग्रेस (सेक्यूलर)        | 12-11-113, ए. बी. नागेश्वर राव स्ट्रीट, आर्य पुरम राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)  |
| 1413. | राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी            | मकान नं. 38, ग्राम - जनौर, पोस्ट कन्धीकला, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।   |
| 1414. | राष्ट्रीय राजधानी काँग्रेस दिल्ली          | 8, नाथ मार्किट, नई सड़क, दिल्ली - 110006.   |
| 1415. | राष्ट्रीय रक्षा दल                         | मार्फत, होटल पंकज, सैक्टर - 22ए, चंडीगढ़।   |
| 1416. | राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी               | 2/36, रुचि खण्ड-1, शारदा नगर योजना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226012   |
| 1417. | राष्ट्रीय सदभावना पार्टी                   | ग्राम- राघोपुर नरसंडा, पोस्ट- बाजितपुर, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 843110  |
| 1418. | राष्ट्रीय साधु विचार काउंसिल               | रैदोपुर न्यू, ऑफिसर कॉलोनी, न्याय मार्ग, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।   |
| 1419. | राष्ट्रीय सहारा पार्टी                     | जंगरा मार्किट दुन्दहारा, गुडगाँव - 122016, हरियाणा।   |
| 1420. | राष्ट्रीय समाधान पार्टी                    | 121-ए० आर० - 3/ए० -2, मंगल बाजार, मोहन गार्डन, नई दिल्ली - 110059.  |
| 1421. | राष्ट्रीय समाज पक्ष                        | द्वारा एल. डब्ल्यू. काले, 17 - रघुनाथ दादोजी स्ट्रीट, चौथी मंजिल, हैन्डलूम हाउस के पास, फोर्ट, मुम्बई - 400001, महाराष्ट्र।                 |
| 1422. | राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल                 | ग्राम - बासूपार (बनकट) निकट शिवा नरसिंह होम, पो - जीयनपुर, जनपद - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।  |

|       |                                       |  |
|-------|---------------------------------------|--|
| 1423. | राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी  | बी-37/162, के. पी. गिरी कॉलोनी, बिरदोपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1424. | राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्यूलर)  | ए 104, राजश्री एवेन्यू, बी./एच., इन्कम टैक्स के पीछे, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009, गुजरात।                                |
| 1425. | राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (यूनाईटेड)  | 9, कम्युनिटी सेन्टर, अशोक विहार, फेस-II, दिल्ली - 110052.  |
| 1426. | राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी "प्रगतिशील" | बी - 248, मोहन नगर, थाटीपुर, मोरार, ग्वालियर, (मध्य प्रदेश)।   |
| 1427. | राष्ट्रीय समानता दल                   | 8/440, त्रिलोक पुरी, दिल्ली - 110091.  |
| 1428. | राष्ट्रीय समदर्शी देशभक्त दल          | खुशकरी सदन, आनन्द नगर, मण्डी रोड तिराहा, कासगंज, काशीराम नगर, उत्तर प्रदेश।  |
| 1429. | राष्ट्रीय साम्यवादी आर्यन पार्टी      | 570/20, विराट नगर, आलम बाग, लखनऊ-226005, उत्तर प्रदेश।   |
| 1430. | राष्ट्रीय संघर्ष पार्टी               | फरीदाबाद, सुजानगंज, जौनपुर-222201, उत्तर प्रदेश।   |
| 1431. | राष्ट्रीय संत संदेश पार्टी            | 263, बनारस निवास, मित्रनगर, लातूर, तालुक व जिला-लातूर-413512, महाराष्ट्र ।   |
| 1432. | राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी              | 5/36, रेलवे रोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, जनपद - फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश -209625 ।  |
| 1433. | राष्ट्रीय सर्वसमाज पार्टी (इंडिया)    | प्लॉट नं०-256, मीतला धाम, रहीवासी संघ, जरी वर्गोस टर्मट कम्पनी के सामने, जनरल ए. के. वैद्य मार्ग, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400 097, महाराष्ट्र । |
| 1434. | राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी               | 124/3, मदक खाना खुशीपुरा, झांसी-284001, उत्तर प्रदेश।  |
| 1435. | राष्ट्रीय सर्वजन समाज पार्टी          | ग्राम व पो० - मानधाता, तहसील - सदर, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।  |
| 1436. | राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी              | ए - 412, ए0जी0 कॉलोनी, थाना - शास्त्री नगर, जिला - पटना, बिहार - 800025  |
| 1437. | राष्ट्रीय सवर्ण दल                    | दुबे का पड़ाव, अलीगढ़ - 202001, (उत्तर प्रदेश)।  |
| 1438. | राष्ट्रीय स्वर्ण शक्ति पार्टी         | 299, ग्राउन्ड फ्लोर, गगन विहार, दिल्ली-110051  |
| 1439. | राष्ट्रीय सैक्युलर काँग्रेस           | आशीर्वाद अपार्टमेन्ट, मथुरा द्वारका रोड, सकुन्तला पथ, 5 वीं बयई लेन, दीसपुर, गुवाहाटी-6, असम ।   |
| 1440. | राष्ट्रीय शहरी विकास पार्टी           | म0 नं0 8/69(40,40ए) पुराना किला, बाबू बनारसी दास नगर, कैण्ट रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001   |
| 1441. | राष्ट्रीय शक्ति पार्टी (इण्डिया)      | 80-ए, मुनिरका गाँव, नई दिल्ली-110067   |
| 1442. | राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी           | गांव - लोहवन, पोस्ट - लोहवन, लक्ष्मी नगर - बलदेव रोड, जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश   |
| 1443. | राष्ट्रीय सिन्धी काँग्रेस             | 437/बी/1, रुबिया हाऊस, बी/एच, एलिस ब्रिज शॉपिंग सेन्टर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।  |
| 1444. | राष्ट्रीय सूर्य प्रकाश पार्टी         | द्वारा श्री पन्ना लाल, पुत्र श्री भोले शंकर, थाना-अवागढ़, जलेसर रोड, कस्बा व डाकखाना-अवागढ़, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश ।                        |
| 1445. | राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल                | 3, रशद नगर, गोरखपुर रोड, आजमगढ़ - 276001, उत्तर प्रदेश।  |

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
| 1446. | राष्ट्रीय उन्नतिशील दल             | एफ. 167, चांद बाग कॉलोनी, पो.-गोकुलपुरी, दिल्ली - 110094  |
| 1447. | राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी        | 124/98, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।   |
| 1448. | राष्ट्रीय विकल्प पार्टी            | ग्राम-पिपरीली, पोस्ट-जहाँगीराबाद, जनपद-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।  |
| 1449. | राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी         | प्लॉट सं० 58, न्यू कालोनी, तिलमापुर, आशापुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।   |
| 1450. | राष्ट्रीय विकास पार्टी             | 195, मेन अशोका इन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा  |
| 1451. | राष्ट्रीय विकलांग पार्टी           | 114, डी. डी. ए. पॉकेट-2, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110045  |
| 1452. | राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी          | एफ-25, प्रोफेसर कालोनी, कमलानगर, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश।   |
| 1453. | राष्ट्रीय युवासमाज पार्टी          | 18- मुस्कान मंजिल, रसुलाबाद, रहमत इप्लेक के सामने, शाह-ए-आलम, अहमदाबाद, गुजरात- 380028  |
| 1454. | राष्ट्रीय युवासंघ                  | बी-117, गली नं. 6, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091.   |
| 1455. | राष्ट्रीय आम जन सेवा पार्टी        | सी-90, खसरा नं. 770, मदनपुर, खादर एक्सटेंशन, तहसील-महरौली, नई दिल्ली- 110076.   |
| 1456. | राष्ट्रीय इन्साफ पार्टी            | मकान नं. 606, रुद्रा नगर, जिला - सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश।   |
| 1457. | राष्ट्रीय नव निर्माण पार्टी        | जयमांदेवी पेंथो स्ट्रीट, ओल्ड ब्रह्मपुर, पोस्ट - ब्रह्मपुर, थाना - बडा बाजार, जिला - गंजम, ओड़िसा-760009                        |
| 1458. | राष्ट्रीय प्रजा चक्रव्यूह पार्टी   | नं० 73, शान्तिनिकेतनम, डी. के. हल्ली मेन रोड, पालार नगर, बीईएमएल नगर (पोस्ट), बंगारपेट (तालुक), कोलार (जिला), कर्नाटक - 563115। |
| 1459. | राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी           | 72- तुलसीमंडी, होटल महारानी, महारानी चौक, पोस्ट- गुलजारबाग, थाना- आलमगंज, पटना सिटी, जिला- पटना, बिहार- 800007.                 |
| 1460. | रायलसीमा काँग्रेस पार्टी           | 5/62, पेड्डुरु रोड, गालीवीडु कास्पा, गालीवीडु पोस्ट एवं मण्डल, वाई.एस.आर. कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश - 516267                     |
| 1461. | रायलसिमा परिरक्षण समिति            | डोर नं. 70-125-बी-71, हाईवे के निकट, कल्लुर, कर्नूल टाउन, आन्ध्र प्रदेश - 518003  |
| 1462. | रायलसीमा राष्ट्र समिति             | डोर नं. 22/160, वसन्थपेटा, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, प्रोद्दातुर - 516 360, आन्ध्र प्रदेश।  |
| 1463. | रिज़नल डेमोक्रेटिक सेकुलर काँग्रेस | लोअर लम्पेयरिंग, पोस्ट - लाबन, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, शिलॉंग - 793004, मेघालय।   |
| 1464. | रिपब्लिकन बैकवर्ड काँग्रेस         | प्लॉट सं० - 04, गली सं०-1, वाई सं०-1, एम. सी. - कालोनी, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाण।  |
| 1465. | रिपब्लिकन बहुजन सेना               | 305, शाहू स्मृति बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, महात्मा फुले नगर, मीनाताई ठाकरे उद्यान के पीछे, ठाणे (वेस्ट), महाराष्ट्र - 400606        |
| 1466. | रिपब्लिकन लेबर पार्टी              | ब्लॉक-4, हाउस नं०-236, 7 वीं माइल चुमुकेडिया, दीमापुर-797 103, पोस्ट बॉक्स - 354, नागालैण्ड।                                    |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1467. | रिपब्लिकन पक्ष ( खोरिपा )  | ईसा हटमेंटस, 8-9, आजाद मैदान,<br>मुम्बई महा नगर पालिका के सामने, किला,<br>मुम्बई-400001, (महाराष्ट्र) ।                              |
| 1468. | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया   | ई.एन. एस. ए. हटमेंट, आई-ब्लॉक, महापालिका मार्ग, आजाद<br>मैदान, मुम्बई-400001, (महाराष्ट्र) ।   |
| 1469. | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)                           | मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लाटुर-413512(महाराष्ट्र)  |
| 1470. | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (काम्बले)                               | ए, 703, सूर्याकिरण, को. औप. हाऊसिंग सोसाईटी, प्लॉट नं. 12<br>एण्ड 13, सेक्टर-5, धनसौली,<br>नवी मुंबई- 400701, महाराष्ट्र।            |
| 1471. | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोब्रागडे)                             | गीता विला, ईस्ट मारेड पल्ली,सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)<br>।  |
| 1472. | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (शिवराज)                                | 10, सोलई स्ट्रीट, अयानावरम,चेन्नई-600023, (तमिलनाडु) ।   |
| 1473. | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी                                | बी-9/667, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005  |
| 1474. | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)                                     | 1/16, संजय काम्पलैक्स, टी. टी. नगर,<br>भोपाल-462003, (मध्य प्रदेश) ।   |
| 1475. | रिपब्लिकन प्रेसिडियम पार्टी ऑफ इंडिया                              | उरूली-कंचन, पुणे-412202, (महाराष्ट्र) ।  |
| 1476. | रिपब्लिकन सेना   | शॉप नं० -6, न्यू निर्मल सोसाइटी, 189,<br>ढोले पाटील रोड,अक्षय कॉम्प्लेक्स समोर, पुणे,<br>महाराष्ट्र - 411001                         |
| 1477. | रिवोल्यूशनरी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक<br>भट्ट )           | 84-आशुतोष मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025,<br>पश्चिम बंगाल ।   |
| 1478. | रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया                         | 5221, गली नं.-115,बी-ब्लॉक, सन्तनगर,बुराडी, दिल्ली-<br>110084  |
| 1479. | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया<br>(मार्क्सिस्ट)            | टीसी 24/113, पनविला, थाईकाडु पो.आ., तिरुवनन्थापुरम, पिन<br>कोड-695014  |
| 1480. | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरल (बोल्शेविक)<br>आर. एस. पी. बी | केरला स्टेट कमिटी कार्यालय, फ्यूचर सेंटर,शाहोदरा, समाजम<br>रोड, चेट्टाकुलंगरा, तिरुवनंतपुरम (केरल)                                   |
| 1481. | राईट पार्टी ऑफ इंडिया  | ग्राम व पोस्ट - उत्तर बहीरगाछी,<br>पी.एस. - नाकाशीपाड़ा, जिला - नदिया,<br>पश्चिम बंगाल - 741126                                      |
| 1482. | सब समान पार्टी   | मकान सं० - 90 क, गांव सरसण्डा,<br>पोस्ट - गोपरामऊ, तहसील व जिला - लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश  |
| 1483. | सबबथ पार्टी  | दुकान नं. - 3, लक्ष्मी निवास बिल्डिंग, एम. एन. रोड, कुरला (<br>पश्चिम), मुंबई - 400070, महाराष्ट्र ।                                 |
| 1484. | सबकी पार्टी  | बी.141ए सेक्टर.जीए जानकीपुरम, लखनऊ<br>उत्तर प्रदेश ।   |
| 1485. | सदान विकास पार्टी  | नॉर्थ ऑफिस पारा, गौरी शंकर नगर, मकान नं.-276, दोरन्डा,<br>राँची, झारखण्ड ।   |
| 1486. | सदभावना पार्टी   | कमरा नं. 14, प्रथम तल, लखनऊ होटल श्रीराम रोड, चौराहा<br>अमीनाबाद, लखनऊ-226018,(उत्तर प्रदेश) ।                                       |
| 1487. | सैनिक समाज पार्टी  | 317, शिवा डिस्पोजल कॉम्प्लेक्स,<br>संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड, चन्द्रभागा, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश,<br>जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड-249201 |
| 1488. | शक्ति भारत देशम  | सं. 2/58, वैरावन चेटी स्टोर,पाचीयाम्मन पाडीथुराई, मदुरै-<br>625001,तमिलनाडु।   |

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
| 1489. | समग्र विकास पार्टी                 | 1147/8 (157), पी0 एल0 शर्मा रोड, मेरठ,<br>उत्तर प्रदेश - 250001   |
| 1490. | समैक्या राष्ट्र समीति              | डी. नं. 42-64-1/1, लूना सेन्टर, एम.के. बैग मुनिसिपल<br>कॉरपोरेशन हाई स्कूल के पीछे, सिंह नगर, विजयवाडा, जिला -<br>कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश - 520015                  |
| 1491. | समैक्या तेलुगु राज्यम              | डी. नं. 1-39-बी (क्रम सं. 1026ए), चायापुरम गाँव, वज्राकर<br>मंडल, अनन्तपुर जिला,<br>आन्ध्र प्रदेश - 515842  |
| 1492. | समैक्यांध्र परिरक्षणा समिति        | मकान नं. 8-3-580/1, येल्लारडुडीगुडा,<br>अमीरपेट - 500073, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।  |
| 1493. | समाज परिवर्तन पार्टी               | ग्राम-सलारपुर, पोस्ट-करोरा, तहसील-मछलीशहर, जनपद-<br>जौनपुर, उत्तर प्रदेश।   |
| 1494. | समाज सेवा पार्टी                   | मकान नं. 27, बहरामगढ़, तहसील- बुढ़ाना,<br>जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।   |
| 1495. | समाज सेवक पार्टी                   | 568ख <sup>223</sup> सेक्टर <sup>7ए</sup><br>नियर पुराना भारत गैस गोदाम <sup>ए</sup> गीतापल्ली <sup>ए</sup> आलमबाग <sup>ए</sup><br>लखनऊ <sup>ए</sup> उत्तर प्रदेश। |
| 1496. | सामाजिक एकता पार्टी                | 22, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सोनीपत-131001, (हरियाणा)।   |
| 1497. | सामाजिक इंसाफ पार्टी (राष्ट्रवादी) | मकान नं0 - 53, ग्राम - लहरी, पोस्ट - कुरियार,<br>जिला - बस्ती, उत्तर प्रदेश।  |
| 1498. | सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी          | मुकाम राजा मार्किट, सिनेमा रोड, गोपाल गंज नगर पालिका,<br>पोस्ट - गोपालगंज-841428,<br>जिला- गोपालगंज (बिहार)।  |
| 1499. | सामाजिक न्याय पार्टी               | एम-22, महावीर पार्क, मारिस रोड, अलीगढ़-202001, (उत्तर<br>प्रदेश)।   |
| 1500. | समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इण्डिया     | 40/1, बी0 रोड0, बामनगाछी, हावड़ा-711006,<br>पश्चिम बंगाल।   |
| 1501. | समाजवादी जन परिषद                  | जय माल्हा प्रसाद, रेती बुन्देर रोड, महागिरि, ठाणे (पश्चिम) -<br>400601, (महाराष्ट्र)।   |
| 1502. | समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक       | 14, डॉ. विशंभर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001  |
| 1503. | समाजवादी जनता पार्टी (चन्द्र शेखर) | नरेन्द्र निकेतन, पुलिस मुख्यालय के पीछे,<br>इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002   |
| 1504. | समाजवादी जनता पार्टी (कर्नाटक)     | कमरा संख्या-21, द्वितीय तल, हमीद शाह कॉम्प्लेक्स, नं.-<br>2, कब्बनपेट, मेन रोड, उल्सूर गेट,<br>पुलिस स्टेशन के पीछे, बंगलौर-560002, कर्नाटक।                      |
| 1505. | समाजवादी क्रान्ति दल               | 3/197, विधायक पुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश।  |
| 1506. | समाजवादी समाज पार्टी               | वार्ड नं. - 13, लोहिया नगर, नगर पंचायत - सलेमपुर, जनपद -<br>देवरिया, उत्तर प्रदेश - 274001  |
| 1507. | समान अधिकार पार्टी                 | 62/271, नगला काछियान,<br>(मुस्तफा क्वार्टर कॉलोनी) आगरा कैन्ट, आगरा,<br>उत्तर प्रदेश।   |
| 1508. | समर्थ किसान पार्टी                 | प्रबंधक- मदर टेरेसा कान्वेंट स्कूल, ग्राम व पोस्ट - मनौरी,<br>तहसील - चायल, जनपद - कौशाम्बी,<br>उत्तर प्रदेश।   |

|       |                               |  |
|-------|-------------------------------|--|
| 1509. | समता क्रान्ति दल              | प्लॉट नं. 3547/3875, मौजा गौतम नगर, नगर, गार्गे छाका, टेम्पल रोड, ओल्ड उन, भुवनेश्वर-751002, ओडिसा।                                |
| 1510. | समता पार्टी                   | 220, विठ्ठलभाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001  |
| 1511. | समता समाधान पार्टी            | ई-1/150, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।   |
| 1512. | समता संघर्ष पार्टी            | 55बी, राधेपुरी एक्सटेंशन-1, दिल्ली - 110051  |
| 1513. | समाधुवा मक्कल कड़गम           | 139- टी.एच. रोड, कलादीपेट, थिरुवोतियूर, चेन्नई तमिल नाडु-600019  |
| 1514. | सम्पूर्ण क्रान्ति दल          | ग्राम - खजूरी कलॉ, पोस्ट - खजूरी खुर्द, कोराँव, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।  |
| 1515. | सम्पूर्ण समाज पार्टी          | मकान सं० 464ए ग्राम व पोस्ट. गौरवाहए थाना- सरपतहाँ, तहसील- शाहगंज, जनपद जौनपुरए उत्तर प्रदेश 223103                                |
| 1516. | समरस समाज पार्टी              | राजी जरई, मौजा - घामडौंज, तहसील - सोहना, जिला - गुड़गाँव, हरियाणा।   |
| 1517. | समृद्धि ओडिशा                 | 201, सीतलकुंज अपार्टमेंट, प्लॉट नं० एम 63, मधुसूदननगर, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।   |
| 1518. | समता दल<br>प्रगतिशील          | मकान सं० 480ए गाँव दृ लिसाडीए तहसील व जिला दृ मेरठए उत्तर प्रदेश 250002  |
| 1519. | समता समाजवादी कॉंग्रेस पार्टी | के - 56/114-7 (रानीफाटक), असनगंज, वाराणसी- 221 001, उत्तर प्रदेश   |
| 1520. | समता विकास पार्टी             | मकान हरभजन जांगडे, वार्ड न० 17, मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।   |
| 1521. | समतावादी रिपब्लिकन पार्टी     | 108, रामपुरम, पी.ए.सी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।  |
| 1522. | समुगा मक्कल काची              | नं. 3, मुदालियरगली, वलाम गाँव, काँचीपूरम जिला, तमिल नाडु - 602105  |
| 1523. | समुगासमतुवा पडाई              | 4/388, राम गार्डन, अन्ना सालई, पालावाक्कम, चैन्नई- 600041, तमिलनाडु।   |
| 1524. | सम्यक् परिवर्तन पार्टी        | ग्राम - जानकी नगर, रानीपुरवा स्कूल के पीछे, विकास खण्ड - झंझरी, निकट मण्डे नाला पुल, पोस्ट - बस स्टाप, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश |
| 1525. | सनातन समाज पार्टी             | रामानन्द नगर, बेगमपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश)।  |
| 1526. | सनातन संस्कृति रक्षा दल       | ग्राम - तराँव, पो. थाना एवं तहसील - कोराँव, जिला - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।   |
| 1527. | संघर्ष पार्टी ऑफ इंडिया       | मकान सं. 314, शान्ति निकेतन, डी० एम० रोड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203001   |
| 1528. | संघर्ष सेना                   | 11, साईराज कॉम्प्लेक्स, पंडित नाका, शाहपुर, ता. शाहपुर, जिला. ठाणे, महाराष्ट्र - 421601  |
| 1529. | संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी  | नए विग्रहपुर, मीठापुर, (बस स्टैंड) पटना-800001, बिहार  |
| 1530. | सन्मान राजकीय पक्ष            | 56, तिरुपति नगर, लोहारा, तालुक व जिला - यवतमाल महाराष्ट्र - 445002   |
| 1531. | संयुक्त दस्तकार पार्टी        | पी- 205, बस्ती ख्वाजा, मीर दर्द, बेरन रोड, नई दिल्ली- 110002   |
| 1532. | संयुक्त समाजवादी दल           | 11, जोन्स लाइन्स, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश।   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1533. | संयुक्त समाज पार्टी                    | ग्राम व पोस्ट - खारी, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश  |
| 1534. | सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी             | 1, ओलेकर हाऊस, दत्तापेडा रोड, बोरीवली पूर्व, मुम्बई - 400 066  |
| 1535. | सर्व जन सर्व समाज पार्टी               | 2/248, टी एफ, सुभाष नगर, नई दिल्ली - 110027  |
| 1536. | सर्व विकास पार्टी                      | गाँव दृ प्रतीत नगर ए एन 0 एच 0 दृ 58ए<br>पोस्ट ऑफिस के नजदीक ए रैवाला ए देहरादून ए<br>उत्तराखण्ड .249205   |
| 1537. | सर्व जन समाज पार्टी (नन्द किशोर चावला) | चावला प्रोपर्टीज, लक्ष्मी विहार, कैमरी रोड, हिसार, हरियाणा ।   |
| 1538. | सर्व जनता पार्टी                       | सेन्ट्रल पार्टी ऑफिस #17, जावाली (ग्राम), पिलंगिरी (पोस्ट), शिमोगा (तालुक), जिला- शिमोगा-577 227, कर्नाटक। |
| 1539. | सर्व समाज कल्याण पार्टी                | बिजराज भवन, ग्राम – सिंघारपुर पो. - अहमदपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।                             |
| 1540. | सर्व समाज विकास पार्टी                 | बाम्बा रोड, सैलाई, पो. ओ. - सैलाई, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।   |
| 1541. | सर्व सुरक्षा पार्टी                    | ग्राम व पोस्ट- तिलखवार, जिला - करछना, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।  |
| 1542. | सर्वहारा समाज पार्टी                   | 68-ए ब्लॉक, दारुलशफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।   |
| 1543. | सर्वजन हिताय पार्टी                    | 70/59, लीडर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211003  |
| 1544. | सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी       | कॉफेड, मीन भवन, तृतीय तल, न्यू पुनाईचक, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना, बिहार – 800023                       |
| 1545. | सर्वजन कल्याण पार्टी                   | के-73 के सामने, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना बिहार- 800020   |
| 1546. | सर्वजन समाज पार्टी (डी)                | ग्राम व पोस्ट आफिस - वाडला बांगर, तहसील-गुरुदासपुर, जिला- गुरुदासपुर,-143511 पंजाब।                        |
| 1547. | सार्वजनिक क्रान्ति पार्टी              | सूर्य लॉज, रोड वेज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।  |
| 1548. | सर्वे भवन्ति सुखिनः पार्टी             | ग्राम व पोस्ट - ममदर, तहसील व थाना - रामपुर नैकिन, जिला - सीधी, मध्य प्रदेश।                               |
| 1549. | सर्वहारा दल                            | केवला फरियट्टा, बाया – गिधौर, जिला – जमुई, (बिहार)।  |
| 1550. | सर्वजन समता पार्टी                     | 774, गीतांजलि विहार, वार्ड नंबर 28, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102                                 |
| 1551. | सर्वोच्च राष्ट्रीय विकास महापरिषद      | सी – 90, डी डी ए फ्लैट, वेस्ट गोरख पार्क (न्यू जाफराबाद) , शाहदरा, दिल्ली – 110032                         |
| 1552. | सर्वोदय भारत पार्टी                    | बी – 19, सेक्टर – ‘O’, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1553. | सर्वोदय कर्नाटक पक्ष                   | “अनिकेतना”, प्रथम तल, एस.जे.एम. समुदाय भवन, कालीदास रोड, गाँधीनगर, बेंगलोर – 560 009, (कर्नाटक) ।          |
| 1554. | सर्वोदय प्रभात पार्टी                  | बी-3/231, नंद नगरी, दिल्ली-110093  |
| 1555. | सर्वश्रेष्ठ दल                         | ग्राम – शाहदाऊदपुर उर्फ ककोरगहना, पो. एवं तहसील – सदर, जिला – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।                       |
| 1556. | सर्वजन महासभा                          | बी-36/40, कबीर नगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी – 221 005, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1557. | साथी और आपका फैसला पार्टी              | प्लॉट नं० - 2005, ग्राम - चमरहरा, महनार रोड, जिला - वैशाली, बिहार - 844507                                 |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1558. | सत्य बहु मत पार्टी                            | ए-112, प्रताप नगर, गली नं. 15,<br>मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091   |
| 1559. | सत्य क्रान्ति पार्टी                          | म0 नं0 – 176 ई, शिवपुर, सहबाजगंज, गोरखपुर,<br>उत्तर प्रदेश ।  |
| 1560. | सत्य विजय पार्टी                              | 101- सी, प्रेस हाऊस, 22, फिरोज़ गाँधी प्रेस कॉम्पलेक्स, आगरा<br>– मुम्बई रोड, इन्दौर – 452008, मध्य प्रदेश।           |
| 1561. | सत्यवादी पक्ष                                 | कमरा संख्या – 4-5, ओरायान कॉम्पलेक्स,<br>होटल राजधानी के सामने, रेलवे स्टेशन रोड,<br>औरंगाबाद – 431005, महाराष्ट्र ।  |
| 1562. | सतयुग पार्टी                                  | ग्राम-सूखा टोला, डुमरी, पोस्ट-कसया,<br>जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश ।   |
| 1563. | सवर्ण समाज पार्टी                             | ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हार्डवेयर, सिरमौर रोड,<br>रीवा-486001, (मध्य प्रदेश) ।   |
| 1564. | सेक्यूलर एलाइंस ऑफ इण्डिया                    | केशवानी कॉम्पलेक्स, प्रथम तल,<br>नवजीवन कॉर्पोरेटिव बैंक लि0, चोपडा कोर्ट ब्रांच,<br>उल्हास नगर, 421003, महाराष्ट्र । |
| 1565. | सेक्युलर डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया   | 6-2-44/3ए, जम्मूबांदा स्ट्रीट, खम्माम-507001, आन्ध्र प्रदेश<br>।  |
| 1566. | सेक्युलर नेशनल द्रविड़ पार्टी                 | काडक्कावूर बिल्डिंग, थुमपारा नगर, मुन्डाक्कल, कोल्लम शहर,<br>कोल्लम-691001, केरल ।                                    |
| 1567. | सेक्यूलर पार्टी ऑफ इंडिया                     | मं. नं. 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर,<br>जम्मू-180007, (जम्मू व कश्मीर) ।  |
| 1568. | सेक्युलर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी         | एडम स्टार कॉम्पलेक्स, कमरा नं. 132,<br>पहली मंजील, द्वितीय ब्लॉक, थोडुपुझा<br>इडुक्की जिला, केरल।                     |
| 1569. | सहजधारी सिख पार्टी                            | 622/9, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रायकोट,<br>जिला लुधियाना, पंजाब ।   |
| 1570. | सर्व भलाई पार्टी                              | मकान सं. 625, नया आजाद नगर,<br>सुल्तान विंड रोड, अमृतसर, पंजाब- 143001  |
| 1571. | सेवा साम्राज्य पार्टी                         | ढबुनाईक तांडा, आनंदवाडी, ता0 – पालम,<br>जि0 – परभणी, महाराष्ट्र – 431536  |
| 1572. | शक्ति सेना (भारत देश)                         | सिमी भवन, नेशनल हाईवे 43, कास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर<br>छत्तीसगढ़- 492015  |
| 1573. | शेतकरी विचार दल                               | 49, ममता, आनन्दनगर को-ओप. हाउसिंग,<br>गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र) ।                             |
| 1574. | शाइनिंग इंडिया पार्टी                         | वार्ड नं. - 6, पोस्ट - देशनोक, जिला - बीकानेर, राजस्थान -<br>334801   |
| 1575. | शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान) | ग्राम-किला, यस हरणाम सिंह-पो. आ. तेल्लानिमा, जिला-<br>फतेहगढ़ साहब, पंजाब-140406.                                     |
| 1576. | शिरोमणि अकाली दल (रिपब्लिक)                   | 9. हकीकत नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्ली-110009  |
| 1577. | शिरोमणि लोक दल पार्टी                         | भवन संख्या – 108, कृष्ण मंदिर के निकट,<br>दाना मंडी के सामने, जी.टी. रोड, अमृतसर, पंजाब ।                             |
| 1578. | शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलो)                   | 5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहार्ता, अमृतसर (पंजाब) ।   |
| 1579. | शिवाजी कांग्रेस पार्टी                        | मकान नं. 31, पो0 खाकुर्दी, तालुका-मालेगांव,<br>जिला-नासिक, महाराष्ट्र ।   |
| 1580. | शिवराज्य पार्टी                               | फ्लैट नं. बी/102, डेक्कन अपार्टमेन्ट, यूनियन पार्क, पाली हिल,<br>खार (पश्चिम)- 400052                                 |



|       |                                    |  |
|-------|------------------------------------|--|
| 1581. | शोषित समाज अधिकार पार्टी           | तहसील-कोल, थाना-गांधी पार्क, जनपद-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001  |
| 1582. | शोषित समाज दल                      | सेंटर ऑफिस:- दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001, (बिहार)  |
| 1583. | शोषित समाज पार्टी                  | 4/8, त्यागराज नगर (सफ्दरजंग बस टर्मिनल) नई दिल्ली- 110003.   |
| 1584. | शोषित संदेश पार्टी                 | गिर्द बड़गाँव, संद रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश ।   |
| 1585. | श्रमजीवी पार्टी                    | 1-6-48, ओल्ड अलवाल, पोस्ट बोल्लाराम, सिकन्दाबाद - 500010, आन्ध्र प्रदेश ।  |
| 1586. | श्री भारत विकास पक्ष               | 220, श्री जी काम्पलेक्स, एलिसब्रिज पोस्ट आफिस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006 (गुजरात) ।  |
| 1587. | श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी           | ग्राम-जगसड़, पोस्ट-सरवासा, जनपथ-खीरी-लखीमपुर, उत्तर प्रदेश ।   |
| 1588. | श्री जनता पार्टी                   | मान्डा सदन, द्वारिका नगर, रीवा, मध्य प्रदेश-486001   |
| 1589. | शुभा कर्नाटक                       | 'हाउस नं. 1262, कुस्तगी रोड, फस्ट क्लास, गजेन्द्रगड़, जिला-गडग- 512114, कर्नाटक ।  |
| 1590. | सिक्किम गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी | सिम्मा बिल्डिंग, डाक घर व थाना-सिंगंटम, पूर्वी सिक्किम-737134, (सिक्किम) ।   |
| 1591. | सिक्किम हिमाली राज्य परिषद पार्टी  | तुलसीकुंज बिल्डिंग, टेलिफोन एक्सचेंज के निकट, पो0आ0 – दारा गांव, 31-ए, नेशनल हाईवे, टाडोंग बाजार, टाडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम । |
| 1592. | सिक्किम जन-एकता पार्टी             | तिन्जीर, नामची, साउथ सिक्किम-737126  |
| 1593. | सिक्किम लिबरेशन पार्टी             | तिन्तेक, पूर्व सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम – 737134   |
| 1594. | सिक्किम संग्राम परिषद्             | देवराली बाजार, पो.ऑ-ताडोंग, गंगटोक, सिक्किम-737102।  |
| 1595. | शिक्षित बेरोजगार सेना              | चन्दन कुमार बहराइच, खजूरावन, मदयाहु न, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1596. | सिंह जन सेना पार्टी                | पब्लिक लाइब्रेरी के पास, वेरावल-362265, (गुजरात) ।   |
| 1597. | सरपंच समाज पार्टी                  | टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैंट-110010.   |
| 1598. | समस्त भारतीय पार्टी                | डब्ल्यू-6/5, डीएलएफ सिटी, फेज-III, गुड़गाँव-122002, हरियाणा ।  |
| 1599. | सोशल एक्शन पार्टी                  | मइलाकल हाऊस, रान्नी, पठानामटिट्टा जिला, पिन-689072, (केरल) ।   |
| 1600. | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया | 8/2, प्रथम तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, हास्पिटल रोड, भोगल, नई दिल्ली-110014   |
| 1601. | सोशल मूवमेंट पार्टी                | प्रधान कार्यालय- 539, लेन नं. 29, राजपुरा मंगोत्रियां, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर-180001   |
| 1602. | सोशलिस्ट जनता पार्टी               | एक्स. बी-1, साह विकास अपार्टमेन्ट, पटपडगंज, दिल्ली-110092  |
| 1603. | सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)           | लोहिया मजदूर भवन मकान सं0 41/557, डॉ. तुफेल अहमद मार्ग, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।   |
| 1604. | सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)           | सिद्दीकी बिल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राव, दिल्ली-110006.   |
| 1605. | सोशलिस्ट पार्टी सेकुलर             | 505/506, भिलावाँ, लखनऊ कानपुर रोड, (अजन्ता अस्पताल के सामने), आलमबाग, लखनऊ -5, उत्तर प्रदेश ।                                      |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1606. | सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी                     | स्टेट कमेटी ऑफिस, ट्यूटर्स, लेन, स्टेच्यू, त्रिवेन्द्रम-695001, (केरल)।  |
| 1607. | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 48- लेनिन सरानी (पहली मंजिल), कोलकाता-700013, पश्चिम बंगाल.  |
| 1608. | सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी                       | प्लॉट नं. 218, विनायक एनक्लेव के पीछे, ग्राम - कोलथिया, पोस्ट - आईगिनिया, जिला-खोर्दा, भुवनेश्वर, ओडिसा - 751019                                   |
| 1609. | सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी                 | पोस्ट बाक्स नं. 1089, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर-190001, जम्मू व काश्मीर।  |
| 1610. | स्टुडेंट्स युनाइटेड फार नेशन पार्टी           | डी.नं. 12-464/4, बी- ब्लॉक, टाडेपल्ली, जिला- गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश -522501  |
| 1611. | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी                   | ग्राम: मीरन गंज, पो रामपुर रसडा, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश - 221712.   |
| 1612. | सुखी समाज पार्टी                              | 344 भौंझा, गाजियाबाद - 201001 उत्तर प्रदेश।  |
| 1613. | सुन्दर समाज पार्टी                            | ग्राम व पोस्ट - नांगोई, तहसील-खारसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496 665।   |
| 1614. | सुपर नेशन पार्टी                              | 57/1, थाथावल्ली गांव, कुरुमभगेरी पोस्ट, तिरुपत्तूर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 635653   |
| 1615. | सुपर स्टार्स मक्कल कलगम                       | डी. नं0 26, एवीपी ले आउट, द्वितीय गली, गांधी नगर, तिरुपुर, तमिल नाडु- 641603   |
| 1616. | सुराज पार्टी                                  | 6-81, ऑफिस बिल्डिंग, विशाल एस्टेट्स, ग्राम - अन्नाराम, मंडल - जिन्नाराम, जिला - मेडक, आंध्र प्रदेश - 502 313                                       |
| 1617. | सुराज सेवा दल                                 | ग्राम - रामड़ी जसुवा, पो0 - फतेहपुर, तहसील - हल्द्वानी, जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड   |
| 1618. | सुरक्षा समाज पार्टी                           | मोहल्ला दृ तरकापुर, सोनकर बस्तीद्वए<br>भवन संख्या दृ 1102धए वार्ड संख्या दृ 7ए<br>पो0 व तहसील दृ सदरए जनपद दृ मीर्जापुरए<br>उत्तर प्रदेश दृ 231001 |
| 1619. | सुशासन पार्टी                                 | हाउस नं0-558, गाँव व पोस्ट-बडसी, तहसील-बवानीखेड़, जिला- भिवानी-127032, हरियाणा।  |
| 1620. | स्वाभिमान पार्टी                              | 31/666 न्यू शान्ति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़.-492001  |
| 1621. | स्वाभिमानि पक्ष                               | जयसिंगपूर जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416 101   |
| 1622. | स्वच्छ भारत पार्टी                            | साँई बाबा मंदिर भोज्यावास, भौकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।  |
| 1623. | स्वच्छ स्वस्थ स्वावलम्बीजन पार्टी             | मकान संख्या 108ए पयागीपुरए<br>निकट आईएटीआई के सामनेए सुलतानपुरए<br>उत्तर प्रदेश. 228001  |
| 1624. | स्वराज (जे)                                   | जंगल सुहास कुंवारी (महावीर छपरा).<br>पोस्ट आफिस-महावीर छपरा, पुलिस स्टेशन-बेलीपर, तह0- सदर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।                            |
| 1625. | स्वराज दल                                     | नं.-4, स्टाप, पाट्टर गुड्डा पोस्ट गाराहेराराम, पोर्ट ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह।  |
| 1626. | स्वराज जनता पार्टी                            | बी-79-बी, गली नं.7, फेज-1, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली- 110094  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1627. | स्वराज पार्टी-यस (सुभाष चन्द्र बोस)       | ग्राम व डाकघर सेमरीखान कोट, सिद्धार्थ नगर,<br>उत्तर प्रदेश-272192 ।   |
| 1628. | स्वराज पार्टी (लोकतांत्रिक)               | मकान नं0 - 17, ग्राम - मोगलपुरा,<br>ग्राम पंचायत - मोगलपुरा,<br>पो0 ऑ0 - बख्तियारपुर, जिला - पटना,<br>बिहार - 803212  |
| 1629. | स्वराज्य निर्माण सेना                     | मकान नं0 396/1, इंदिरा वसाहत, उत्तम नगर, पुणे,<br>महाराष्ट्र - 411023   |
| 1630. | स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश ।  | बी-33, सैक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ-226024,<br>उत्तर प्रदेश।   |
| 1631. | स्वराष्ट्र जन पार्टी                      | तरकापुर फुलवरिया, पोस्ट-सदर,<br>जिला-मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश ।   |
| 1632. | स्वर्ण भारत पार्टी                        | जी-249 पालम विहार, गुड़गाँव, हरियाणा - 122017   |
| 1633. | स्वर्ण युग पार्टी                         | नं. 26, "अम्मा", प्रथम मुख्य रोड, डॉलर कॉलोनी, आर.एम.वी.<br>द्वितीय स्टेज, बेंगलूर-560094, कर्नाटक                    |
| 1634. | स्वर्णिम भारत इन्कलाब                     | एल.जी. - 22, सनराईज टावर, 579, एम. जी. रोड, इन्दौर, मध्य<br>प्रदेश।   |
| 1635. | स्वतंत्र आदर्शवादी भारतीय क्रान्ति पार्टी | गांव व पोस्ट-लुटुही, यन्हा माहु ली<br>जिला-संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तरप्रदेश ।                                      |
| 1636. | स्वतंत्र भारत पक्ष                        | "राही", खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001, (महाराष्ट्र) ।  |
| 1637. | स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी               | 12-एच, ट्रैफिक कोतवाली के सामने, दरियागंज,<br>नई दिल्ली-110 002.  |
| 1638. | स्वतंत्र समाज पार्टी                      | ग्राम व पोस्ट - लेभरी, थाना-दरौली,<br>प्रखण्ड/अंचल-मैरवा, सिवान-841239, बिहार ।                                       |
| 1639. | ताई नाडु पार्टी                           | 44/15, कामराज रोड, शिवाजी नगर, बेंगलूर-560001 कर्नाटक ।   |
| 1640. | तमिल देसियक काची                          | 80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सलेम-636007,<br>(तमिलनाडु) ।   |
| 1641. | तमिल मनीला काँग्रेस (मूपनार)              | नं0-4, अशोक रोड, अलवरपेट, चेन्नई - 600018.  |
| 1642. | तमिल मानिला काची                          | नं0 - 74, जरमियाह रोड, वेपेरी, चेन्नई,<br>तमिलनाडु - 600007   |
| 1643. | तमिल मनीला कायदे मिल्लत लीग               | 579, अन्ना सलाई तेनामपेट, चेन्नई-600006, तमिलनाडु ।   |
| 1644. | तमिल मनीला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम          | द्वार नं0 296, अम्बेडकर स्ट्रीट,<br>उथुक्काडु गांव व पोस्ट,<br>वाल्जाबाद वाया कांचीपुरम तालुका व जिला,<br>तमिल नाडु । |
| 1645. | तमिलनाडु पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी    | नं0 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018,<br>(तमिलनाडु) ।  |
| 1646. | तमिलागामक्कल मुन्नेत्र कजगम               | 563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई,<br>तिरुनेलवेली, तमिलनाडु।   |
| 1647. | तमिलह स्ताभन कांग्रेस                     | 26/1. 33इ, हेनरी रोड, नीसामोनी नगर,<br>नागरकोईल, तमिल नाडु- 629001  |
| 1648. | तमिलार देशीय मुन्नई                       | 119/ए, डिपोलाईन, सी.पल्लावरम, चेन्नई,<br>तमिलनाडु -600043   |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1649. | तमिलार मक्कल काँची                           | ग्राम - दुमबलाअल्लीडेम,<br>पोस्ट ऑफिस - गेंडीगानहल्ली,<br>तालुक - पालकोड, जिला - धर्मापुरी,<br>तमिलनाडु - 635205  |
| 1650. | तमिलीना विदियाल पुलिकल इयाक्कम               | अन्नई इल्लम, पल्लावन नगर, थर्ड स्ट्रीट,<br>थेनी मेन रोड, मदुराई - 625 016, तमिलनाडु।  |
| 1651. | तमिलनाडु जननायक काँग्रेस                     | 327, लोयडस रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014, तमिलनाडु।  |
| 1652. | तमिलनाडु महात्मा गांधी मक्कल काँची           | 9-2/1 सी, तेटीविलय वीडू,<br>श्री देवीकुमारी महिला कॉलेज के पास, कुलीतुपै,<br>कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु - 629163.   |
| 1653. | तमिलनाडु मक्कल उरीमई काँची                   | 43, वी.ओ.सी. नगर, किचीपलायम, सलेम,<br>तमिलनाडु- 636015  |
| 1654. | तमिलनाडु तेलुंगु मक्कल काची                  | मकान नं० - 1/803,<br>करपगम विश्वविद्यालय के सामने,<br>पोलाची मेन रोड, कोयमबदूर,<br>तमिल नाडु - 641021   |
| 1655. | तामिज़ागा मक्कल जननायगा काच्चि               | वनाविल ईलम, संख्या 9 पूर्व सातवीं गली,<br>पुडुकोट्टई-622001 तमिलनाडु।   |
| 1656. | तमिज़ग वाङ्गवुरीमई काँची                     | 13-6-54, पिलैयार कोयल स्ट्रीट, समराजापेट्टई पोस्ट, मेचेरी<br>मेचुर तालुक, सलेम जिला, तमिल नाडु - 636451   |
| 1657. | तमिज़ार पार्टी                               | 8/43, एम.टी.सी. रोड, मट्टुर डैम, 1, सलेम जिला, चेन्नई-<br>600017, (तमिलनाडु)।   |
| 1658. | तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया         | म० नं० - 3-4-760/19,<br>नारायणगुडा फ्लाईओवर ब्रिज के बाजू में,<br>बरकतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500027  |
| 1659. | तेलंगाना कार्मिका रैतु राज्यम पार्टी         | गाँव - बैरानपल्ली, पोस्ट - सिद्धापुर,<br>मंडल - हसनपल्ली, जिला - वरंगल,<br>तेलंगाना।  |
| 1660. | तेलंगाना लेबर पार्टी                         | म. न. 8-2-293/82/बी.जे.आर./ए/1, बी.जे.आर. नगर, फिल्म<br>नगर, जुबिली हिल्स, मंडल - शेखपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश -<br>500096   |
| 1661. | तेलंगाना लोकसत्ता पार्टी                     | प्लॉट संख्या-46, फ्लैट संख्या-201, गनरौक टीचर्स कॉलोनी,<br>त्रिमुलघेरी, सिकन्द्राबाद-500015<br>आन्ध्र प्रदेश।   |
| 1662. | तेलंगाना माइनोंरिटीज ओबीसी राज्यम            | 17-3-4, रियान बाज़ार, याकूतपुरा, हैदराबाद,<br>आन्ध्र प्रदेश - 500 023   |
| 1663. | तेलंगाना प्रजा समिथि (किशोर, राव और किशन)    | मकान नं० 10-4-108, गिरमाजीपेट, वारंगल-506002 आन्ध्र<br>प्रदेश।  |
| 1664. | तेलंगाना राष्ट्र पुनःनिर्माण समिति           | म. नं० 1-3-186/ए, विद्यानगर, भोनगीर,<br>जिला - नलगोंडा, आन्ध्र प्रदेश - 508116  |
| 1665. | तेलंगाना सकलाजनुला पार्टी                    | म० नं० 4-2-99, एन एफ सी (न्यूक्लियर फ्यूल कारपोरेशन<br>कॉलोनी), बंदलागुडा जागीर (गांव) व (पोस्ट), राजेन्द्र नगर<br>मण्डल, रंगा रेड्डी,<br>जिला-500086, आन्ध्र प्रदेश। |
| 1666. | तेलंगाना स्टुडेंट्स यूनाईटेड फॉर नेशन पार्टी | मकान संख्या 3-85, बोरमपेट ग्राम, कुतुबुल्लापुर मंडल,<br>रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना-500043   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1667. | तेलंगाना इंडिपेंडेंट पार्टी                           | मकान नं. 5-2-13, तिरुमाला नगर, मौलाली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट, कपरा सर्कल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 500040           |
| 1668. | तेलुगु बहु जन पार्टी                                  | 8/160-ए, मितपालेम स्ट्रीट, गुड्डूर, एसपीएसआर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश - 524101                         |
| 1669. | तेलुगु कांग्रेस पार्टी                                | 8-2-38, अपोजिट जी.पी. ऑफिस, भवानीनगर, वेमुलावाडा, करीम नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश-505302                            |
| 1670. | थल्ली तेलंगाना पार्टी                                 | प्लॉट नं0-50, रोड नं0-5, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033, आन्ध्र प्रदेश।  |
| 1671. | थमिझग मुनेत्र कांग्रेस                                | नं0 91, पुन्नूसामी नगर, तृतीय गली, पेराम्बर, डिविजन 68, चेन्नई - 600011, तमिलनाडु।                               |
| 1672. | थन्थई पेरियार द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम्                | 23, अलगप्पन स्ट्रीट, थेन्काराय पेरियाकलम, जिला - थेनी, तमिलनाडु - 625601.  |
| 1673. | दि फ्यूचर इंडिया पार्टी                               | सं0 - 2/191 बी, नेताजी स्ट्रीट, एलीट स्कूल के सामने, एम0 ए0 नगर, रेडहिल्स, चेन्नई, तमिलनाडु - 600052             |
| 1674. | दि ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया                       | 34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ताक्रुज (पश्चिम), मुम्बई- 400054, (महाराष्ट्र)।                                  |
| 1675. | द इम्पेरियल पार्टी ऑफ इण्डिया                         | 190, श्रीनगर मेन, इन्दौर - 452001, मध्य प्रदेश।  |
| 1676. | दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया                               | कमरा नं0 7, बिल्डिंग नं0 61, प्रथम तल, द्वितीय लेन, एम. आर रोड, कामाथिपुरा, मुम्बई - 400 008 महाराष्ट्र          |
| 1677. | दि नेशनल रोडमैप पार्टी ऑफ इण्डिया                     | बी-145, न्यू अशोक नगर, दिल्ली- 110096.   |
| 1678. | दि पब्लिक वेलफेअर पार्टी                              | सोनापुर कॉम्प्लेक्स आल्हाद नगरवाड नं0 . 14ए जिला कॉम्प्लेक्स हाई स्कूल के पूर्व में गड़चिरोली महाराष्ट्र- 442605 |
| 1679. | दि रिलीजन ऑफ मैन रिवाल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया | कवितीर्थ, कवितानगर, पो0-बोंगाव, जिला-24-परगनास (उत्तर)-743235, (पश्चिम बंगाल)।                                   |
| 1680. | थर्ड व्यू पार्टी                                      | 203, हिल व्यू, प्लॉट नं0-85, लूलानगर, माऊट कार्मेल कोनवेंट स्कूल के नजदीक, पुणे-411040 (महाराष्ट्र)।             |
| 1681. | थोड़ीललार पार्टी,                                     | नं0 28 ए, मेट्टु स्ट्रीट, नेमलीचेरी, क्रोमपेट, चेन्नई-600044 तमिलनाडु।   |
| 1682. | तृणमूल तमिल नाडु कांग्रेस                             | 189/1, अमरावती स्ट्रीट (नियर फाइव रोड्स), रेड्डीयार गांव, जिला - सलेम - 636004 तमिल नाडु।                        |
| 1683. | टीपू सुल्तान नैशनल रिपब्लिक पार्टी                    | नं0 24, फर्स्ट मेन, 13वां क्रॉस, बापूजीनगर, मैसूर रोड, बेंगलूर- 560026, कर्नाटक।                                 |
| 1684. | टोला पार्टी   | मकान सं0 - 56, वाई सं0 - 14, अंधुवा पट्टी, होडल (पलवल), हरियाणा।   |
| 1685. | टोटल विकास पार्टी                                     | सी-95ए-1, आर डी सिटी, सेक्टर - 52, गुडगांव, हरियाणा - 122011   |
| 1686. | त्रिकलिंगा कांग्रेस                                   | पालांका कोलीगाडिया, पोस्ट- गुनठनी बारचाना, जिला- जयपुर, पिन- 754024  |
| 1687. | त्रिलिंगा प्रजा प्रगति पार्टी                         | बी-118, मधुरानगर, एस.आर. नगर पोस्ट, हैदराबाद-500038, आन्ध्र प्रदेश।  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1688. | तृणमूल गण परिषद्                            | आनन्द प्लाजा काम्पलेक्स, चौथी मंजिल,<br>गणेशगुरी चरीएली, गुवाहाटी- 781006, असम ।   |
| 1689. | त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी                     | 8/9, जेल आश्रम रोड, धलेश्वर, अगरतला,<br>त्रिपुरा- 799007   |
| 1690. | डुथ, इक्वलिटी, जस्टिस अप्लाएंग सर्विस दल    | बी-35 आनंदलोक,<br>श्रीजी बाबा विद्यालय के पास,<br>पोस्ट - कृष्णा नगर, गोवर्धन मार्ग मथुरा,<br>तह0 व जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004. |
| 1691. | ट्वेंटी 20 पार्टी                           | बिल्डिंग नम्बर IV/172,<br>ऐकरनाडु पंचायत, कदायिरूपू पी.ओ,<br>कुनाथुनाडु तालुक, एरनाकुलम जिला,<br>केरल- 682311                          |
| 1692. | उजाला पार्टी                                | ई-26, गली नं.9, नियर वाटर टैंक, सुभाष विहार, भजनपुरा,<br>दिल्ली- 53  |
| 1693. | उज्जवल राष्ट्र पार्टी                       | ग्राम - अहिरावाँ, पोस्ट - बेरुआ,<br>तहसील - सण्डीला, जिला - हरदोई,<br>उत्तर प्रदेश - 241304  |
| 1694. | ऊलागा मक्कल काची                            | नं. 15/24ए, मेथुकुम्मल जंक्शन,<br>मेथुकुम्मल पोस्ट, कन्याकुमारी जिला,<br>तमिलनाडु- 629172  |
| 1695. | उलजयपाली मक्कल काची                         | 74, शान्ति नगर, प्रथम गली, एस0 एस0 नगर पोस्ट, चेन्नई-<br>600062, तमिलनाडु ।  |
| 1696. | यूनियन पार्टी ऑफ इंडिया                     | टी0 ए0 — 208 ए., रविदास मार्ग,<br>तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019 ।  |
| 1697. | यूनाइटेड बोडो नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट       | मार्फत देवरी बोरा, रामभापुरी, कहिलीपाडा, गुवाहाटी, (असम) ।   |
| 1698. | यूनाइटेड सिटिजन पार्टी                      | डी — 29, कोन्डली, दिल्ली-110096.   |
| 1699. | यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया        | 29 / 116, गली नं0 —10, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली—<br>110 032.  |
| 1700. | युनाइटेड कांग्रेस पार्टी                    | 201/202, द्वितीय तल,<br>सुकुमार कॉर्नर, 127- जे.पी. रोड,<br>दाऊद बाग लेन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई,<br>महाराष्ट्र- 400058                |
| 1701. | युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सेकुलर           | 539/13 शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश  |
| 1702. | युनाइटेड फ्रंट (पार्टी)                     | लंगर टोली चौराहा, बारी पथ, पटना—800004, बिहार ।  |
| 1703. | युनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी           | पहली मंजिल, कासा डोस अलिया, डोस, गोमंत विद्या निकेतन<br>के पीछे, एक्सडे फारिया रोड,<br>माडगांव (गोवा) — 403601 ।                       |
| 1704. | यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी              | मन्जामाट्टम मूझूर, पो. ऑ. कोट्टायम, जिला (केरल)  |
| 1705. | यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक काउन्सिल        | नं0 1205, ए-स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर-560010, (कर्नाटक)<br>।   |
| 1706. | यूनाइटेड माइनोंरिटीज फ्रंट, असम             | उलूबारी गुवाहाटी— 781007, (असम)  |
| 1707. | युनाइटेड नागा डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड | वाडे नं. 7, एम्पे स्कूल के पास, चुमुकोडिमा — 797103,<br>दीमापुर—797112 (नागालैण्ड)   |
| 1708. | युनाइटेड नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी           | डी—786, जैतपुर विस्तार, पार्ट — II, बदरपुर,<br>दिल्ली-110 044.   |
| 1709. | युनाइटेड नेशनल पार्टी                       | गांव - शांतीनगर, मौजा - सन्नपुरा, पोस्ट - गौसली, तहसील -<br>बाह, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश ।   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1710. | यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट                         | सिटी रेजेंसी बिल्डिंग, आर. के. बी. रोड, डिब्रुगढ़, असम—786001  |
| 1711. | युनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल                 | जे.डी.रोड, वार्ड नं. 4, पोस्ट- कोकराझार, जिला- कोकराझार, बीटीएडी, असम-783370.  |
| 1712. | यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (सोशलिस्ट) | टेंगखुल एवेन्यू, इम्फाल, मणिपुर—795001.  |
| 1713. | यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम                 | एस. एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी—781001, असम  |
| 1714. | यूनाइटेड रिजर्वेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम     | पो0 बॉ. नं0 2, पो0 — रेहाबाड़ी, गुवाहाटी — 781008, (असम) ।   |
| 1715. | यूनाइटेड सेक्यूलर काँग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया    | 2 / 104 बी, कुर्ला जयहिंद बुद्धविकास, एस0 आर0 ए0 गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई — 400024, महाराष्ट्र ।        |
| 1716. | यूनाइटेड ट्राइबल नेशनलिस्ट्स लिबरेशन फ्रंट     | देउलगुरी हरिसिंह, दारंग—784510, (असम) ।  |
| 1717. | युनाइटेड वूमन फ्रंट                            | स्थान - परबील, पो0 ऑ0—कन्दरपुर, जिला - कटक - 754100, ओडिशा ।   |
| 1718. | उपेक्षित समाज पार्टी                           | एफ—15, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट के पास, नई दिल्ली—110011.   |
| 1719. | उरिमई मीटप्पू कड़गम                            | न्यू नं0 —10ए, कृष्णा स्ट्रीट. ईरमबुलियुर, वेस्ट तम्बारम, चेन्नई—600045, जिला—कांची, तमिलनाडु ।  |
| 1720. | उर्स संयुक्त पक्ष                              | नं0 46, पैलेस रोड, बंगलौर — 560001, कर्नाटक ।  |
| 1721. | उत्कल भारत                                     | प्लॉट नं0 296/2624, स्थान — गोविन्दा प्रसाद, ईस्ट कनाल रोड, टविन ब्रिज के सामने, पो0 ऑ0 — जी. जी. पी. कॉलोनी, भुवनेश्वर — 751010, उड़ीसा । |
| 1722. | उत्कल समाज                                     | आनन्दायन, प्लॉट नं0 567/2 कानन विहार, फेस — 2 , भुवनेश्वर — 751031 उड़ीसा ।  |
| 1723. | उत्कृष्ट पार्टी                                | प्रथम तल, राकेश कलाथ हाऊस, मेन बाजार, ग्राम- नारौत मेहरा, तहसील व जिला- पठानकोट, पंजाब   |
| 1724. | उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी                  | 552/2, राजेन्द्र नगर, सेकेंड स्ट्रीट, लखनऊ — 226004, (उत्तर प्रदेश) ।  |
| 1725. | उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट        | 38 — रोयल होटल, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1726. | उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी                      | सुशीला बर्थवाल निवास, निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बाई-पास रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001                              |
| 1727. | उत्तराखण्ड क्रान्ति दल                         | रोचिपुरा, पो0 ऑ0 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड ।   |
| 1728. | उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक )          | 85/ 12 — बी, नाश विला रोड, देहरादून — 248001, (उत्तराखण्ड)।  |
| 1729. | उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी                     | साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला — चमोली, उत्तराखण्ड ।   |
| 1730. | उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा                        | मकान नं0 1. ग्राम-नौका (दौडावाला), पोस्ट—मोथरोंवाला, विकासखण्ड—रायपुर, जिला—देहरादून, (उत्तराखण्ड) ।                                       |
| 1731. | उत्तराखण्ड संस्कृति परिषद्                     | डी— 355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली — 110092   |

|       |                                |   |
|-------|--------------------------------|---|
| 1732. | उत्तराखण्ड सेना पार्टी         | जय माता दी अपार्टमेंट, 10/1, नजदीक शंकर मंदिर, जुना कल्वा, बेला रोड, कल्वा, थाने (वेस्ट),<br>महाराष्ट्र- 400605.        |
| 1733. | उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी       | 53 — के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।   |
| 1734. | उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी    | 13, सुभाष रोड,<br>(सेन्ट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने),<br>देहरादून -248001, उत्तराखण्ड ।                          |
| 1735. | वैचारिक क्रान्ति पार्टी        | एफ-11,12,13, ईश्वरी दयाल कॉम्पलेक्स- 92,<br>गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।                                       |
| 1736. | वालामाना तमिझागम काँची         | एच-982, 23 <sup>rd</sup> स्ट्रीट, 13 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई,<br>तमिलनाडु- 600040                                     |
| 1737. | वलीमई वलरची इंडियन्स पार्टी    | 411डी, गौंदची पालायम, वादामुगम वेलूड,<br>ईरोड जिला, तमिलनाडु- 638112.   |
| 1738. | वंचितसमाज इंसाफ पार्टी         | 39, आदर्श नगर, द्वारा — डॉ0 शेख महोली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश ।  |
| 1739. | वर्तूर कांग्रेस पार्टी         | नं0 98, वर्तूर मेन रोड, बैंगलोर पूर्व, बैंगलोर—560087<br>कर्नाटक।   |
| 1740. | विचार जाग्रति कांग्रेस पक्ष    | डोर नं0 — 275, हेबालु गांव व पोस्ट,<br>देवांगिरी तालुक व जिला कर्नाटक ।   |
| 1741. | विदर्भ माझा पार्टी             | 237, पोस्ट- उबली, तहसील- कलमेश्वर,<br>जिला- नागपुर, महाराष्ट्र ।  |
| 1742. | विदर्भ विकास पार्टी            | ब्लॉक ए0 सेकंड फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाडा रोड, नागपुर<br>—13, महाराष्ट्र ।   |
| 1743. | विदर्भ राज्य पार्टी            | कामगार भवन, बैद्यनाथ चौक के पास, ग्रेट नाग रोड,<br>नागपुर—3, महाराष्ट्र ।   |
| 1744. | विधायक दल                      | एच0 आई0 जी0 — 205, सेक्टर—1, विकास नगर, लखनऊ,<br>उत्तर प्रदेश ।   |
| 1745. | विडियल वलरची पेरनि             | 37-बी, कीलतेरु, इच्चीकामालैपट्टी,<br>के. सातानूर (पोस्ट), तिरुचिरापल्ली,<br>तमिलनाडु- 620021.                           |
| 1746. | विडियलै तेडुम इंदियरगल पार्टी  | 10/2032, साउथ तिरुपाचेट्टी, पोस्ट – तिरुपाचेट्टी, तालुक –<br>तिरुपुवनम, जिला – शिवगंगै,<br>तमिलनाडु - 630610            |
| 1747. | विदुथलाई चिरुथईगल काची         | नं0 — 16, चिन्नईया गली, टी — नगर, चेन्नई —17,<br>तमिलनाडु ।   |
| 1748. | विदुथलाई मक्कल मुन्नेत्र कजगम  | नं0 —11, कबिलार स्ट्रीट, देवानामपट्टीनम,<br>कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु ।  |
| 1749. | विजय भारत मक्कल (पीपुल) पार्टी | 70, द्वितीय तल, ब्रोड बाजार स्ट्रीट, अम्बूर — 635802, जिला<br>— वेल््लोर, तमिलनाडु                                      |
| 1750. | विकास इंडिया पार्टी            | टी-192, गली नं0-2, गौतमपुरी,<br>दिल्ली- 110053  |
| 1751. | विकास इंसाफ पार्टी             | मकान नं. 23, वार्ड नं. 10, महमूदपुर परगना,<br>पी.सी.एफ. गोदाम के पास, तहसील-सदर,<br>जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश- 212601 |
| 1752. | विकास परिषद्                   | 62 — ए, शास्त्री कॉलोनी, अम्बाला कैन्ट—133001, हरियाणा ।  |



|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1753. | विकास पार्टी                            | सत्याग्रह मार्ग, दारुल सफा कम्पाउंड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)।  |
| 1754. | विकासशील समाज पार्टी                    | मकान नं० — 5ई-5/70, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।   |
| 1755. | विशाल पार्टी ऑफ इंडिया                  | गांव दृ चौहडाए डाकघर दृ डगामए<br>तहसील दृ गढ़शंकरए जिला दृ होशियारपुरए<br>पंजाब दृ 144527                         |
| 1756. | विश्व शक्ति पार्टी                      | बी -10/144, प्रदीप विहार, नथथपुरा मोड़, दिल्ली — 110084   |
| 1757. | विश्व हिन्दुस्तानी संगठन                | 3/105, आनन्दनगर, 100 फुट रिंग रोड, सटेलाईट वेजलपुर, अहमदाबाद, गुजरात।   |
| 1758. | विश्व मानव समाज कल्याण परिषद            | ग्राम व पोस्ट - चन्दापुर, वजीरगंज, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश।   |
| 1759. | विश्व विकास संघ                         | एफ—53/एफ—1, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली —110095।  |
| 1760. | विवासायी अंभु काची                      | नं० 14, राघव नाट्टन स्ट्रीट, उतिरामेरूर - 603406, (तमिलनाडु)।   |
| 1761. | वोटर्स पार्टी                           | ए, 1/75, फ्रीडम इन्क्लेव, नेब सराय, इग्नू रोड, नई दिल्ली - 110068।  |
| 1762. | वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल                | मकान नं० 385, गली नं० 12/3, वज़ीराबाद गांव, दिल्ली-110084   |
| 1763. | व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा        | गृह संख्या - 12, महाराजगंज, जमुई, जिला - जमुई, बिहार - 811307   |
| 1764. | वार वैट्रन्स पार्टी                     | ए/ 301 - 302, पर्ल अपार्टमेंट, आई. सी. कॉलोनी, बोरीवाली (पश्चिम) मुम्बई - 400103, (महाराष्ट्र)।                   |
| 1765. | वतन जनता पार्टी                         | 3/4/7 ए, मुगलपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।  |
| 1766. | वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया              | 122/1, जाकिर नगर, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025.   |
| 1767. | वेस्ट बंगाल प्रगतिशील इन्दिरा काँग्रेस  | 68 - बी, ए. पी. सी. रोड, कोलकाता - 700009 पश्चिम बंगाल।   |
| 1768. | वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी             | 42 - आनन्द पलित रोड, कोलकाता - 700014, पश्चिम बंगाल।  |
| 1769. | येकिकुथा संकशेमा राष्ट्रीय प्रजा पार्टी | डी नं० 7-1-500, एन जी ओ कॉलोनी, वाए एस आर स्ट्रीट, सिद्धावातम रोड, बडवेल - 516227, वाए एस आर जिला, आन्ध्र प्रदेश। |
| 1770. | यंग इंडिया पार्टी                       | सर्किल नं. 28, होल्डिंग सं. 128/113, आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, थाना- कदमकुआं, जिला- पटना, बिहार - 800004          |
| 1771. | यंग इंडिया टेंग्रेस पार्टी              | येलम गल्ली, तुगाव (एच), ता० भालकी, जि० बिदर, कर्नाटक।   |
| 1772. | यूथ एण्ड स्टूडेंट्स पार्टी              | आर. पी. एस्टेट्स, 4/1, पूनामाली हाई रोड, कोयमबेदू, चेन्नई - 600107.   |
| 1773. | यूथ ब्रिगेड                             | गांव काकगाची, पॉ० ऑ० भन्देरहाली, जिला - हु गली पश्चिम बंगाल।  |
| 1774. | यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट                   | मकान सं० 1-10-63/5, प्लॉट सं० 44, चिकोटी गार्डन्स, बेगमपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।                              |

|       |                           |  |
|-------|---------------------------|--|
| 1775. | यूथ फॉर इक्वैलिटी         | पी-90ए, द्वितीय तल, साऊथ एक्सटेंशन - II, नई दिल्ली-110034।   |
| 1776. | वाई. एस. आर. बहुजन पार्टी | 28/434, रामेश्वरम, प्रोद्दातुर -516360, जिला-कडपा, आन्ध्र प्रदेश।                                  |
| 1777. | युवा अनुभव पार्टी         | मकान नं० - 393-आई, हरितिमा, राजीव नगर, पश्चिमी बंशारतपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।                   |
| 1778. | युवा जागृति दल            | 3-बी, प्रयोशा फ्लैट्स, जिमखाना के पास, सैक्टर-19, गांधीनगर-382 019, गुजरात।                        |
| 1779. | युवा जनक्रान्ति पार्टी    | कस्बा-केराकत, मो० - शेखजादा द्वितीय, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश।                                  |
| 1780. | युवा जनता पार्टी          | भवन सं० - 91/1, ग्रान्ट गंज, मैन मार्केट महोबा, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210427                |
| 1781. | युवा क्रान्ति दल          | बी - 667, अमन विहार, पोस्ट ऑफिस-सुल्तानपुरी जिला-उत्तर - पश्चिम, नई दिल्ली-110 086.                |
| 1782. | युवा पार्टी               | 1-8-1-83, गैरेज नं० - 83, ग्राउंड फ्लोर, बागलिंगम्पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश                   |
| 1783. | युवा सरकार                | 161, वनमाली पार्क सोसायटी, हरीकृष्णा चौक, धर्माकुल आश्रित रोड, पुना - सिमाडा, सूरत-394211, गुजरात। |
| 1784. | युवा शक्ति संगठना         | भांगड़िया वाडा, तिलक वार्ड, चिमूर, तहसील - चिमूर जिला - चन्द्रपूर, महाराष्ट्र।                     |
| 1785. | युवा तेलंगाना पार्टी      | प्लॉट नं. 143 & 144, रॉक टॉऊन कालोनी, अलकापुरी, मन्सूराबाद, हैदराबाद-500068।                       |
| 1786. | युवा विकास पार्टी         | सेरावां, अतरामपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।   |

**सारणी-IV**  
(मुक्त प्रतीकों की सूची)

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | एअरकंडीशनर   |
| 2.  | अलमारी   |
| 3.  | ऑटो-रिक्शा<br>(आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) |
| 4.  | गुब्बारा   |
| 5.  | चूड़ियाँ   |
| 6.  | फलों से युक्त टोकरी<br>(तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)           |
| 7.  | बल्ला  |
| 8.  | बल्लेबाज   |
| 9.  | बैटरी टार्च  |
| 10. | मोतियों का हार   |
| 11. | बेल्ट  |
| 12. | बेन्च  |
| 13. | दूरबीन   |
| 14. | बिस्कुट  |

|     |   |
|-----|---|
| 15. | ब्लैक बोर्ड   |
| 16. | आदमी व पाल युक्त नौका   |
| 17. | बोतल  |
| 18. | बक्सा   |
| 19. | डबल रोटी  |
| 20. | ब्रीफकेस  |
| 21. | बुश   |
| 22. | बाल्टी  |
| 23. | केक   |
| 24. | कैल्क्यूलेटर  |
| 25. | कैमरा   |
| 26. | कैन   |
| 27. | मोमबतियाँ   |
| 28. | कार्पेट   |
| 29. | कैरम बोर्ड  |
| 30. | फूलगोभी   |
| 31. | चक्की   |
| 32. | चपाती रोलर  |
| 33. | चप्पलें   |
| 34. | शतरंज बोर्ड   |
| 35. | चिमटी   |
| 36. | कोट   |
| 37. | नारियल  |
| 38. | नारियल फार्म  |
| 39. | कलर ट्रे और बुश   |
| 40. | चारपाई<br>(केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) |
| 41. | घन  |
| 42. | कप और प्लेट   |
| 43. | कटिंग प्लायर  |
| 44. | दाव   |
| 45. | हीरा  |
| 46. | डीजल पम्प   |
| 47. | डिश एंटीना  |
| 48. | डोली  |
| 49. | द्वार घंटी  |
| 50. | बिजली का खंभा   |
| 51. | लिफाफा  |
| 52. | बाँसुरी   |
| 53. | फ्राक   |
| 54. | फ्राइंग पैन   |

|     |   |
|-----|---|
| 55. | कीप   |
| 56. | गैस सिलेण्डर  |
| 57. | गैस का चूल्हा   |
| 58. | काँच का गिलास   |
| 59. | अंगूर   |
| 60. | हरी मिर्च   |
| 61. | हारमोनियम   |
| 62. | टोप<br>(आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) |
| 63. | हेलमेट  |
| 64. | हाकी और बाल   |
| 65. | आइस क्रीम<br>(तमिल नाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)             |
| 66. | प्रेस   |
| 67. | भिंडी   |
| 68. | लैटर बाक्स  |
| 69. | मिक्सी  |
| 70. | नेल कटर   |
| 71. | गले की टाई  |
| 72. | नाशपाती<br>(तमिल नाडु व पुदुचेरी को छोड़कर)   |
| 73. | मटर   |
| 74. | कलम की निब सात किरणों के साथ  |
| 75. | पैन-स्टैंड  |
| 76. | पेन्सील शार्पनर   |
| 77. | मूसल और खरल   |
| 78. | तकिया   |
| 79. | खाने से भरी थाली  |
| 80. | प्लेट स्टैंड  |
| 81. | हान्डी  |
| 82. | प्रेसर कुकर   |
| 83. | रेजर  |
| 84. | रेफ्रिजरेटर   |
| 85. | अंगुठी  |
| 86. | सेफ्टी पिन  |
| 87. | आरी<br>(केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)                        |
| 88. | स्कूल का बस्ता  |
| 89. | कैंची   |
| 90. | सिलाई की मशीन   |
| 91. | जूता  |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 92.  | कूदने की रस्सी     |
| 93.  | स्लेट              |
| 94.  | स्टैथोस्कोप        |
| 95.  | स्टूल              |
| 96.  | झूला               |
| 97.  | सिरिन्ज            |
| 98.  | मेज                |
| 99.  | चाय छलनी           |
| 100. | टेलीफोन            |
| 101. | टेलीविजन           |
| 102. | टेनिस बल्ला व गेंद |
| 103. | टैन्ट              |
| 104. | दाँत बुश           |
| 105. | तुरही              |
| 106. | वायलिन             |
| 107. | छड़ी               |
| 108. | तरबूज              |
| 109. | सीटी               |
| 110. | खिड़की             |

आदेश से,

(वरिन्दर कुमार)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road,

New Delhi – 110001

Dated : 13<sup>th</sup> December, 2016.  
22 Agrahayana, 1938 (Saka).

## NOTIFICATION

**No.56/2016/PPS-III.**—WHEREAS, the Election Commission of India has decided to update its Notification No. 56/2015/PPS-II, dated 13<sup>th</sup> January, 2015, as amended from time to time, specifying the names of recognised National and State Parties, registered-unrecognised

parties and the list of free symbols, issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid notification No. No. 56/2015/PPS-II, dated 13<sup>th</sup> January, 2015, as amended from time to time, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (iii), the Election Commission of India hereby specifies:—

- (a) In Table I, the National Parties and the Symbols respectively reserved for them and postal address of their Headquarters;
- (b) In Table II, the State Parties, the State or States in which they are State Parties and the Symbols respectively reserved for them in such State or States and postal address of their Headquarters;
- (c) In Table III, the registered-unrecognized political parties and postal address of their Headquarters; and
- (d) In Table IV, the free symbols.

IN SO FAR AS elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir are concerned, this notification shall be deemed to have been issued in terms of Rules 5 and 10 of the Jammu and Kashmir Conduct of Elections Rules, 1965 and under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 as made applicable for elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir.

**TABLE – I**

**NATIONAL PARTIES**

| Sl. N. | Name of the Party                  | Symbol reserved  | Address   |
|--------|------------------------------------|--|---|
| 1.     | 2.                                 | 3.   | 4.  |
| 1.     | All India Trinamool Congress       | Flowers & Grass  | 30-B, Harish Chatterjee Street, Kolkata-700026 (West Bengal)                      |
| 2.     | Bahujan Samaj Party                | Elephant<br>[In all States/U.T.s except in the State of Assam, where its candidates will have to choose a symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission] | 4, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi – 110001.                                  |
| 3.     | Bharatiya Janata Party             | Lotus  | 11, Ashoka Road, New Delhi – 110001.  |
| 4.     | Communist Party of India           | Ears of Corn and Sickle  | Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi – 110002.                                      |
| 5.     | Communist Party of India (Marxist) | Hammer, Sickle and Star  | A.K.Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi - 110001. |

|    |                            |       |   |
|----|----------------------------|-------|---|
| 6. | Indian National Congress   | Hand  | 24, Akbar Road,<br>New Delhi – 110011.        |
| 7. | Nationalist Congress Party | Clock | 10, Bishambhar Das Marg,<br>New Delhi-110001. |

TABLE – II

## STATE PARTIES

| Sl. No. | Name of the State/Union Territory | Name of the State Party                  | Symbol Reserved | Address   |
|---------|-----------------------------------|--|-----------------|---|
| 1.      | 2.                                | 3.                                       | 4.              | 5.  |
| 1.      | Andhra Pradesh                    | 1. Telangana Rashtra Samithi             | Car             | House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.                        |
|         |                                   | 2. Telugu Desam                          | Bicycle         | Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh). |
|         |                                   | 3. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | Ceiling Fan     | H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad- 34, Andhra Pradesh.             |
| 2.      | Arunachal Pradesh                 | 1. People's Party of Arunachal           | Maize           | K. Ringu Complex, G-Extension Road, Naharlagun-791110 (Arunachal Pradesh).                              |
| 3.      | Assam                             | 1. All India United Democratic Front     | Lock & Key      | No.3 Friends Path, Hatigaon, Guwahati-781038 (Assam).   |
|         |                                   | 2. Asom Gana Parishad                    | Elephant        | Head Office :- Gopinath Bordoloi Road, Guwahati- 781001 (Assam).  |

| Sl. No. | Name of the State/Union Territory | Name of the State Party                       | Symbol Reserved | Address  |
|---------|-----------------------------------|---|-----------------|--|
| 1.      | 2.                                | 3.  | 4.              | 5.   |
|         |                                   | 3. Bodoland Peoples Front                     | Nangol          | Head Office Kokrajhar, B.T.C., P.O.-Kokrajhar, Distt.Kokrajhar, Assam, Pin-783370.                                       |
| 4.      | Bihar                             | 1. Janata Dal (United)                        | Arrow           | 7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.   |
|         |                                   | 2. Lok Jan Shakti Party                       | Bungalow        | 12, Janpath, New Delhi – 110 011.  |
|         |                                   | 3. Rashtriya Janata Dal                       | Hurricane Lamp  | 13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001.  |
|         |                                   | 4. Rashtriya Lok Samta Party                  | Ceiling Fan     | Mouza – Dhakkanpura, Mohalla – Mohanpur Punaichak (Near Hartali Morh), Boring Kainal Road, Patna – 1, Bihar.             |
| 5.      | Goa                               | Maharashtrawadi Gomantak                      | Lion            | Flat No.102, Block-1, Dukle Heaven, ST-Inez, Panaji – 403001   |
| 6.      | Haryana                           | Indian National Lok Dal                       | Spectacles      | 18, Janpath, New Delhi-110011.   |
| 7.      | Jammu & Kashmir                   | 1. Jammu & Kashmir National Conference        | Plough          | (i) Sher-e-Kashmir Bhavan, Residency Road, Jammu (J & K).<br><br>(ii) Nawai Subh Complex, Zero Bridge, Srinagar (J & K). |
|         |                                   | 2. Jammu & Kashmir National Panthers Party    | Bicycle         | 17, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.   |
|         |                                   | 3. Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party | Ink Pot & Pen   | 2-Emporium Lane, Residency Road, Srinagar  |



| Sl. No. | Name of the State/Union Territory | Name of the State Party                | Symbol Reserved                          | Address   |
|---------|-----------------------------------|--|--|---|
| 1.      | 2.                                | 3.                                     | 4.                                       | 5.  |
| 8.      | Jharkhand                         | 1. AJSU Party                          | Banana                                   | Poornima Tower, 2 <sup>nd</sup> Floor, Room No. 2A, Opp. Chhaganlal Jain, Dhramshala, Lake Road, Ranchi, Jharkhand- 834001. |
|         |                                   | 2. Jharkhand Mukti Morcha              | Bow & Arrow                              | Bariatu Road, Ranchi-834008 (Jharkhand).  |
|         |                                   | 3. Jharkhand Vikas Morcha (Prajantrik) | Comb                                     | Atithishala, Morhavadi, Ranchi, Jharkhand   |
|         |                                   | 4. Rashtriya Janata Dal                | Hurricane Lamp                           | 13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001.   |
| 9.      | Karnataka                         | 1. Janata Dal (Secular)                | A Lady Farmer carrying Paddy on her head | 5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003.   |
|         |                                   | 2. Karnataka Jantha Paksha             | Yet to be allotted                       | # 11, 12 <sup>th</sup> Main 17 <sup>th</sup> Cross, Malleshwaram, Bengaluru – 560055. Karnataka                             |
| 10.     | Kerala                            | 1. Janata Dal (Secular)                | A Lady Farmer carrying Paddy on her head | 5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003.   |
|         |                                   | 2. Kerala Congress (M)                 | Two Leaves                               | State Committee Office, Near Fire Station, Kottayam (Kerala).   |
|         |                                   | 3. Indian Union Muslim League          | Ladder                                   | Quaid-e-Millath Manzil, 36 Maraikayar Lebbai Street, Chennai-600001, Tamil Nadu.  |

| Sl. No. | Name of the State/Union Territory | Name of the State Party                 | Symbol Reserved | Address  |
|---------|-----------------------------------|---|-----------------|--|
| 1.      | 2.                                | 3.                                      | 4.              | 5.   |
|         |                                   | 4. Revolutionary Socialist Party        | Spade & Stoker  | 37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal).       |
| 11.     | Maharashtra                       | 1. Maharashtra Navnirman Sena           | Railway Engine  | Krishna Kunj, M.B.Raut Road, Shivaji Park, Mumbai-400028, Maharashtra.       |
|         |                                   | 2. Shiv Sena                            | Bow and Arrow   | Shivsena Bhavan, Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai-400028 (Maharashtra).          |
| 12.     | Manipur                           | 1. Naga Peoples Front                   | Cock            | Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.                                    |
|         |                                   | 2. People's Democratic Alliance         | Crown           | Ragailong, Imphal-795 001, Manipur.  |
| 13.     | Meghalaya                         | 1. United Democratic Party              | Drum            | Mawlai Nonglum, Shillong-793008 (Meghalaya).                                 |
|         |                                   | 2. Hill State People's Democratic Party | Lion            | Kench's Trace, Laban, Shillong 739004. (Meghalaya)                           |
|         |                                   | 3. National People's Party              | Book            | 2 <sup>nd</sup> Floor, MDU Building, M. G. Avenue, Imphal – 795001 (Manipur) |
| 14.     | Mizoram                           | 1. Mizo National Front                  | Star            | General Headquarters, Zarkawt, Aizawl (Mizoram).                             |
|         |                                   | 2. Mizoram People's Conference          | Electric Bulb   | General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).              |

| Sl. No. | Name of the State/Union Territory | Name of the State Party                     | Symbol Reserved    | Address  |
|---------|-----------------------------------|---|--------------------|--|
| 1.      | 2.                                | 3.  | 4.                 | 5.   |
|         |                                   | 3. Zoram Nationalist Party                  | Sun (without rays) | General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).                              |
| 15.     | Nagaland                          | Naga Peoples Front                          | Cock               | Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.  |
| 16.     | N.C.T. of Delhi                   | Aam Aadmi Party                             | Broom              | 206, Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi – 110002  |
| 17.     | Orissa                            | Biju Janata Dal                             | Conch              | Naveen Nivas, Aerodrome Gate, Bhubaneswar-751009 (Orissa).                                   |
| 18.     | Puducherry                        | 1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | Two Leaves         | 275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).                         |
|         |                                   | 2. All India N.R. Congress                  | Jug                | No. 51, J.J. Complex, 100 Feet Road, Illapillaichavadi, Nellithope Post, Puducherry –605005. |
|         |                                   | 3. Dravida Munnetra Kazhagam                | Rising Sun         | ‘Anna Arivalayam’ 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).               |
|         |                                   | 4. Pattali Makkal Katchi                    | Mango              | 63, Nattu Muthu Naiken Street, Vanniya Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).               |
| 19.     | Punjab                            | 1. Shiromani Akali Dal                      | Scales             | Building No.6, Sector-28 B, Madhya Marg, Chandigarh – 160028.                                |

| Sl. No. | Name of the State/Union Territory | Name of the State Party                     | Symbol Reserved | Address   |
|---------|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| 1.      | 2.                                | 3.  | 4.              | 5.  |
|         |                                   | 2. Aam Aadmi Party                          | Broom           | 206, Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi – 110002   |
| 20.     | Sikkim                            | 1. Sikkim Democratic Front                  | Umbrella        | Upper Deorali, Gangtok, East Sikkim.  |
|         |                                   | 2. Sikkim Krantikari Morcha                 | Table Lamp      | Convoy Ground, P.O.-Tadong, Gangtok, East Sikkim, Sikkim-737102   |
| 21.     | Tamil Nadu                        | 1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | Two leaves      | 275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).                                    |
|         |                                   | 2. Dravida Munnetra Kazhagam                | Rising Sun      | ‘Anna Arivalayam’ 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).                          |
|         |                                   | 3. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam         | Nagara          | 125/7, Jawaharlal Nehru Salai (100 Ft. Road), Koyambedu, Chennai-600 107, Tamil Nadu.                   |
| 22.     | Telangana                         | 1. All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen   | Kite            | Darussalam Board, Hyderabad (Andhra Pradesh).   |
|         |                                   | 2. Telangana Rashtra Samithi                | Car             | House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.                        |
|         |                                   | 3. Telugu Desam                             | Bicycle         | Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh). |

| Sl. No. | Name of the State/Union Territory | Name of the State Party                  | Symbol Reserved | Address   |
|---------|-----------------------------------|--|-----------------|---|
| 1.      | 2.                                | 3.                                       | 4.              | 5.  |
|         |                                   | 4. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | Ceiling Fan     | H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad- 34, Andhra Pradesh. |
| 23.     | Uttar Pradesh                     | 1. Rashtriya Lok Dal                     | Hand Pump       | 12-Tughlak Road, New Delhi-110011.  |
|         |                                   | 2. Samajwadi Party                       | Bicycle         | 18, Copernicus Lane, New Delhi.   |
| 24.     | West Bengal                       | 1. All India Forward Bloc                | Lion            | Netaji Bhavan, T-2235/2, Ashok Nagar, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005             |
|         |                                   | 2. Revolutionary Socialist Party         | Spade & Stoker  | 37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal).                      |

**TABLE – III**

**REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES**

| Sl. No. | Name of the Registered Unrecognised Political Party | Headquarters Address   |
|---------|---|--|
| 1.      | 2.  | 3.   |
| 1.      | Aadarsh Janata Sewa Party                           | Ranjit House, Didwara Raod, Salwan, District – Karnal, Haryana   |
| 2.      | Aadarsh Janhit Party                                | Hathi Wali Gali, H. No. 22, Ward No. 9, Asfabad, Firozabad, Uttar Pradesh – 283203   |
| 3.      | Aadarsh Mithila Party                               | At & P.O. Thahra Gopalpur, Via – Dighra, District – Samastipur, Bihar – 848115   |
| 4.      | Aadarshwaadi Congress Party                         | E.W.S. – 04, Kausalpuri Colony, Phase-2, Near of Water Tank, Gramsabha–Gaddopur, Vikas Khand – Masoadha, Tahsil – Sadar, District – Faizabad, Uttar Pradesh. |
| 5.      | Aadhi Aabadi Party                                  | D-1385/7, D- Block, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016  |

|     |                                 |  |
|-----|---------------------------------|--|
| 6.  | Aadijan Mukti Sena              | 'First Floor', 21, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (Madhya Pradesh)   |
| 7.  | Aadim Samaj Party               | H. No. 84, Village – Mawai Kala, Post – Naribari, Shankargarh, Allahabad, Uttar Pradesh                                  |
| 8.  | Aadivasi Sena Party             | At & Post – Rupvel (Nishal Falia), Tal. Vansada, Distt. Navsari-396 321, Gujarat.  |
| 9.  | Aajad Bharat Party (Democratic) | Village+Post – Behta Buzurg, Vikas Khand – Bhitargaon, District – Kanpur, Uttar Pradesh.                                 |
| 10. | Aam Aadmi Mukti Morcha          | 4 U.F. Babar Place, Todarmal Road, Near Bengali Market, New Delhi-110001.  |
| 11. | Aam Hindustani Party            | Village Bhagauti Dubey ka Bhiswan, Post- Chauri Chaura, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh-273201.                       |
| 12. | Aam Jan Party (Secular)         | Meena Vatika, Maa Durganagar, Village- Chaksakra, Post- Chandralya, P.S- Hajipur sadar, District- Vaishali BIHAR         |
| 13. | Aam Janata Party                | Village – Jigina, P.O. – Manjhariya Vikram, District – Basti, Uttar Pradesh.   |
| 14. | Aam Jankranti Party             | Village & Post – Bhagipur, Shikohabad Road, Near Modern English School, District – Etah, Uttar Pradesh – 207001.         |
| 15. | Aam Janshakti Party             | WZ-J-62, Uttam Nagar, Delhi - 110059.  |
| 16. | Aam Janta Party Democratic      | House No. 1403, Bela, Ward No. 4, Gram Panchayat Bela, Tehsil- Umred, District- Nagpur, Maharashtra- 441115              |
| 17. | Aam Janta Party Rashtriya       | Flat No. 804, 8th Floor, Gharouda Complex, Jagdeo Path More, Bailey Road, Patna, Bihar - 800014.                         |
| 18. | Aam Nagrik Party                | Village- Baulla Mazupur, Post- Kiratpur Nimana, Block-Gonda, Tehsil- Eglash, District- Aligarh, Uttar Pradesh.           |
| 19. | Aama Odisha Party               | 185, VIP Colony, IRC Village, Nayapalli, Bhubaneswar, Odisha – 751015  |
| 20. | Aap Aur Hum Party               | Ward No. 24, House No. 714/647, Mohalla- Basanti Gali, District- Muzaffarpur, Bihar                                      |
| 21. | Aap Sabki Apni Party            | Flat No. 302, Saptsrangi Apartment, Behind Surya Hotel, Karbala Road, Near Old Bus Stand, Bilaspur, Chhattisgarh- 495001 |
| 22. | Aapka Hamara Party              | Gram – Mahudar, Post – Rewali, District – Hazaribagh, Jharkhand – 825301.  |
| 23. | Aapki Apni Adhikar Party        | H.No.381/5, New Parvatiya Colony, Saran School Road, Mahadev Chowk, Village – Saran, NIT Faridabad, Haryana.             |

|     |                                       |  |
|-----|---------------------------------------|--|
| 24. | Aapni Sarkar Party                    | 6/Shantikunj Society, Opp- Gayatri Temple, National Highway, Kalol, District- Gandhinagar, Gujarat- 382721                                   |
| 25. | Aarakshan Virodhi Party               | DT-146, Tirkha Colony, Ballabgarh, Faridabad, Haryana – 121004.  |
| 26. | Aarthik Samanta Party                 | 189, B-Block, Gali No. 4/6, Karawal Nagar, DELHI-110094.   |
| 27. | Aasra Lokmanch Party                  | Mhada Colony, Gala No. 683, Gut No. 74, Devlai, Tq. and District – Aurangabad, Maharashtra - 431 001.  |
| 28. | Aazadi Ka Antim Aandolan Dal          | M.I.G.D. – 27, Shailendra Nagar, Raipur-492001 Chhattisgarh.   |
| 29. | Abhay Samaj Party                     | Village – Andhya, Post – Harpur Tiwari, Tehsil – SadarMaharajganj, District - Maharajganj, Uttar Pradesh.                                    |
| 30. | A-Chik National Congress (Democratic) | Dakopgre (Opp. office of Inspector & School), Tura, West Garo Hills, Meghalaya – 794 101.  |
| 31. | Action Party                          | Village and Post- Maigalganj, Main Market, Near Haricharneshwar Mahadev Mandir, Block- Pasgawan, District- Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh. |
| 32. | Adarsh Jan Shakti Party               | H.No. 10204, Araie Wali Gali, Maan Auto Stand, Durga Puri, Haibowal Kalan, Ludhiana, Punjab.   |
| 33. | Adarsh Lok Dal                        | Abu Nagar, Opposite Police Station Fatehpur City, District, Fatehpur (U.P).  |
| 34. | Adarsh Manavtawadi Party              | D. S. /919, Sector-C, Sitapur Road Yojna, Janakipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 35. | Adarsh Political Party                | 405, Kundan Bhawan Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110 033.   |
| 36. | Adarsh Rashtriya Vikas Party          | H.No. 1369, Suraksha-1, Sector –4, ELDECO, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh   |
| 37. | Adarsh Samaj Party                    | B-505, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh.   |
| 38. | Adarsh Vyawastha Party                | Sugahi Ward No.12, Village- Banjaria, Town Area Salempur, District- Deoria, Uttar Pradesh- 274509.   |
| 39. | Adarshwadi Dal                        | Jawahar Road, Khurja-203136, Distt. Bulandshahr, (U.P.).   |
| 40. | Adarshwadi Party (Loktantrik)         | H.No.81, Mohalla-Chitrasai, Near Ashok Inter College, Sadar Jaunpur, Uttar Pradesh- 222001   |
| 41. | Adhunik Bharat Party                  | 299A, Nankari IIT, Kanpur Mahanagar, Kanpur, Uttar Pradesh- 208016   |
| 42. | Adhunik Vikaswadi Party               | D-1/425, Sector-H, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 43. | Adim Bhartiya Dal                     | Beldar Bhawan, Kuri Bazaar Marg, (Balua) Kuri Bazaar, Distt. Gorakhpur – 273404, Uttar Pradesh.  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 44. | Adivasi Jan Kalyan Party                             | C/o Dakshin Gujarat Gamit Samaj Seva Trust Panwadi, Near Gujarat Traders, Vyara, District- Tapi, Gujarat-394650.                       |
| 45. | Advait Ishawasyam Congress                           | Guruaaiyanwari Ashram, Riva Naka, Meher, Distt. Satna, Madhya Pradesh.   |
| 46. | Agar Jan Party                                       | V-949, Aggarwal Wali Gali, Near Main Krishna Gali, Moujpur, Delhi-110053.  |
| 47. | Agila India Makkal Kazhagam                          | No.3, Second Cross, Vallalar Nagar, Pethuchettipet, Lawspet Post, Puducherry- 605008.  |
| 48. | Ahila India Dhayaga Makkal Munnetra Katchi           | No.1/407, Iyer Colony, Thanakkankulam, Tirunagar, Madurai, Tamil Nadu – 625006   |
| 49. | Ahinsa Dal   | Sikarwar Sadan, L-1/108, 109 Sector-B, Priyadarshini Colony, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.                                     |
| 50. | Ahinsawadi Janata Party                              | Near N.T.P.C. Main Gate, Noufari, Village – Lodhai, Shamshabad Road, Agra, District – Agra, Uttar Pradesh.                             |
| 51. | Aihra National Party                                 | 1/24, S.F., KMT Bhawan, St. # 2, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.   |
| 52. | Aim Political Party                                  | 543, Babasheb Ambedkar Society, Room No.179, CEN No. 301, Capt. Prakash Pethe Marg, Cuffe Parade, Colaba Mumbai, Maharashtra – 400005. |
| 53. | Aims Party   | Azad Chowk, Piprahi Bazaar, Post – Piprahi, Distt. – Sheohar, BIHAR-843334.  |
| 54. | Ajeya Bharat Party                                   | A-14, Mohan Estates, Mathura Road, New Delhi.  |
| 55. | Akahand Bharat Maha Sangh Sarvahara Krantikari Party | Sunfool, Kota-1, (Rajasthan).  |
| 56. | Akali Dal (1920)                                     | 296, Sector 10-A, Chandigarh-160010.   |
| 57. | Akhand Bharat National Party                         | 22-3-947/33/A/1/1, Mega City No.125, Purani Haveli, Opp. Setwin Office, Hyderabad-500002, Andhra Pradesh.                              |
| 58. | Akhand Bharat Party                                  | 47 – Rukmani Vihar, Opposite to Mandi Samiti, Bye-Pass, Mathura, Uttar Pradesh – 281001.   |
| 59. | Akhand Bharat Samaj Party                            | E-14, First Floor, DDA Mini Market, Sultan Puri, Delhi – 110086  |
| 60. | Akhand Bharatheeya Aawaaz                            | A – 54, Manek Nagar CHS Ltd., M.G. Road, Kandivali (West), Mumbai - 400067 Maharashtra.  |
| 61. | Akhand Bharatiya Kavach Party                        | B-33, Ashok Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.   |
| 62. | Akhand Desham Party                                  | 6, Dwarkapuri, Sector-8, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.  |
| 63. | Akhand Hind Party                                    | B-13, Rafiq Compound, Kishan Nagar, West Durtgati Marg, Dahisar (East), Mumbai, Maharashtra-400068.                                    |
| 64. | Akhand Jharkhand People's Front                      | At & P.O.- Gidhaur, Distt. Jamui, Bihar – 811305.  |



|     |   |  |
|-----|---|--|
| 65. | Akhand Samaj Party                                      | 2/45, Baloo Aada, Sanjay Gandhi Nagar, P.N.Road, P.S- Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001                               |
| 66. | Akhil Bharat Hindu Mahasabha                            | Mandir Marg, New Delhi-110001.   |
| 67. | Akhil Bharat Samagra Kranti Party                       | Rajendra Pandey's House, In front street of Dr. Saleem Ahmad, Katra, Basti, District Basti, Pin Code No.272001, Uttar Pradesh. |
| 68. | Akhil Bharatiya Aman Committee                          | 1/9986, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032.  |
| 69. | Akhil Bharatiya Ashok Sena                              | 117/0/117, Gita Nagar, Kanpur-208025 (Uttar Pradesh).  |
| 70. | Akhil Bharatiya Atyant Pichhara Sangharsh Morcha Party, | Transformer Lane, North Nawada, Ara, District – Bhojpur, Bihar-802301.   |
| 71. | Akhil Bharatiya Azad Lokhit Congress Party              | Khari Mohalla, Khatikon Ka Chowk, Bhiwani, Haryana.  |
| 72. | Akhil Bharatiya Azad Party                              | Phawwara Tiraha, Nai Sarak, Shajadpur, Akbarpur-224122, Janpad-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh.                                   |
| 73. | Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar)                 | Ch-1, Kumbha Nagar, Housing Board, Chittorgarh-312001 (Rajasthan).   |
| 74. | Akhil Bharatiya Dalit Utthan Party                      | A-201/2, Gali No. 1, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092.  |
| 75. | Akhil Bharatiya Desh Bhakt Morcha                       | Puranderpur G.P.O., Patna (Bihar).   |
| 76. | Akhil Bharatiya Gareeb Party                            | Village-Kurana, Post Simmavali, Distt. Ghaziabad (U.P.).   |
| 77. | Akhil Bharatiya Gorkha League                           | Mahabir Building, Ladenla Road, Darjeeling – 734101 (West Bengal).   |
| 78. | Akhil Bharatiya Hind Kranti Party                       | Krishna Bhavan, Semriya Chowk, Satna, Madhya Pradesh.  |
| 79. | Akhil Bharatiya Jan Sangh                               | J-394, Shankar Road, New Delhi –110060.  |
| 80. | Akhil Bharatiya Kisan Mazdoor Morcha                    | Shri Mahatma Gandhi Vichar Kendra, Uldan, Jhansi. (Uttar Pradesh).   |
| 81. | Akhil Bharatiya Kranti Dal                              | 7, Prem Colony, Pragati Path, Ist Floor, Kalyan Nagar, Behind Hanuman Mandir, Tonk Road, Jaipur – 302011, Rajasthan.           |
| 82. | Akhil Bharatiya Loktantra Party                         | Vill & P.O.Dattavali, Distt. Meerut (U.P.).  |
| 83. | Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal                       | 1602, D.D.A. Janta Flats, G.T.B.Enclave, Delhi-110093.   |
| 84. | Akhil Bharatiya Manav Seva Dal                          | A-74, Sector-12, Noida (U.P.).   |
| 85. | Akhil Bharatiya Manavata Paksha                         | Manavata Bhavan Pentry (Koke), Teh. Sindevahi, Distt.-Chanderpur, Maharashtra.   |
| 86. | Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)                 | Khari Kuan, Mughalpura Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.   |
| 87. | Akhil Bharatiya Rajarya Sabha                           | Adarsh Gurukul Shahi, District Pilibhit-262001 (Uttar Pradesh).  |
| 88. | Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad (Prem Ballabh Vyas)  | Shri Krishna Bodh Dham, 7, Shankracharya Marg, Civil Lines, Delhi – 110054.  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 89.  | Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit Samaj Dal | Vaishali Nagar, Sidheshwar Ves, At. & Post : Latur, Distt. Latur, 413512 (Maharashtra).                              |
| 90.  | Akhil Bharatiya Samajwadi Congress              | C-31, Hauz Khas, August Kranti Marg, New Delhi- 110016.  |
| 91.  | Akhil Bharatiya Sangharsh Dal                   | Nangli Bhattha, Fethehgarh Choorian Road, Amritsar-143001, Punjab.   |
| 92.  | Akhil Bharatiya Sena                            | Om Kala Niketan Sankalap, Co-op. Housing Society, Anandgar, Vikhorili Park Site (West), Mumbai-400079 (Maharashtra). |
| 93.  | Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi            | Akhil Bharatiya Shivsena Bhawan, Gur Mandi, Ludhiana (Punjab).   |
| 94.  | Akhil Bhartiya Janata Sahara Party              | 7/96-97, Vikas Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).   |
| 95.  | Akhil Bhartiya Aamjan Party                     | Mukam Post Ladpura, Via-Gagwana, District-Ajmer, Rajasthan-305023.   |
| 96.  | Akhil Bhartiya Aapki Apni Party                 | F-2, Ground Floor, Rajendra Park, Nangloi, New Delhi-110041  |
| 97.  | Akhil Bhartiya Gondwana Party                   | 263, Rahul Nagar, Kolar Road, Bhopal-462003, MADHYA PRADESH.   |
| 98.  | Akhil Bhartiya Janhit Party                     | Post – Sajani, Taluk – Hatkanagale, District – Kolhapur, Maharashtra – 416115.                                       |
| 99.  | Akhil Bhartiya Jharkhand Party                  | Village – Kinudeeh, Post – Karandeeh, Jamshedpur-831002, Distt. – Poorvi Singhbhoom, Jharkhand.                      |
| 100. | Akhil Bhartiya Kalyan Party                     | Mohalla- Mirdhan South, Post- Dariyabad, District- Barabanki, Uttar Pradesh- 225403                                  |
| 101. | Akhil Bhartiya Lok Dal                          | A-1, Main Road, Gokal Puri, Near Aggarwal Sweet Corner, Shani Sai Mandir, Delhi – 110094                             |
| 102. | Akhil Bhartiya Lokadhikar Party                 | Shoap No. 9, 'B' Wing, Bhuraj Enclave, Samarth Wadi, Near Mankhurd Station (E) Road, Mumbai, Maharashtra – 400088.   |
| 103. | Akhil Bhartiya Loktantrik Congress              | F-3, Park Road, Lucknow (U. P.).   |
| 104. | Akhil Bhartiya Manavadhikar Vichar Manch Party  | Ballia(Jilebiamore), Sultanganj, Deoghar Road, Post – ManjhaliMatihani, Via – Belhar, District – Banka, Bihar.       |
| 105. | Akhil Bhartiya Mithila Party                    | House of Shri Ratneshwar Jha, Village & P.O. Parjuar, Distt. Madhubani (Bihar), PIN- 847229.                         |
| 106. | Akhil Bhartiya Nagrik Sewa Sangh                | Plot No. 98, Ratan Lal Nagar, Kanpur – 208022, Uttar Pradesh.  |
| 107. | Akhil Bhartiya Naitik Party                     | Moh. Kanhaipurwa, Near Bilgram Chungi, Janpad – Hardoi, Uttar Pradesh – 241001.                                      |
| 108. | Akhil Bhartiya Sarvadharm Samaj Party           | 72, Bajrang Nagar, Road No.6, Manewada Road, Post- Parvatinagar, Nagpur, Maharashtra- 440027                         |
| 109. | Akhil Bhartiya Sawarn Party                     | 177/Q/94, LIC Society, Sharda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208024.   |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 110  | Akhil Bhartiya Sudhar Party                              | House No. 2389, 1 <sup>st</sup> Floor, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-110009.  |
| 111. | Akhil Bhartiya Swarajya Dal                              | H. No. 22/178, Manjh Khore Ramed, Tarous Chauraha, Hamirpur, Uttar Pradesh  |
| 112. | Akhil Bhartiya Vikas Congress Party                      | S-7,Vikasdeep Basement, Station Raod, Lucknow -226001, Uttar Pradesh.   |
| 113. | Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari)                     | Ward No.36, Holding No. 711/499, Railway Hunder Road, Upadhyay Lane, West Lohanipur, Kadamkuan, Patna, Bihar – 800003.  |
| 114. | Akhil Jan Vikas Dal                                      | 50A/1A, Nahar Pur, Rao S.K. Shopping Complex, Sector-7, Rohini, Delhi-85.   |
| 115. | Akhil Rashtrawadi Party                                  | Moharvati Sisoudiya Bhawan, Near Dak Bangla, Nadri Gate, Kasganj, District Eta, (Uttar Pradesh).                        |
| 116. | Akhila Bharatiya Rytha Party                             | No. 127, Shravanabelagula Town, Bangaluru Main Road, Channarayapatna Taluk, Hassan District, Karnataka-573135.          |
| 117. | Akhila India Jananayaka Makkal Katchi (Dr. Isaac)        | No. 171, Kannan Nagar, Winterpet,Arakonam, Vellore Distt., Tamil Nadu.  |
| 118. | Akhila Kerala Trinamool Party                            | House No. 161, Swathi Nagar, Edaikkode Desam, Pallichal Village, Nemom Post Office, Thiruvananthapuram, Kerala – 695020 |
| 119. | Akhilandra Mahadesam                                     | Door No. 2-9-53, Nawabpet,Medak – 502 110, Medak District, Andhra Pradesh.  |
| 120. | Akila India Vallalar Peravai                             | 43, Pillayar Koil Street, Veera Ragavapuram,Chennai – 600 077, Tamil Nadu.  |
| 121. | Al-Hind Party  | B-2/40, Safdarjung Enclave,New Delhi-110029.  |
| 122. | All India Pattali Munnetra Katchi                        | No.-90, Gandhi Road, Kallakuruchi, Viluppuram (DT), Tamil Nadu – 606202.  |
| 123. | All India Sathyajothi Party                              | Ongarakudil, 19, Extension,Thuraiyur, Trichy District, Tamil Nadu - 621010.   |
| 124. | All India Ambedkar Makkal Munnetra Kazhagam              | 104, Walja Road, 3rd Floor, Arivu Mani Arangam, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu 600002.                                 |
| 125. | All India Athithanar Makal Katchi                        | H.O. 24, Thangam Colony, Annagar Weat, Chennai-40, Tamil Nadu.  |
| 126. | All India Azaad Congress Party                           | H. No. 5-9-30/C, Madison House, Basheer Bagh, Hyderabad, Andhra Pradesh.  |
| 127. | All India Babu Jagjivan Ram Baba Saheb National Congress | C-22, Basement, Chirag Enclave, New Delhi-110048.   |
| 128. | All India Bahujan Samman Party                           | 107, Tikri Kalan, New Delhi-110041.   |
| 129. | All India BC,OBC Party                                   | H.No. 1-1-109/18,Ramdas Nagar, Kapra, ECIL, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh – 500062.                              |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 130. | All India Bharti Jug Party                                 | Near Luxmi Narain Mandir, Grain Market, Mansa – 151 505, Punjab.  |
| 131. | All India Christian Democratic and Backward People's Party | Block A-1, Flat 2, Kolkata-700054 (West Bengal).  |
| 132. | All India Dalit Welfare Congress                           | Flat No. 44, Sector B-4, Narela, Delhi.   |
| 133. | All India Democratic Party                                 | M – 77, Sector - 9A, Saket Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462024.  |
| 134. | All India Forward Bloc (Subhasist)                         | 49-M, Mothilal, 1st Street, Madurai- 625010 (Tamil Nadu).   |
| 135. | All India Hindustan Congress Party                         | 191-C, Chandranagar A, NauDukan, Kalwad Road, Govindpura, Jhotwada, Jaipur, Rajasthan – 302012.   |
| 136. | All India Jan Congress Party                               | A-1B/110A, Krishna Apartments, LIG Flats, A-1B, Paschim vihar, Delhi- 110063  |
| 137. | All India Jan Samasyanivaran Party                         | Ward no.1, At Post & Tehsil - Kalmeshwar, District - Nagpur, Maharashtra – 441501.  |
| 138. | All India Kissan Mazdoor Morcha                            | Gali Gujjar Singh Wali, Inside Bagdadi Gate, Firojpur City, Punjab-152002.  |
| 139. | All India Krantikari Congress                              | 184/1469, Moti Lal Nagar-1, Goregaon (West), Mumbai-400104, Maharashtra.  |
| 140. | All India Liberal Party                                    | Plot No. 48, Near Vinayaka Temple, Sector-6, M.V.P. Colony, Visakhapatnam-530017, Andhra Pradesh.   |
| 141. | All India Lok Raj Party                                    | Village-Meharban, Tehsil & District-Ludhiana (Punjab).  |
| 142. | All India Mahila Democratic Front (AIMDF)                  | House No.6-1-57/62, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500004, Andhra Pradesh.   |
| 143. | All India Mahila Empowerment Party                         | D.No. – 9-4-135/35/A, 9-4-135/35, Plot No.– 35, Survey Nos. 206, 207, 210, 199, 198, 195/2, Aruna Colony, Tolichowki, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500008. |
| 144. | All India Manchi Party                                     | Flat No. F-5, Sai Apartment, Katuru Road, Vuyyuru, Krishna District, Andhra Pradesh.  |
| 145. | All India Mazdoor Party (Rangreta)                         | H.No. 2453, Bagh Wala Khuh, Jandiyala Guru, District – Amritsar, Punjab.  |
| 146. | All India Minorities Front                                 | 148, South Avenue, New Delhi-110001.  |
| 147. | All India Moovendar Munnani Kazhagam                       | Lake Area, Melur Road, Madurai-625107, (Tamil Nadu).  |
| 148. | All India Mukti Dal Party                                  | Plot No. 158/1, H. No. 37-93/55/1, Road No.3, Mathuranagar, Neredmet 'X' Roads, Secunderabad-500094, Andhra Pradesh.                                      |
| 149. | All India Muttahida Qaumi Mahaz                            | # H. No. 19-2-23/M/J/5/E, 1 <sup>st</sup> Floor, Bahadurpura, Mecca Colony, Hyderabad-500053, Andhra Pradesh.   |
| 150. | All India Party for the Protection of Civil Rights         | 100 A/5, 11th Sector, 66th Street, Ponnambalam Salai, K.K. Nagar, Chennai – 600 078.  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 151. | All India Peoples' Front (Radical)               | B.P.- 18, 40- Feet Road, Patel Nagar, Mugal Sarai,Chandauli,UTTAR PRADESH.                                 |
| 152. | All India Pichhada Jan Samaj Party               | 475/15 Ka, Kadam Rasool, Daliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 153. | All India Rajiv Krantikari Congress              | B- 58, Gali No. 18, Jitar Nagar, New Delhi – 110051.   |
| 154. | All India Raksha Party                           | Post Box No. 136, Main Post Office, Karnal-132001, Haryana.  |
| 155. | All India Ravidas Samata Party                   | Bhagwat Singh Bhawan No. 10, Sector – 11, Shastrinagar, Meerut, Uttar Pradesh.                             |
| 156. | All India Samathuva Makhal Katchi                | 2, Kalyani Nagar, Kattivakkam, Chennai – 600041, Tamil Nadu.   |
| 157. | All India Shiromani Baba Jiwan Singh Mazhabi Dal | Village & P.O. Majitha, Amritsar (Punjab).   |
| 158. | All India Singaravelar Munnetra Kazhagam         | No. 2/305, Singaravelar Nagar, Neelangkarai, Chennai –600 041, Tamil Nadu.                                 |
| 159. | All India Stree Shakti                           | II-257/1, Co.Op. Society Colony, Madanapalle-517325, Chittor District, ANDHRA PRADESH.                     |
| 160. | All India Tafsili United Party                   | Village Simulpur, Post-Thakur Nagar, Distt. 24-Parganas (N) (West Bengal).                                 |
| 161. | All India Tamil Makkal Munnetra Kazhagam,        | No. 25, Veerapandi Street, Perambur, Chennai-600 039, Tamil Nadu.  |
| 162. | All India Tribes And Minorities Front            | Windrush Hill Annexe, Shimla-2 (Himachal Pradesh).   |
| 163. | All India Ulama Congress                         | No 20-24, Jafferabad Village, Gulbarga Taluka, District - Gulbarga, Karnataka                              |
| 164. | All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi       | Door No.55, First Floor, Sinavar Street, Tiruppattur-635601, Tamil Nadu, CHENNAI.                          |
| 165. | All India Women Democratic Freedom Party         | No. 36, Ganesh Nagar, Near Ambedkar Nagar Bus Stop, 200 Feet Road, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu – 600099. |
| 166. | All India Women United Party                     | Room No-1, 4th Floor, A-117, Shubrati Apartment, Okhla Village, Jamia Nagar, New Delhi - 110025.           |
| 167. | All Indians' Gandhi Congress                     | 212, Kalika Nagar, Andrahalli, Main Road, Bangaluru-560058 Karnataka.                                      |
| 168. | All J & K Kisan Majdoor Party                    | Standard Hotel, Saheed Chowk, Jammu, Jammu & Kashmir.  |
| 169. | All J & K Peoples Patriotic Front                | Jawaharnagar, House No.97, Police Station, Ragh Bagh, Srinagar (Jammu & Kashmir).                          |
| 170. | All Jammu & Kashmir Liberal Democratic Party     | M.P. Gali, Raj Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir.  |
| 171. | All Jammu and Kashmir Republican Party           | 1464, Mohalla Khwaja Bazar, Near Power Station, Anantnag, Pin Code -192101, Jammu and Kashmir.             |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 172. | All Pensioner's Party                      | No.12D, PavodumThoppu, Nellorepet, Gudiyattam, Vellore District, Tamil Nadu - 632602.  |
| 173. | All Peoples Party                          | Door No. 1-138, Pallegunta Village. & Post, Gurazala Rural Mandal, Guntur District. Andhra Pradesh.                                    |
| 174. | Alpjan Samaj Party                         | Dak Bangala Market Parishar, 1st Floor, Shop No. 28, Dak Bangla Market, P.O. – Sasaram, P.S. – Sasaram, Distt. Rohtas, Bihar – 821115. |
| 175. | Aman Samaj Party                           | V-1452, Street No. 4, Vijay Park, Delhi – 110053.  |
| 176. | Ambedkar Janatha Party                     | No. 57/1, Savimana Enterprises, Badrappa Layout, Kodigehalli, Nagashettyhalli, Main Road, Bagalore-560092, Karnataka.                  |
| 177. | Ambedkar Kranti Dal                        | Shanti Homeopathic Store, Arya Samaj Chowk, Badayun, Uttar Pradesh.  |
| 178. | Ambedkar National Congress                 | 8-3-323, Amreetpet Cross Road, Hyderabad (Andhra Pradesh).   |
| 179. | Ambedkar National Makkal Katchi            | Door No. 53, Gandhi Road, (formerly Peeran Lane), Thirupattur, Vellore District, Pin-635601, Tamil Nadu.                               |
| 180. | Ambedkar Peoples Movement                  | 39. Saravana Street, T. Nagar, Chennai-600017 (Tamil Nadu).  |
| 181. | Ambedkar Pragatisheel Republican Dal       | Dr. Lohia Colony, Shahjhapur, Pin-242001 (Uttar Pradesh).  |
| 182. | Ambedkar Samaj Party                       | 304, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019.   |
| 183. | Ambedkar Yug Party                         | 240/71 F/3, Stainly Road, Kamla Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh.   |
| 184. | Ambedkarbadi Party                         | 136/1, Diamond Harbour Road, Kolkata-700063 (West Bengal).   |
| 185. | Ambedkarist Republican Party               | Behind Rashtrabhasha Prachar Sammittee, Wardha-442001, Distt. – Wardha, Maharashtra.   |
| 186. | Ambedkarite Party of India                 | A C/o 26, Bhoslewadi, Near Awale Babu Square, Lashkaribagh, Nagpur, Maharashtra – 440017.  |
| 187. | Amra Bangalee                              | No.2, Ballav Street, Kolkata-700004 (West Bengal).   |
| 188. | Anaithindia Samudaya Munnetra Kazhagam     | No.7/13, East Meda Street, Thiruvathipuram & Post Cheyyar Taluk – 604 407, Thiruvannamalai Distt., Tamil Nadu.                         |
| 189. | Anaithindiya Samuthaya Makkal Katchi       | 80, Kuzhandhai Velan Lane, Main Road, Dindigul, Tamil Nadu – 624001.   |
| 190. | Anaithinthiya Thamizhaga Munnetra Kazhagam | 10/2, Nalvar Nagar, Kalveerampalayam, Bharathiar University (Post) Coimbatore-641048 (Tamil Nadu).                                     |



|      |   |   |
|------|---|---|
| 191. | Anaithu Makkal Munnetra Kazhagam              | D. No. 199/416 (RS No. 177-1B), 1 <sup>st</sup> Floor, Arcot Road, Vadapazhani, Chennai-600 026 Tamil Nadu.                           |
| 192. | Anaithu Makkal Puratchi Katchi                | No. 268, Amman Koil Street, Aladi Post- Viruthachalam(TK), Cuddalore(DT), Tamil Nadu - 606115   |
| 193. | Anbu Udhayam Katchi                           | 12/11, Subash Illam, Theni – Gudalur – 625518, Tamilnadu.   |
| 194. | Andhra Pradesh Rashtra Samaikya Samithi Party | H. No. 11-8-118/2(Old), 11-8-99/84(New), Narsimhapuri Colony, Ashtalakshmi HYD-VIJAYAWADA Highway, Hyderabad-500 035, Andhra Pradesh. |
| 195. | Andhra Pradesh Navodaya Praja Party           | No.3-11, Thukkuguda, Village, Maheshwaram Mandal, Mankhal Post, Ranga Reddy District (Andhra Pradesh).                                |
| 196. | Andhra Rastra Praja Samithi                   | Behind AC Stadium, Koneyapalem Gate, Dargamitta, Nellore, Andhra Pradesh-524001   |
| 197. | Angika Samaj Party                            | Aanand Ashraya , P.O- Old Jute Mill, Sharifganj, Ward No. 42, District- Katihar, BIHAR-854105.  |
| 198. | Anjaan Aadmi Party                            | House No. 391/117A/1, Radha Nagar Colony, Phulwariya Road Daraganj, Allahabad, Uttar Pradesh.   |
| 199. | Anjuman Party                                 | House No. 95, Nijaatpura, Nazarali Marg, Kotwali Road, Ujjain, Madhya Pradesh- 456006.  |
| 200. | Anna YSR Congress Party                       | D.No. 7/2-2, Chilakalabavi Street, Kadapa, Andhra Pradesh- 516001   |
| 201. | Antarrastriya Swarn Congress Party            | Village & Post – Sarakara Vishnoi, Vikas Khand – Dilari, Tehsil – Thakurdwara, District – Moradabad, Uttar Pradesh - 244401.          |
| 202. | Anti Reservation Party of India               | H.No. 1184, Sector-21-B, Chandigarh.  |
| 203. | Apna Dal                                      | 1/2A.P. Sen Road, Lucknow, (U.P.).  |
| 204. | Apna Dal (Soneylal)                           | Village - Atrampur Nawabganj, Post- Atrampur, District- Allahabad, Uttar Pradesh- 229412  |
| 205. | Apna Dal United Party                         | Village – Siswa, Post & P.S. – Kasya, District – Kushinagar, Uttar Pradesh – 274402   |
| 206. | Apna Desh Party                               | H. No. – 457, Majorganj, District - Sultanpur, Uttar Pradesh  |
| 207. | Apna Raj Front                                | House No.1096, Sector-7, Bahadurgarh, Haryana.  |
| 208. | Apni Zindgi Apna Dal                          | A-119, Ground Floor, Near- Angel Mega Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010.  |
| 209. | Appaamma Makkal Kazhakam                      | 3/59, Mariyamman Kovil Street, Ammapalayam Post, Perambalur Tk. & Dist., Tamilnadu - 621101.  |
| 210. | Arunachal Congress                            | G- Extension, Naharlagun (Arunachal Pradesh)  |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 211. | Arya Dal                                     | Central Camp Office – 775, Shanti Colony, Itawa, Uttar Pradesh.   |
| 212. | Arya Sabha                                   | 7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.  |
| 213. | Aryavart Party                               | Village & Post – Barsaina, Thana – Ahirauli, District – Kushinagar, Uttar Pradesh – 274207                        |
| 214. | Asankhya Samaj Party                         | A-490, Gali No. 22, Shyam Colony, Buddh Vihar, Phase –2, Delhi-110086.  |
| 215. | Asom Gana Parishad Pragatisheel              | H.O.-G.S. Road, Ulubari, Guwahati-781 007, Assam.   |
| 216. | Ati Picchara Party                           | Mohalla- Badi Pahadi, PO-Sohsarai, Thana-Laheri, Zila-Nalanda-803118, Bihar.                                      |
| 217. | Ati Pichhda Varg Mahasangh                   | 3/1274, Jankipuram Vistar, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 218. | Ati Pichhra Jan Dal                          | Village: Rampur Bakli, Post & Distt. Bijnor, Uttar Pradesh.   |
| 219. | Atulya Bharat Party                          | 91, Pili Kothi, Near Guruharikishan Public School, Hari Nagar, New Delhi-110064.                                  |
| 220. | Autonomous State Demand Committee            | Rongniheng, Diphu-782460, Karbi Anglong (Assam).  |
| 221. | Awami Aamjan Party                           | Baria Ghat Road, Wellesliganj, Distt. Mirzapur-231001, U.P.   |
| 222. | Awami Party                                  | E-11/77, New Colony, Hauz Khas Ext., Malviya Nagar, New Delhi-110017.   |
| 223. | Awami Samta Party                            | Building No.631/135, Pani Gaon, Sector – 9, Post – Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016                  |
| 224. | Awami Socialist Party of India               | Bukhara, Bakshiwal Road, Bijnaur – 246 701 (Uttar Pradesh).   |
| 225. | Awami Vikas Party                            | 606/607, Zayfreen Chambers, Oil Depot Road, Opp. Sewree Railway Station, Sewree (E), Mumbai, Maharashtra - 400015 |
| 226. | Azad Bharat Congress                         | 218, Second Floor, LSC Market, Block –A, Samarat Enclave Pitampura, New Delhi- 110034.                            |
| 227. | Azad Hindustan Party                         | E Block – 265, Yadav Nagar, New Delhi – 110042.   |
| 228. | Azad Janata Party                            | 208, Dhillan Complex, Akashganga Supaila, Bhilai, District - Durg, Chhattisgarh.                                  |
| 229. | Azad Mazdoor Kissan Party                    | D-4, Prem Nagar-III, Shani Bazaar Road, Kirari Nahar, Nangloi, New Delhi-110086.                                  |
| 230. | B.C. Bharatha Desam Party                    | H.No.12-13-426, Street No.1, Tarnaka, Hyderabad – 500 017, Andhra Pradesh.  |
| 231. | B.C. United Front                            | 15, Saptagiri Nagar, Rethi Bowli, Hyderabad – 500 028, Andhra Pradesh.  |
| 232. | Baaratha Samuthaya Munnetra Munnani          | 400/12, Ist Floor, Township Commercial Complex, Kamarajar Nagar Main Road, Avadi, Chennai – 600 071, Tamil Nadu.  |
| 233. | Backward Classes Democratic Party, J&K (BDP) | Peer Bagh Colony, Opp. Army Gate, Sunjwan Road, Jammu, Jammu & Kashmir – 180 004.                                 |



|      |  |  |
|------|--|--|
| 234. | Badavara Shramikara Raitara Congress Party | 1/A, Parvathi Nagar Main Road, Bellary-583103, Karnataka   |
| 235. | Bahujan Ekta Party ( R )                   | Suraj Bhawan, R.D.-136A, Dhram Pura Ex, Najafgarh, New Delhi-110043.   |
| 236. | Bahujan Kisan Dal                          | Kisan Bhawan, Rishabh Vihar, Circular Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.  |
| 237. | Bahujan Kranti Party (Marxwad-Ambekarwad)  | Village – Dhansua, Post – Central Jail, Fatehgarh, Distt. Farrukhabad, Uttar Pradesh – 209 601.  |
| 238. | Bahujan Loktantrik Party                   | G-161, J.J.Colony, Wazirpur, Delhi-110052.   |
| 239. | Bahujan Mukti Party                        | Flat No. 14, Aasha Pushp Vihar, Sahkari Aavas Samiti, Sector – 14, Kaushambi, Gazhiabad, Uttar Pradesh.  |
| 240. | Bahujan Nyay Dal                           | 596/1, New Paharpur, Police Colony, Thana- Gardnibagh, Post- Anisabad, District- Patna, Bihar- 800002  |
| 241. | Bahujan Party                              | 125/98, New L.I.G. Barraha –7, Kanpur-208027<br>Uttar Pradesh.   |
| 242. | Bahujan Rayat Party                        | 198K-E, Datt Ho, Sosa Rabade Colony, Kolhapur, Maharashtra – 416001.   |
| 243. | Bahujan Republican Socialist Party         | 4/17, B.D.D, Worli, Mumbai, Maharashtra-400018.  |
| 244. | Bahujan Republican Ekta Manch              | Hardas Nagar, Kamptee, District Nagpur, Maharashtra.   |
| 245. | Bahujan Sadan Morcha                       | Isari Bazar, Post - Isari Bazar, District – Giridih, Jharkhand-825107.   |
| 246. | Bahujan Samaj Mukti Morcha                 | H. No. B-198, Gali No. 11, Ground Floor, Bhajanpura, Delhi-110053.   |
| 247. | Bahujan Samaj Party (Ambedkar)             | H.No.- B-33/103, Mohalla Shehrian, Kapurthala, Punjab.   |
| 248. | Bahujan Samaj Party (Ambedkar-Phule)       | H.No. V-25, Sandhya Venus Apartment, S.P.Nagar, Moula-ali, Hyderabad, Andhra Pradesh   |
| 249. | Bahujan Samaj Vikas Party                  | 20-B.D.S. Commercial Market, Village – Sadarpur, Sector- 45, Post Office- Arun Vihar, Sector – 37, Noida, Janpad – Gautambudhnagar, Uttar Pradesh. |
| 250. | Bahujan Samajwadi Party (Baba Saheb)       | 53-54, 1 <sup>st</sup> Floor, Commercial Complex, South Patel Nagar, In Front of Metro Pillar No. 190, New Delhi - 110008.                         |
| 251. | Bahujan Sangharsh Dal                      | Opposite Padav Police Station, Laxmanpura, P.O. Laskar, (Gwalior), Madhya Pradesh.   |
| 252. | Bahujan Sangharsh Party (Kanshiram)        | Bahujan Bhawan, Khabbaspur, Post-Malikpur, Zila-Ropar, Punjab.   |
| 253. | Bahujan Sena                               | 124A/G-1, Sector-6, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201012   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 254. | Bahujan Shakti                          | Mines Resque Station Camps, Post – Dhansar, Distt. – Dhanbad, Jharkhand.   |
| 255. | Bahujan Suraksha Dal                    | 1/7, G.H. Board, Hardasnagar, Stadium Road, Old Bapunagar, Ahmedabad-380024, Gujarat.  |
| 256. | Bahujan Uday Manch                      | Village: Chalakpur, Post – Jameen Rasoolpur, Distt. Ajamgarh, Uttar Pradesh.   |
| 257. | Bahujan Vijay Party                     | 98/5, Post Office Gali, Village – Khutbhar, Post & Tehsil – Khajani, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273212.                |
| 258. | Bahujan Vikas Aaghadi                   | A-301, Arti Apartment, Vartak Raod, Virar (West), Taluka – Vasai, District – Thane, Maharashtra-401 303.                         |
| 259. | Bajjikanchal Vikas Party                | Sahjanand Nagar, Bhagwanpur, N.H. 28, Muzaffarpur – 842002 (Bihar).  |
| 260. | Baliraja Party                          | Plot No. 1, Commercial Complex, Prithviraj Nagar, Belatrodi road, Nagpur, Maharashtra- 440034.                                   |
| 261. | Bam Party                               | 538 K/780, Triveni Nagar-II, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 262. | Banchita Swaraj Party                   | 117, No., Dr. B.R. Ambedkar Road, P.O. and P.S.-Nalhati, District-Birbhum-737220, West Bengal.                                   |
| 263. | Barak Valley Territory Demand Committee | Swaraj Bhawan, Silehar Road, P.O. P.S. and District – Karimganj, Pin- 788711, Assam.   |
| 264. | Begumpura Sanjha Front                  | 193, New Rasila Nagar, Basti Danishmandan, Jalandhar, Punjab.  |
| 265. | Berojgar Aadmi Adhikar Party            | D-2/329, Shiv Durga Vihar, Lakkarpur, Faridabad, Haryana.  |
| 266. | Best Class Party                        | House No. 94, Mohalla Alwal, Sadar- Azamgarh, Uttar Pradesh-276001.  |
| 267. | Bhaarat Mahashakti Party                | 11A, DDA Flats, Priyadarshni Vihar, Laxmi Nagar, Delhi-110092.   |
| 268. | Bhagidari Kranti Dal                    | Village & Post – Mawai Padiyana, Block – Sarojni Nagar, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh – 226008.                     |
| 269. | Bharat Abhyudhaya Party                 | 6-6-35, Anasuya Nilayam, Kavadiyuda Main Road, Kavadiyuda, Secunderabad, Andhra Pradesh – 500380                                 |
| 270. | Bharat Bachao Party of India            | S – 528, Greater Kailash Part-1, New Delhi –110048.  |
| 271. | Bharat Bhavishya Party                  | House No. 94 S, Village -Mugeeshpur, P.S. - Taarun, Post – Chandrikaganj, District – Faizabad, Uttar Pradesh – 224141.           |
| 272. | Bharat Bhrashtachar Mitao Party         | New House No.4, Ground Floor, Begam Vihar, Block – A, Khasra No. 16/19, Village – Begampur, Near Bhairon Mandir, DELHI - 110086. |

|      |                               |   |
|------|-------------------------------|---|
| 273. | Bharat Dal                    | Bharat Sevadham Arnayak,<br>Krantideep Mourana, Nurpur,<br>Distt. Bijnaur (U.P).  |
| 274. | Bharat Desam Party            | Door No. 8-3-270/1, Nehru Nagar, 9th Line,<br>Main Road, Guntur – 522 001, Andhra<br>Pradesh.                                       |
| 275. | Bharat Deshbhakt Sangathan    | 19/460, Indira Nagar, Lucknow,<br>Uttar Pradesh – 226016  |
| 276. | Bharat Jan Aadhar Party       | Flat No. 4, Kurla Amar CHS Society,<br>Opp. Janseva Petrol Pump, Kale Marg,<br>Kamani,<br>Kurla (West), Mumbai, Maharashtra- 400070 |
| 277. | Bharat Jan Party              | 324, Kailash Nagar, Ghaziabad (Uttar Pradesh).  |
| 278. | Bharat Janta Dal (Tughlaq)    | Village- Nirmani, Post- Nirmana,<br>Block- Baghra, Thana- Shahpur,<br>Dist-Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.                            |
| 279. | Bharat Ka Kisan Majdoor Party | Village-Baliyan (Nayan Nagar), Post – Baliyan,<br>Maharajganj, Siwan, Bihar-841506.   |
| 280. | Bharat Kaumi Dal              | Village – Lathardeva Hoon,<br>Post – Jhabreda, District – Haridwar,<br>Uttarakhand.   |
| 281. | Bharat Ki Lok Jimmedar Party  | 3/250, Vishwas Khand, Gomti Nagar,<br>Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).   |
| 282. | Bharat Kranti Rakshak Party   | Barakkatpur, Post-Badagaon, Distt.-Koshambi,<br>Allahabad, Uttar Pradesh.   |
| 283. | Bharat Labour Praja Party     | 4-25, Seethanagar Colony, Somulagudem (P),<br>Palvanha (M), Khammam District-507115,<br>Andhra Pradesh.                             |
| 284. | Bharat Lok Sewak Party        | Shop No. 16, D-Block Market,<br>Pushpanjali Enclave, Pitampura,<br>New Delhi- 110034  |
| 285. | Bharat Mangalam Parishad      | Jamo Bazar, Hospital Chowk, P.O. Jamo<br>Bazar, District Siwan, Bihar.  |
| 286. | Bharat Mata Party             | Village & Post – Katka, District – Mirzapur,<br>Uttar Pradesh   |
| 287. | Bharat Nav Nirman Party       | A – 2, Nitesh Villa, Vivekanand Colony,<br>Nayakhera, Ambabari, Jaipur-<br>23, RAJASTHAN.   |
| 288. | Bharat Navnirman Voter Sena   | 1255-F, Basantvihar, Kanpur-208021<br>Uttar Pradesh.  |
| 289. | Bharat Nirman Party           | High School Road, P.O.-Triveniganj,<br>Distt.-Supaul-852139, Bihar.   |
| 290. | Bharat Nyay Dal               | N. H. – 58, Delhi By-Pass Road, Gopal Vihar,<br>H. No. 48, Meerut, Uttar Pradesh.   |
| 291. | Bharat Parivar Party          | Bharat Hridya Aashram, Mohalla- Karaccha,<br>Jawalapur, Haridwar, Uttarakhand- 249407.  |
| 292. | Bharat Peoples Sena           | Plot No. 6-4-787, Phule Nagar,<br>Somnathpur Road, Taluk- Udgir, District-<br>Latur<br>Maharashtra.                                 |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 293. | Bharat Prabhat Party  | 105, 1 <sup>st</sup> Floor, A.G.C.R. Enclave,<br>Near Karkardooma Court, Delhi- 110092  |
| 294. | Bharat Punarnirman Dal                                      | K.J. – 116, Kavi Nagar, Ghaziabad,<br>Uttar Pradesh.  |
| 295. | Bharat Rakshak Party (Democratic)                           | Village Post Pakka Saharna,<br>Tehsil Zila Hanumangarh, Rajasthan.  |
| 296. | Bharat Uday Mission   | C-3/4, Suman Nagar, V.N. Purav Marg,<br>Chembur, Mumbai – 400071.   |
| 297. | Bharat Utthan Party   | Village- Harni Ausari, Pragana-Hissampur,<br>Post- Arai Umri, Tehsil- Kaiserganj,<br>District-Bahraich, Uttar Pradesh - 271904.   |
| 298. | Bharat Vikas Morcha   | Sekhpura Road, Madhupur, Distt. Devghar,<br>Jharkhand.  |
| 299. | Bharat Vikas Party (Secular)                                | Kh. No.21/25, Near HP Petrol Pump,<br>Upkar Properties, A-Block, Himgiri Enclave,<br>Burari, Delhi-110084.  |
| 300. | Bharat Vishal Party   | A/6A, DDA Flat, Munirka,<br>New Delhi – 110067.   |
| 301. | Bharateeya Bahujana Praja Rajyam                            | D. No. 956, Arundelpet, 10th Lane,<br>Guntur-522 002 Andhra Pradesh.  |
| 302. | Bharateeya Manavadhikar Party                               | 21, Rajendra Mullick Street,<br>Kolkata – 700007, West Bengal.  |
| 303. | Bharath Dharma Jana Sena                                    | Building No.V/489,<br>Mararikkulam North Panchayat,<br>East of Kanichikulangara Temple,<br>Mararikkulam North Village,<br>Cherthala Taluk, Alappuzha (Dist),<br>Kerala - 688544                                     |
| 304. | Bharatheeya Chaithanya Party                                | D. No. 9-186/7, High School Road,<br>Venkat Nagar, Kadiyam, East Godavari<br>District,<br>Andhra Pradesh – 533103   |
| 305. | Bharatheeya Sadharma<br>Samsthapana Party                   | House No.3/17, Dorasani Palli,<br>Proddatur Mandal, Kadapa District,<br>Andhra Pradesh.   |
| 306. | Bharathiya Dravida Makkal Katchi                            | 2036, 15th Main Road, Anna Nagar West,<br>Chennai – 600 040, Tamil Nadu.  |
| 307. | Bharathiya Jana Shabdth                                     | 331(311), Ward No. 1, Kallara House,<br>Mundella (P.O.), Vellanadu,<br>Thiruvananthapuram – 695 543, Kerala.  |
| 308. | Bharathiya Nethaji Party                                    | 3857, 4th Cross, Gayathri Nagar,<br>Bangalore-560021 (Karnataka).   |
| 309. | Bharathiya Praja Shakti                                     | No. 931,932, Karabala Maidana,Railway<br>Station Cross Road,Channapattna Town &<br>Taluk,Ramanagara District, Pin-571501<br>KARNATAKA.  |
| 310. | Bharathiya Yuvatha, Samatha,<br>Rashtriyatha Congress Party | Flat No. G1, Ground Floor,ARK Residency<br>Plot No. 304,Survey No. 153,154,163 and 143,<br>Boduppall, Village & Gram Panchayat –<br>Ghatkesar (Mandal), Rangareddy (District),<br>Hyderabad-500038, Andhra Pradesh. |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 311. | Bharatiya Aam Awam Party                      | Saristabad, Indrapuri Path, Gali No. E, Gardanibagh, Patna, Bihar- 800001   |
| 312. | Bharatiya Ambedkar Party                      | Main Bazar, Krishna Nagar, Jaura Fatak, Amritsar (Punjab).  |
| 313. | Bharatiya Asht Jan Party                      | 151, C Sector, Second Floor, Room No. 203, Inder Puri, Bhopal –462022 (M.P.).   |
| 314. | Bharatiya Awaj Party                          | Milan Committee Sewa Sangh, Santosh Nagar, Behram Bagh, Jogeshwari West, Mumbai-440102, Maharashtra.                          |
| 315. | Bharatiya Awam Taaqat Dal                     | Village- Sujanidih (Rampur), Post- Sohansa (Mungara Badshapur), Tehsil- Machhlisahar, Distirct- Jaunpur, Uttar Pradesh-222204 |
| 316. | Bharatiya Backward Party                      | 71, Surya Apartments, Fraser Road, Patna –800001 (Bihar).   |
| 317. | Bharatiya Bahujan Congress                    | 117, Khodiyar Krupa Soc., Nr. Kantareshwar Mahadev Temple, Katargam, Surat, Gujarat   |
| 318. | Bharatiya Bahujan Parivartan Party            | Khasra No. 139/2, Vill. – Lakhwaya Rasoolpur, Rohta Road, Meerut, Uttar Pradesh.  |
| 319. | Bharatiya Bahujan Party                       | 156, Bharauli, Shahganj, Jaunpur, Uttar Pradesh.  |
| 320. | Bharatiya Bahujan Samta Party                 | Village & Post- Surjannagar, District- Moradabad, Uttar Pradesh-244602.   |
| 321. | Bharatiya Berozgar Mazdoor Kisan Dal          | Bansal Gaon, P.O.Dheghat, Patti Malla, Chackaut, Distt- Almora (Uttaranchal).   |
| 322. | Bharatiya Bouddhik Vichar Party               | Village – Ballanagla Patti, Post – Shahpur Kheri, Tehsil – Dhampur, Distt. – Bijnour, (Uttar Pradesh).                        |
| 323. | Bharatiya Chhatrasangh Bharat                 | Premghan Marg, Badli Ghat, Mirzapur, Uttar Pradesh-231 001.   |
| 324. | Bharatiya Congress (M)                        | 16, Batra Colony, M.T.X. (Sonepat), Harayana.   |
| 325. | Bharatiya Congress Paksha                     | Kasba Peth, In Front of Linbuwali Sawari, Post-Barshi, District-Solapur, MAHARASHTRA.   |
| 326. | Bharatiya Democratic Socialist Alliance Party | H.No.198, Mohalla- Katchhpura (Shakya Nagar), Ward No.8, P.O- Raja ka Rampur, District- Etah, Uttar Pradesh.                  |
| 327. | Bharatiya Development Party                   | Building No. 358, Athira, PO - Kura, Kottarakara, Kollam, Kerala – 691557   |
| 328. | Bharatiya Dr. B.R. Ambedkar Janata Party      | No.18, 12th Cross, MTS, Layout, Kengeri Upanagara, Bangluru-560060, KARNATAKA.  |
| 329. | Bharatiya Eklavya Party                       | Village and Post Belhar Kalan, Tehsil Mahdawal, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.                                     |
| 330. | Bharatiya Ekta Dal                            | 189, Basant Apartment, Vasant Vihar, New Delhi – 57.  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 331. | Bharatiya Gana Parishad                       | House No. 3, Bye Lane No.4, Ward No. 16, Bishnu Rabha Path, Lalganesh (Odalbakhra), P.S- Dispur, District- Kamrup Metro, Guwahati, Assam -781034 |
| 332. | Bharatiya Gaon Taj Dal                        | Village-Kuka, P.O. – Maqsudpur, District Kapurthala, (Punjab).   |
| 333. | Bharatiya Grameen Dal                         | Aryavart Prakashan Mandir, Bus Stop Gosaiganj, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 334. | Bharatiya Inqalab Party                       | Village – Rana Pratap Nagar, Islampur, Post & P.S. – Islampur, Distt. – Nalanda, Bihar.(Pin – 801303)  |
| 335. | Bharatiya Jagriti Dal                         | RZ-21D, Gali No.4, Syndicate Enclave, Near Dabri Mode, Delhi - 110045.   |
| 336. | Bharatiya Jai Bheem Party                     | 1304, Bhantlaiya, Sindhi Camp, Distt. Jabalpur, Madhya Pradesh.  |
| 337. | Bharatiya Jan Berojgar Chhatra Dal            | Near R.T.O. Office, Hussainganj, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh.   |
| 338. | Bharatiya Jan Jagriti Party                   | Brijdham Ashram, Ranhera, Tehsil-Chhata, District-Mathura (Uttar Pradesh).   |
| 339. | Bharatiya Jan Kisan Party                     | 1080C, Babaji Bag, Tilak Road, Balua Ghat, Allahabad, Uttar Pradesh  |
| 340. | Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic)         | F-23, Sainik Society, Shakti Nagar, Jabalpur, Madhya Pradesh.  |
| 341. | Bharatiya Jan Sabha                           | C/o Raja Ram Yadav, Raghuvir Nagar, New Colony, Devaria (U.P).   |
| 342. | Bharatiya Jan Samajwadi Party                 | A-62, J. J. Colongy, Khanpur, New Delhi-110062.  |
| 343. | Bharatiya Jankranti Party                     | 12/17, Chakkhuwala, Dehradun, Uttarakhand.   |
| 344. | Bharatiya Janvadi Party                       | A-559, Shastri Park Extn., Buland Masjid, Delhi-110053.  |
| 345. | Bharatiya Karyasth Sena                       | 121, Vishnu Colony, Shahganj, Agra-282010. Uttar Pradesh.  |
| 346. | Bharatiya Kisan Parivartan Party              | Nagla Dakhla, Kotla Road, Ferozabad-283203, District Ferozabad, Uttar Pradesh.   |
| 347. | Bharatiya Kisan Sena Loktantrik               | House No. 392/1, Chak Raghunath, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh.  |
| 348. | Bharatiya Krantikari Dal                      | A-5, Priyadarshini Vihar, NEW DELHI - 110092.  |
| 349. | Bharatiya Lok Kalyan Dal                      | Area/Post/Tahsil Bikapur, Distt. Faizabad, (Uttar Pradesh).  |
| 350. | Bharatiya Loktantrik Party (Gandhi-Lohiawadi) | Satyawati Niwas, Ram Das Path, Meethapur B- Area, Patna - 800001, Bihar.   |
| 351. | Bharatiya Manavata Vikas Party                | 133/4, Qutub Enclave, Phase-II, New Delhi-110016.  |
| 352. | Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh       | 410, Arcadia Building, Sir J.J.Road, Opp. J.J.Hospital Mumbai-400008 (Maharashtra).  |
| 353. | Bharatiya Momin Front                         | 174, Anand Puri, West Boring Canal Road, Patna-800001 (Bihar).   |



|      |   |   |
|------|---|---|
| 354. | Bharatiya Mool Niwasi Samaj Party                   | 77/129, Bhagat Singh Colony,<br>Tarla Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand.   |
| 355. | Bharatiya Muhabbat Party (All India)                | H.No.18184, Chandsar Basti, Bhatinda-151001 (Punjab).   |
| 356. | Bharatiya Nagrik Party                              | Village Kanasi, P.O. Kanasi, Distt. Farukhabad-207501(Uttar Pradesh).   |
| 357. | Bharatiya National Janata Dal                       | 701 A, 7th Floor, Meghmalhar Complex,<br>Sector No.11, Gandhinagar, Gujarat – 382010.   |
| 358. | Bharatiya Nav Kranti Party                          | Village- Makhmailpur, Post-Saraikhwaja,<br>Distt.- Jaunpur, Uttar Pradesh.  |
| 359. | Bharatiya Navyuvak Chetna Party                     | 429/263, Near Amber Marriage Hall,<br>Mojjamnagar, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 360. | Bharatiya Navyuvak Party                            | H. No. 572, Bye Saheb Ki Pared, Near of Priya<br>Bread Factory, Laxmiganj, Lashkar, Gwalior,<br>Madhya Pradesh.                             |
| 361. | Bharatiya New Democratic Party                      | Village and Post- Dara, P.S- Joynagar,<br>District- South 24 Parganas,<br>West Bengal- 743337   |
| 362. | Bharatiya Parivartan Congress                       | 126, Adivasi Colony, Near Rashtra Sant<br>Tukdoji Maharaj, Cancer Hospital,<br>Manewada Road, Nagpur-440027,<br>Maharashtra.                |
| 363. | Bharatiya Parivartan Party                          | 70-A, DDA Flat, Pandav Nagar,<br>Near Metro Station Shadipur,<br>New Delhi – 110008.  |
| 364. | Bharatiya Peoples Party                             | House No. T-9, 595/16/11, Shivshakti Nagar,<br>Syed Chincholi Road, Filter Bed, Gulbarga,<br>Karnataka-5851004.                             |
| 365. | Bharatiya Pichhra Dal                               | Village – Khujri, Post – Sagar,<br>Via – Chakarmatha Camp, Distt. Bilaspur,<br>Chhattisgarh – 495 220.                                      |
| 366. | Bharatiya Praja Paksha                              | No.374/A, I-Floor, I-Block, I-Cross,<br>Ravindranath Tagoor Nagar (R.T.Nagar),<br>Bangalore-560032 (Karnataka).                             |
| 367. | Bharatiya Prajashakti Party                         | 29/3, Panchkuiyan, Jhanshi, Uttar Pradesh.  |
| 368. | Bharatiya Prajatantrik Shudh Gandhiwadi Krishak Dal | Misda, Distt. Janjgeer, Vikas Khand Navgarh,<br>Chhattisgadhandchal, Chhattisgarh.  |
| 369. | Bharatiya Purvanchal Party                          | E-68, Premchand Colony, Pandeypur (1),<br>Varanasi, UTTAR PRADESH.  |
| 370. | Bharatiya Rashtravadi Paksha                        | 12, Juna Power House, Behind Rotary Hall,<br>Jail Road, Mehsana (Gujarat) Pin-384002.   |
| 371. | Bharatiya Rashtravadi Samanta Party                 | F-402, Road No. 9-F,<br>Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302013.   |
| 372. | Bharatiya Rashtriya Bahujan Samaj Vikas Party       | G-96, Shantipuram, Phaphamau, Allahabad,<br>Uttar Pradesh   |
| 373. | Bharatiya Rashtriya Janhit Party                    | C-2968, Sapna Colony, Lucknow-226017<br>(Uttar Pradesh).  |
| 374. | Bharatiya Rashtriya Mahila Sarvodaya Congress       | No.2, 1 <sup>st</sup> Floor, Vayuputra Arcade,<br>Ward No.15, Near NTTF, P.B. Road,<br>Dharawad, District – Dharawad,<br>Karnataka – 580001 |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 375. | Bharatiya Rashtriya Mazdoor Dal             | Naya Sarafa, Gwalior-474001 (Madhya Pradesh).  |
| 376. | Bharatiya Rashtriya Morcha                  | D-6, Pratap Bagh Colony, New Hanuman Mandir, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 377. | Bharatiya Rashtriya Swadeshi Congress Paksh | 308, Ramnagari, 2/C, 3rd Floor, Alandi Road, Bhosry, Pune-411039, Maharashtra.   |
| 378. | Bharatiya Ravidas Party                     | Moh.Kundigarh, Post-Sadar,Ajamgarh, Uttar Pradesh.   |
| 379. | Bharatiya Republican Paksha                 | Dr.Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar,Mumbai-400014 (Maharashtra).  |
| 380. | Bharatiya Sadbhawana Samaj Party            | Khan Manjil Khaparganj, Bilaspur, Chhattisgarh.  |
| 381. | Bharatiya Samaj Dal                         | 85, Chowk Makandu Ganj, Pratapgarh, Uttar Pradesh.   |
| 382. | Bharatiya Samaj Kalyan Party Bharat         | Ravender Electronics, Purani Chungi, Agra Road, Hathras, Distt. Aligarh (U.P).   |
| 383. | Bharatiya Sampuran Krantikari Party         | A-1/150, Aman Vihar, Nangloi, New Delhi – 110041.  |
| 384. | Bharatiya Samrat Subhash Sena               | Village – Ajitpur, Post – Kankhal, Laksar Road, Haridwar, Uttarakhand – 249408.  |
| 385. | Bharatiya Samta Samaj Party                 | Gram - Dehramau, Post – Gosainganj, Zila – Lucknow – 227 125 (U.P.)  |
| 386. | Bharatiya Sangram Parishad                  | 48, Bank Street, Khatau Building, Ground Floor, S.B.S Road, Opposite Old Custom House, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400001                                  |
| 387. | Bharatiya Sant Mat Party                    | Bahu Jholri Road,V.P.O. – Nahar, Tehsil – Kosli,Distt. – Rewari, HARYANA.  |
| 388. | Bharatiya Sarvkalayan Kranti Dal            | 2/643/C, Rambagh Colony, Ramghat Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).   |
| 389. | Bharatiya Sarvodaya Kranti Party            | 113, Malikpur, G.T.B. Nagar, Delhi-110009.   |
| 390. | Bharatiya Satya Vijayee Party               | C- 120, Begam Vihar Extension,Begampur, Delhi-110086.  |
| 391. | Bharatiya Satyarth Sangathan                | Bharat Nagar, Prem Vidyalaya, Railway Crossing, Opposite Radhapuram Housing Colony, Near Birla Mandiar, Varindavan Road, G.T.V – 3, Mathura-281003, (U.P.) |
| 392. | Bharatiya Shakti Sena                       | Shakti Sena Bhawan, Bariar No. 6, Audyaugik Kshetra Bahadarabad, Haridwar – 249402, Uttarakhand.   |
| 393. | Bharatiya Shramik Dal                       | L-238, Vikash Pradhikaran Colony, Indira Nagar, Rai Bareilly (U.P.).   |
| 394. | Bharatiya Subhash Sena                      | Vill. & Post Office: Bankasiya Shivratn Singh, Janpad-Gonda -271302. (U.P.).   |



|      |                                   |   |
|------|-----------------------------------|---|
| 395. | Bharatiya Suraaj Dal              | Sinha Bhawan, Exhibition Road,<br>Behind Reserve Bank of India, Patna,<br>Bihar – 800001  |
| 396. | Bharatiya Swajivi Nagrik Party    | Village- Kukuriha, Post- Rudrapur Korwa,<br>Thana- Rudrapur, Tehsil- Rudrapur,<br>District- Deoria, Uttar Pradesh.                                  |
| 397. | Bharatiya Swatantra Party         | Village- Naugai, P.O. – Raghunathnagar,<br>Teh. –Vadruhnagar, Distt:- Sarguja,<br>Chhattisgarh  |
| 398. | Bharatiya Uttam Sena              | Village & Post – Kheddhain,<br>Thana – Aander, Distt. – Siwan, Bihar.   |
| 399. | Bharatiya Yuva Party (Democratic) | Ward No. 54, Circle No. 71,<br>Biscoman Golambar,<br>Near B.S.N.L Telephone Exchange,<br>Post Office- Gulzarbagh, Kumhrar, Patna,<br>Bihar- 800007. |
| 400. | Bharatiya Yuva Shakti             | Haveliyo ka Vaas, Gram Panchayat – Kosewal,<br>Tehsil – Sumerpur, District – Pali, Rajasthan.   |
| 401. | Bharatrashttra Democratic Party   | Shop No. 22, CSC-II, DDA Market,<br>I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092.   |
| 402. | Bharipa Bahujan Mahasangha        | Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road,<br>Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).  |
| 403. | Bharteey Samajvadi Morcha         | 3/1108, Dehradun ChowkSaharanpur-247 001<br>(Uttar Pradesh).  |
| 404. | Bharti Jan Suraksha Party         | Head Office, Dholwha Road,<br>Near Heera Colony, Town & P.O. Haryana,<br>Distt. Hoshiarpur, Punjab -144208  |
| 405. | Bharti Lok Lehar Party            | 136, Ajit Nagar, Amritsar (Punjab).   |
| 406. | Bharti Samudaya Party             | 7C-10, Vrindavan Yojana, Raibareli Road,<br>P.S. – P.G.I., Tehsil - Lucknow,<br>District – Lucknow, Uttar Pradesh – 226002.                         |
| 407. | Bhartiya Aam Aadmi Parivar        | 1000 Jay Ambey Apartment,<br>DDA LIG Flates, New Kondali,<br>Mayur Vihar Phase -3, Delhi-110096   |
| 408. | Bhartiya Aam Janta Vikas Party    | Village and Post- Dulma,<br>Thana- Madhuban Motihari,<br>District- East Champarn, Bihar   |
| 409. | Bhartiya Ahinsa Party             | 728, Nirala Nagar, Ayodhyapuri, Raebareli,<br>Uttar Pradesh.  |
| 410. | Bhartiya Antyodaya Party          | 8-Preet Vihar, Phase-II, Indira Gandhi Marg,<br>Niranjanpur- Dehradun, Uttarakhand-248171   |
| 411. | Bhartiya Arya Kranti Manch        | 83 Ram Vatika Colony,<br>Behind Geeta Palace, Shyamganj, Bareilly,<br>Uttar Pradesh – 243005  |
| 412. | Bhartiya Awaam Activist Party     | Village-Keshru, P.S. – Chandaui,<br>District – Gaya, Bihar - 823002.  |
| 413. | Bhartiya Awam Party (Rastriya)    | House No. 30, (B.P.20) Bechupur,<br>Patel Nagar (40 Feet Road), Mughalsarai,<br>District – Chandaui, Uttar Pradesh- 232 101.                        |
| 414. | Bhartiya Azad Sena                | 15 No. Chowk, Barkagaon,<br>District- Hazaribagh, Jharkhand- 825311   |

|      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| 415. | Bhartiya Chaitanya Party           | B – 97, Panchsheel Vihar, Near Sheikh Sarai, Community Centre, New Delhi.   |
| 416. | Bhartiya Dalit Congress            | Chopara Para, Behind of Kali Mandir, Ambikapur, Distt. – Sarguja, CHHATTIAGARH- 497001.                                   |
| 417. | Bhartiya Dalit Party               | Khata No. 269, Mohalla- Vijaynagar, Post- Vijaynagar, Anchal- Banka, District- Banka, Bihar.                              |
| 418. | Bhartiya Deshbhakt Party           | 92/H/2, Pratap Market, Munirka (C/o Somu Press), New Delhi- 110067.   |
| 419. | Bhartiya Deshbhakt Sangh (Brajesh) | Shop No. 1, Khasra No. 1494, Nehru Enclave, Bank Wali Gali, Alipur, Delhi – 110036.                                       |
| 420. | Bhartiya Ekta Manch Party          | Shabab Building , Tagore Marg, Nadava Road, Lucknow-226020, Uttar Pradesh.  |
| 421. | Bhartiya Gandhiwadi Party          | Village & Post – Garwar, District – Ballia, Uttar Pradesh.  |
| 422. | Bhartiya Gantantra Party           | H. No.5, Ganga Dham, Kundan Nagar, Bagh Mughaliya, Hoshangabad Road, Bhopal, MADHYA PRADESH.                              |
| 423. | Bhartiya Gorkha Janashakti         | 26/2, H.D. Lama Road, Darjeeling-734 101, (West Bengal).  |
| 424. | Bhartiya Gram Nagar Vikas Party    | Ekta Vihar, Lane No. -1, Gramsabha – Aaamwala Talla, P.O. - Kandoli, Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand – 248 001. |
| 425. | Bhartiya Gramin Samaj Party        | Bhawan No. 15/357, Near Bharoshi ki Dharamshala, Pancham Wali Gali, Duttpura, Morena, Madhya Pradesh-476001               |
| 426. | Bhartiya Gramvasi Party            | Village – Vikrampur Banspar (Mani Chouraha), Post – Baitalpur, District – Deoria, Uttar Pradesh                           |
| 427. | Bhartiya Harit Kranti Dal          | Village & P.O. – Sonta, Via – Alipur, Kheri, Distt. Mujaffar Nagar, Uttar Pradesh.  |
| 428. | Bhartiya Harit Party               | Near Hans Prakratik Chikitsalaya, Meerapur Road, Jansath, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251314.                          |
| 429. | Bhartiya Hind Ekta Dal             | Defence Colony, Anil Shaheed Nagar, Izatnagar, Nainital Road, Bareilly - 243122, Uttar Pradesh.                           |
| 430. | Bhartiya Imaandar Party            | Sindholi, Tehsil – Puwayan, Shahjahanpur, Uttar Pradesh   |
| 431. | Bhartiya Insan Party               | N-84, 4 <sup>th</sup> Floor, Batla House, Near Khalilullah Masjid, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi – 110025.                |
| 432. | Bhartiya Jagaran Party             | Poorvi Nawada, Arrah, Bhojpur-802 301, Bihar.   |

|      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| 433. | Bhartiya Jan Hit Vikas Party       | 220, Indrapuri, Jacobpura Road, Gurgaon, Haryana – 122001   |
| 434. | Bhartiya Jan Hitkari Party         | Plot No. 31-32, Shivnagar, Tonk Road, Sanganer, Jaipur, Rajasthan   |
| 435. | Bhartiya Jan Manas Party           | H. No. 262 Gha, Sarsawan, Arjunganj, P.S. – Arjunganj, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh- 226002.                  |
| 436. | Bhartiya Jan Manch                 | 361, Street No. 13, BuddhVihar,(Behind Senior School),Mandoli Gaon, Nand Nagri, Delhi-110093.                               |
| 437. | Bhartiya Jan Nayak Party           | 418, New Govind Puri, Kanker Khera, Meerut Cantt, Uttar Pradesh   |
| 438. | Bhartiya Jan Sahyog Party          | 8/6, Juhi Safed Colony, Kanpur, Uttar Pradesh- 208014.  |
| 439. | Bhartiya Jan Sanmati Party         | Village – Harola, Sector – 5, Noida, Uttar Pradesh.   |
| 440. | Bhartiya Jan Seva Party            | Sharif Market, Hardoi Road, Sikrori, Post: Kakori, Lucknow,Uttar Pradesh-227 107.   |
| 441. | Bhartiya Jan Yug Party             | Heera Nagar, Purani Chhawani, Laskhar, Gwalior, Madhya Pradesh –474010.   |
| 442. | Bhartiya Jana Congress (Rashtriya) | 113/70B, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-800023 (Bihar).   |
| 443. | Bhartiya Janhit Congress Party     | A-3, Room No. 602, 6th Floor, R.N.A Park, Vashi Naka, R.C. Marg, Chembur, Mumbai, Maharashtra – 400074                      |
| 444. | Bhartiya Janhit Dal                | D-1/535 J.J. Cluster, Bhalaswa Dairy, New Delhi - 110042.   |
| 445. | Bhartiya Janmukti Party            | Village – Dundur, P.O. Latheya, P.S. - Chhatarpur, District – Palamau, Jharkhand – 822116.                                  |
| 446. | Bhartiya Janta Dal                 | C-16, Sanjay Vihar, Aavas Vikas Colony, Meerut Road, Hapur,Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh.                                 |
| 447. | Bhartiya Janta Dal (Integrated)    | H.No. 62, Gali No.16, A-1 Block, Sant Nagar, (Bengali Colony), Burari Road, Delhi – 110084                                  |
| 448. | Bhartiya Janta Ki Ekta Party       | Plot No. 29-A and 30-A, Khasra No. 20/1/1, Village Rajapura Khurd Delhi, Colony Mohan Garden, R-III, A-2, New Delhi -110059 |
| 449. | Bhartiya Janta Secular Party       | Servamangala Nagar, Durpa, Ward No. 45, Post- Durpa, P.S- Kusmunda, Tehsil- Katghora, District- Korba, Chhattisgarh- 495677 |
| 450. | Bhartiya Jantantrik Janata Dal     | 1, Daroga Rai Path,Patna – 800001, Bihar.   |
| 451. | Bhartiya Kautilya Sena             | R-14/6(Basement), Rajnagar, In Front of Square Mall, Ghaziabad, Uttar Pradesh.  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 452. | Bhartiya Kisan Janshakti Party           | House No. 600, Ward No. 5,<br>Ghasiyari Pura Nauvagarhi, Bahraich,<br>Uttar Pradesh  |
| 453. | Bhartiya Kranti Vir Party                | Village- Kajichak,<br>Post and Police Station- Sandesh,<br>District- Bhojpur, Bihar-802164   |
| 454. | Bhartiya Krishak Dal                     | 197, Kaushalpuri (Sarala Bajpai Ka Bagh),<br>South of Subhash Nagar, Janpad – Hardoi,<br>UTTAR PRADESH.  |
| 455. | Bhartiya Lokmat Rashtrawadi<br>Party     | Village and Post- Saday Vigaha-165,<br>Barahia, District- Lakhisarai, Bihar- 811302  |
| 456. | Bhartiya Lokshahi Party                  | Khadka Road, Ramdev Baba Mandir,<br>Tal – Bhusawal, District – Jalgaon,<br>Maharashtra - 425201  |
| 457. | Bhartiya Lokswarajya Party               | Subhash Nagar, Astha Vinayak Colony,<br>Zila Panchayat Prathmik, Shale Samor,<br>D.P. Bhosale Collage Jawel,<br>Sultanwadi Road, Tal-Koregoan,<br>District- Satara, Maharashtra – 415501 |
| 458. | Bhartiya Mahashakti Morcha               | Jai Narayan Varma Road, Fatehgarh,<br>District-Farrukhabad,<br>Uttar Pradesh, Pin-209 601.   |
| 459. | Bhartiya Mazdoor Kisan Congress<br>Party | D-40, Meerut Road, Industrial Area,<br>Ghaziabad-121003, Uttar Pradesh.  |
| 460. | Bhartiya Mitra Party                     | Circle-10, Holding No.-79A/64,<br>Mohalla- Gola Road, Bakarganj,<br>District- Patna, Bihar - 800004.   |
| 461. | Bhartiya Naujawan Inklav Party           | 2/26, Mandauli Extension, Mandauli Chungi,<br>Shahdara, Delhi-110093   |
| 462. | Bhartiya Nav Vikas Party                 | 60, Seeda Mohalla, Chilla Village,<br>Near Sai Mandir, Mayur Vihar Phase-I<br>Delhi- 110091.   |
| 463. | Bhartiya Navjawan Sena (Paksha)          | Shri Mourya Park, Shop No. 4,<br>Somnathnagar, Near Somnath Temple,<br>Vadgaonsheri, Pune - 411014<br>Maharashtra.   |
| 464. | Bhartiya Navodaya Party                  | Village- Aheria, Post- Chakarnagar,<br>Chakarnagar Chauraha, District- Etawah,<br>Uttar Pradesh.   |
| 465. | Bhartiya New Sanskar Krantikari<br>Party | Village and Post- Sahasarawan,<br>P.S- Bhagwanpur Hatt. District- Siwan,<br>Bihar - 841408   |
| 466. | Bhartiya Nojawan Dal                     | Sector-6, Pocket B-2, H.No.23, Rohini,<br>New Delhi-110085.  |
| 467. | Bhartiya Party                           | New Colony, Post – Neem Ka Thana,<br>District – Seekar, Rajasthan - 332713.  |
| 468. | Bhartiya Pragatisheel Congress           | D-43, Rajdhani Park, Nangloi, Delhi – 110041.  |
| 469. | Bhartiya Praja Jan Party                 | Narayanpur Road, Kasba Bansoor,<br>District – Alwar, Rajasthan.  |

|      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| 470. | Bhartiya Prajatantra Nirman Party  | 7/7/47-A, New Colony Lal Bagh, Post Office, Faizabad, UTTAR PRADESH   |
| 471. | Bhartiya Public Labour Party       | 357/3, Shyam Nagar, Gali No.1, Kali Mandir Back Side, Foyasagar Road, Ajmer, Rajasthan – 305001                 |
| 472. | Bhartiya Rajnitik Vikalp Party     | Village – Nayatola Bariapur, Panchayat – Champapur, Ward No. 13, Thana – Bakhtiyarpur, District - Patna, Bihar. |
| 473. | Bhartiya Rashtrawadi Party         | J-74A, Gali No-14, Khasra No. 6/14, Swaroop Nagar, Delhi - 110042.  |
| 474. | Bhartiya Rashtriya Jansatta        | 2604/207, Part-II Floor, Nai Sarak, Delhi-110006  |
| 475. | Bhartiya Republican Party (Insan)  | Village - Mahuari, Post – Jangiganj, District - S.R.N. Bhadohi, Uttar Pradesh.                                  |
| 476. | Bhartiya Rozgar Party              | E-77, Old Jasola Village, Near Metro Pillar No.141, Jasola, Near Jamia Co-operative Bank, New Delhi - 110025.   |
| 477. | Bhartiya Samajik Kranti Dal        | Village – Suwari, Post – Danganj, Distt. – Varansi, Uttar Pradesh.  |
| 478. | Bhartiya Samajik Nyay Morcha       | Ward No.12, Near Shitla Mandir, Robertsganj, Janpad – Sonbhadra, Uttar Pradesh - 231216.                        |
| 479. | Bhartiya Samajik Nyay Party        | Village & P.O. Sersa, Tehsil & District – Sonapat, Haryana.   |
| 480. | Bhartiya Samajik Party             | 6, Bus Stand, Alirajpur, District – Alirajpur, Madhya Pradesh – 457887  |
| 481. | Bhartiya Samajvadi Sena            | Bhawan No. S- 2/525, Mohalla-Sikraul, Post- Cantonment, District - Varanasi, Uttar Pradesh -221002              |
| 482. | Bhartiya Sanvaidhanik Janhit Party | Virk Gold Farm, Village – Sarayjoga, Post- Kantha, Nawabganj, Unnao, Uttar Pradesh.                             |
| 483. | Bhartiya Sarvjan Hitey Samaj Party | Anant Vihar Colony, Daldal Shivni Marg, Mowa, Raipur, CHHATTISGARH.   |
| 484. | Bhartiya Sarvjan Party             | Village -Rampur, Hata Marg, Post - Gauri Bazar, District – Dewaria - 274202, UTTAR PRADESH.                     |
| 485. | Bhartiya Sarvodaya Party           | 152/126, Patel Nagar (West), Dehradun-248001, Uttarakhand.  |
| 486. | Bhartiya Sarvsamaj Party           | Lal Singh Kachri Wala, Shani Bazar Wali Gali, Tunda Nagar, Johri Pur, Delhi.                                    |
| 487. | Bhartiya Satya Sangharsh Party     | Village – Bijhinya, P.S. – Mandla, District – Mandla, Madhya Pradesh.   |
| 488. | Bhartiya Shakti Chetna Party       | Ward No.18, Village - Khamdar, Post - Mau, Tehsil - Vyouhari, Dist. - Shahdol, Madhya Pradesh                   |
| 489. | Bhartiya Shakti Dal                | D – 236, Vivek Vihar, Delhi - 110095.   |
| 490. | Bhartiya Shanti Kranti Party       | 1/80, Ratan Vihar, Kiradi, Nangloi, New Delhi – 110041.   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 491. | Bhartiya Shramik Dal Socialist          | Baman Nagar, Pateri, Sector – 20,<br>District - Satna, Madhya Pradesh.   |
| 492. | Bhartiya Shramik Party                  | 79/4, Juhi Safed Colony, Saket Nagar,<br>Kanpur Nagar – 208014, Uttar Pradesh.                                     |
| 493. | Bhartiya Swarn Samta Party              | 201- C Block, Goyal Enclave,<br>Faizabad Road,Chinhut Lucknow, UP.   |
| 494. | Bhartiya Tarak Samaj Party              | 465A Binauli, Tehsil- Baraut,<br>District- Baghpat, Uttar Pradesh- 250645  |
| 495. | Bhartiya Tribal Party                   | PO- Chanderia, Taluka- Valia,<br>District- Bharuch, Gujarat  |
| 496. | Bhartiya Vanchitsamaj Party             | Village- Bhudiya, (Faguha),<br>Tehsil & Distt.- Kannauj,<br>UTTAR PRADESH.   |
| 497. | Bhartiya Veer Kisan Party               | Village - Khaparkheda, Taluka- Jafrabad,<br>District- Jalna, Maharashtra.  |
| 498. | Bhartiya Vikas Party                    | 139-B, Tamur Nagar, New Friends Colony,<br>New Delhi.  |
| 499. | Bhartiya Vistarwadi Party               | Village – Shyampur, Post – Dugarei,<br>District – Fatehpur, Uttar Pradesh.   |
| 500. | Bhartiya Yuva Swabhimani Party          | 19/769, Mohalla – Narayanpur,<br>Shukla Aata Chakki Ke Pass,<br>Govind Nagar, Auraiya,<br>Uttar Pradesh – 206122   |
| 501. | Bhartiya Yuva Party (Rashtrawadi)       | H.No. 139, Sonbarsa Bairia, District- Ballia,<br>Uttar Pradesh- 277208   |
| 502. | Bhrashtachar Mukti Morcha               | Chandra Nagar, Kurud Road, Kohka, Bhilai,<br>Tehsil & District – Durg, Chhattisgarh.                               |
| 503. | Bhrashtachar Virodhi Dal                | R.Z.D- 120C, Nihal Vihar, (Nangloi),<br>Delhi-110041.  |
| 504. | Bihar Janta Party                       | Village: Jail Shahar, Old Remand Home,<br>Dharmnath Mandir Road, Daulatganj, Saran,<br>Bihar – 841301              |
| 505. | Biju Swabhimani Dal                     | Plot No-40, Umapada, Stadium VIP Road,<br>PO – FC Project, Kalinga Nagar,<br>Jajpur Road, Jajpur, Odisha – 755020. |
| 506. | Bira Oriya Party                        | C/o Shri P.Samantaray, IAS(Retd.),<br>At/P.O. Madhupatna, Cuttack-10(Orissa).                                      |
| 507. | Bolshevik Party Of India                | C/o- Dr. Shashikant Waikar, 9, Bhupeshnagar,<br>Gorewada Road, Nagpur- 440013,<br>Maharashtra.                     |
| 508. | Braj Vikas Party                        | A-193, Trans Yamuna Colony,Phase-II,<br>Agra-286002, Uttar Pradesh.  |
| 509. | Brihattar Bharat Prajatantra Sewa Party | Behind of the Palace, Kishorganj Panna,<br>Distt. – Panna, Madhya Pradesh.   |
| 510. | Brij Kranti Dal                         | 16, Haryana Bhawan, Dyal Bagh, Agra-5,<br>Uttar Pradesh.   |
| 511. | Buddhiviveki Vikas Party                | R(U)-9, 2nd Floor, Pitampura, Delhi – 110088.  |
| 512. | Bundelkhand Akikrit Party               | Bundeli Sadan, Gram & Post - Satari,<br>Zila – Mahoba, Uttar Pradesh   |



|      |   |   |
|------|---|---|
| 513. | Bundelkhand Congress                                      | 56. Jwala Heri Market, Sarbati Complex, Paschim Vihar, Delhi-63                                     |
| 514. | Bundelkhand Mukti Morcha                                  | Sh. Sukhlal Ice Factory Bhavan, Elite Chouraha, Jhansi-284001 (Uttar Pradesh).                      |
| 515. | Challengers Party   | Durgesh Nivas, Opp. Vithoba Temple, 68/XX, Tailor Street, Cowl Bazaar, Bellary, aka- 583102.        |
| 516. | Chandigarh Vikas Party                                    | House No.230, Sector 9-C, Chandigarh-160009.  |
| 517. | Chhattisgarh Mukti Morcha                                 | P.O.Dalli Rajhara, Distt-Durg -491228 (Chhattisgarh).   |
| 518. | Chhattisgarh Navnirman Sena                               | C. R. - 12, R.D.A. Building, Gurunanak Market, Sharda Chowk, Raipur, Chhattisgarh.                  |
| 519. | Chhattisgarh Samajwadi Party                              | Ramanujganj Road, In front of Sanjay Park, Ambikapur, Chhattisgarh - 497001.                        |
| 520. | Chhattisgarh Sanyukt Jatiye Party                         | Bajrang Nagar (Tatyapara Ward), Raipur, Chhattisgarh.   |
| 521. | Chhattisgarh Swabhiman Manch                              | 21, Battis Bangla, Bhilainagar, Distt. - Durg-490006, Chhattisgarh.                                 |
| 522. | Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party                  | Khongapani, District - Korea, Chhattisgarh - 497447   |
| 523. | Chhattisgarh Vikas Party                                  | A-12, Flash Vihar, New Purena, Post Office - Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.                        |
| 524. | Chhattisgarhi Samaj Party                                 | Handipara, Azad Chowk, Raipur-492001 (Chhattisgarh).  |
| 525. | Chhattisgarhiya Party                                     | House No. 93, Village - Dhanrash, Post - Chhuri, Tehsil - Katghora, District - Korba, Chhattisgarh. |
| 526. | Children First Party of India                             | 703-704, Devatha Plaza, 132, Residency Raod, Bangluru-560025, Karnataka.                            |
| 527. | Christian Democratic Front                                | No.9, Rosary, Church Road, San Thome, Chennai (Tamil Nadu).   |
| 528. | Christian Mannetra Kazhagam                               | 93, Thaiyappa Mudali Street, Chennai-600001 (Tamil Nadu).   |
| 529. | Communist Marxist Party Kerala State Committee            | Kunnukuzhy, Trivandrum-695037 (Kerala).   |
| 530. | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation). | U-90, Shakarpur, Delhi-110092.  |
| 531. | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star      | C-141, Sainik Nagar, New Delhi-110059.  |
| 532. | Congress (Secular)  | Ram Raj Bhavan, Manikkath Road, Cochin-16, (Kerala).  |
| 533. | Corruption Abolition Party                                | House No. - 219, VPO - Sheriya, Tehsil - Beri, District - Jhajjar, Haryana.                         |
| 534. | Dalit Kranti Dal  | Jati Meghwale, Gaon Post - Dholipal, Teh. & Zila - Hanumangarh (Rajasthan)                          |
| 535. | Dalit Mazdoor Kishan Party                                | E-11/77, New Colony, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.                                    |
| 536. | Dalit Samaj Party   | Navchetna Path, Shiv Puri P.O. Anishabad, Patna-800 002 (Bihar).                                    |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 537. | Dalit Vikas Party (Bharat)                   | Behind of High School, Ward No.3, Village & Post – Ghunwara, Teshil – Maihar, Distt. – Satna, MADHYA PRADESH                     |
| 538. | Dalita Bahujana Party                        | 4-1-1215, Street No.3, Boggulakunta, King Kati Road, Hyderabad – 500001.   |
| 539. | Dalitha Praja Party                          | 7/347-2P-A3, Simhapuri Colony, 4th Road, Near RTC Bus Stand, Kadapa – 516002, Kadapa District, Andhra Pradesh.                   |
| 540. | Delhi Janta Party                            | Y-200, Camp No.-1, Nangloi, Delhi-110041   |
| 541. | Delhi Parivartan Party                       | E-37, Tagore Garden Extention, New Delhi – 110 027.  |
| 542. | Democratic Bharatiya Samaj Party             | Gali No-7, Guru Nanak Pura(East), Near Chintpurni Mandir, Jalandhar, Punjab.   |
| 543. | Democratic Congress Party                    | 291, Odeon Wali Gali, Near Gopal Mandir, Majitha Road, Amritsar (Punjab).  |
| 544. | Democratic Corruption Liberation Front       | 2F/1A Neduganvilai, Ponnappa Nadar Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu – 629004.  |
| 545. | Democratic Human Rights Movement Party       | Thunduvila Veedu, Panjiyoor, Venjaramood P.O., Thiruvananthapuram, Kerala – 695607.  |
| 546. | Democratic Insaf Party                       | D-62, G.T.B.Nagar (Kareli), Allahabad (Uttar Pradesh).   |
| 547. | Democratic Janta Dal (J & K)                 | 344 EP, Cristen Colony (Shaheedi Chowk), Jogi Gate, Jammu (Jammu & Kashmir).   |
| 548. | Democratic Movement                          | Ward No.1, Kathua (Jammu & Kashmir).   |
| 549. | Democratic Party of India                    | 162, Anandrao Umra Marg, Ashok Nagar, Nagpur-17 (Maharashtra).   |
| 550. | Democratic Party of India (Ambedkar)         | Mohalla Taj Pura, Rahon, Teshsil - Nawanshahr, S.B.S. Nagar, Punjab – 144517.  |
| 551. | Democratic Prajakranthi Party Secularist     | Ummathur Post & Village, Hunsur Taluk, Mysore District Karnataka-571105.   |
| 552. | Democratic Secular Party                     | At. Kohinoor Bakery, Umred Road, Tajabad, Aulia Nagar, Nagpur –24, (Maharashtra).  |
| 553. | Democratic Socialist Party (Prabodh Chandra) | 63- Ananda Plit Road, 1st Floor, Kolkata-700014, West Bengal.  |
| 554. | Democratic Socialist Party of India          | 359, West Kotalia, New Barrackpore, P.S. – Ghola, District – North 24 Parganas, Kolkata, West Bengal – 700131.                   |
| 555. | Desa Makkal Munnetrak Kazhagam               | 3/172, Veerachelliyapuram Colony, (Post), P. Kumaralingapuram, Amathur (Via), Taluk & District - Virudhunagar, Tamilnadu-626005. |
| 556. | Deseeya Praja Socialist Party                | N.S. Bhavan, Vellayani, P.O. Nemom, Thiruvananthapuram-695020, Kerala.   |
| 557. | Desh Bachao Jan Morcha                       | D-6/171, Sector-31, Noida-201301 (Uttar Pradesh).  |
| 558. | Desh Bhakt Party                             | B-114, Preet Vihar, Delhi- 110092.   |



|      |   |  |
|------|---|--|
| 559. | Desh Shakti Party                       | 14/39, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 560. | Deshbhakt Nirman Party                  | Sultanpur Barahganva, Post & Tehsil – Madhuban, Janpad – Mau, Uttar Pradesh                                    |
| 561. | Deshi Kisan Party                       | House No. 1624, Ward No. 52, Lakhibag Manpur, District – Gaya, Bihar.  |
| 562. | Deshvadi Party                          | House No.2184, D-Block, Indira Nagar, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh- 226016                                   |
| 563. | Desia Pathukappu Kazhagam               | “ARIVAGAM” 33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai-600 093 (Tamil Nadu).                     |
| 564. | Desiya Forward Bloc                     | No.5, M. P. Avenue, Majestic Colony, Saligramam, Chennai-600093, Tamil Nadu.                                   |
| 565. | Desiya Makkal Sakthi Katchi             | New No.21, Old No.11, Venkatraman Street, Mint, Chennai, Tamil Nadu - 600079.                                  |
| 566. | Dharam Nirpeksh Dal                     | 24/42, Loknath Chowk, Allahabad (Uttar Pradesh).   |
| 557. | Dharamarajya Paksha                     | 601/602, Bldg. No. 7, Shubharambh Phase-1, Konkanipada Marg, Off GB Road, Manpada, Thane-400610, Maharashtra.  |
| 568. | Do Jama Panch Mudde Jan Party           | Village – Asan, Tehsil & District - Rohtak Haryana   |
| 569. | Dr. Ambedkar People Revolution Movement | No.4, 11 <sup>th</sup> Street, Kumarappa Nagar, Dharapadavedu, Katpadi, Vellore District, Tamil Nadu – 632007. |
| 570. | Dr. Ambedkar People's Party             | 106, 4th Cross, K.H. Ranganath Colony, Opposite BHEL Factory, Mysore Road, Bangalore-26, Karnataka             |
| 571. | Dr. Ambedkar Samajvadi Democratic Party | Venkataiahna Chatra, Haradanahalli Hobli, Chamarajanagara Taluk & District, Karnataka.                         |
| 572. | Dr. Bhimrao Ambedkar Dal                | Village – Kothideeh, Tehsil – Pargna Navabganj, Janpad – Barabanki – 225001, Uttar Pradesh.                    |
| 573. | Dravida Peravai                         | 69, Rangapillai Street, Pondicherry-605001.  |
| 574. | Duggar Pradesh Party                    | Driving Institute Complex, Janipur, Jammu – 180007, Jammu and Kashmir  |
| 575. | Eklavya Samaj Party                     | 53, B - Block, Old Darulshapha, Lucknow, Uttar Pradesh – 251 001.  |
| 576. | Ekta Kranti Dal U.P.                    | C/o Satyapal Sagar Amanjai Jalal Nagar, Opp. Chhotti Line, Shahjhapur (Uttar Pradesh).                         |
| 577. | Ekta Samaj Party                        | 6898, Neem Street, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.   |
| 578. | Ekta Shakti                             | Jhanjhadi, Post – Bhaini Khurd, Tehsil – Nilokheri, Distt. Karnal, Haryana.                                    |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 579. | Ekta Vikas Mahasabha Party               | Sinha Sadan, L.C.T. Ghat, East Mainpura, Thana- Pataliputra Colony, Post-G.P.O, Sadar- Patna, District- Patna, Bihar-800001        |
| 580. | Elatchia Dhiravida Munnetra Kazhagam     | 'ELATCHIAGAM' 4-A, Hindi Prachar Sabha Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.   |
| 581. | Eluchi Desam Party                       | Old No.-1/46, New No. – 34, Vadivalpuram, Post – Vadukatchimathil, Taluk – Nanguneri, District – Thirunelveli, Tamil Nadu – 627102 |
| 582. | Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam     | 5/197, Chinna Managalakudi, Uthangudi Post, Madurai, Tamil Nadu -625107  |
| 583. | Fauji Janta Party                        | H.No- 104, Village - Manobas, Post Office- Baral, Tehsil – Secunderabad, Dist- Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203001 .              |
| 584. | Federal Congress of India                | Holumbi Khurd, Village & P.O. – Holumbi Kalan, Delhi – 110 082.  |
| 585. | Federal Democratic Party                 | No. 244B, Kathmorwa, P.O. – Madainiya, Distt. – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh – 224147   |
| 586. | Forum For Presidential Democracy         | B-145-146, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai-400021 MAHARASHTRA   |
| 587. | Forward Bloc (Socialist)                 | Temple Street, P.O. & Distt. Jalpaiguri-735101 (West Bengal).  |
| 588. | Forward Democratic Labour Party          | Ward No.5, Opposite Rest House, Ganesh Nagar, Murmadi, Post and Tehsil- Lakhani, District- Bhandara, Maharashtra – 441804.         |
| 589. | Freethought Party of India               | 121, Dharma Vihar, P.O. Khandagiri, Bhubaneswar, Odisha – 751030   |
| 590. | Front of Revolutionised Creative Efforts | Shree Goverdhan Palace, Dhar Road, Udhampur – 182101, Jammu & Kashmir.   |
| 591. | Gadar Party                              | House No.32, Near Ramlila Ground, Padav Ward, Post Makandruganj, Distt. Pratapgarh, Uttar Pradesh-230001.                          |
| 592. | Ganasangam Party of India                | D.No. 6/786, Sakya Manzil, Ponvila Nagar, Trichy Road, Namakkal, Tamil Nadu – 637001.  |
| 593. | Gandhi Ekta Party                        | K-63/01, Bhootbhairav Nakhas (Kashipura), Varanasi, Uttar Pradesh  |
| 594. | Gandhi Prakash Party                     | House No.-126, Khata No.-236, Plot No.-637, Village-Sikathi, Post- Akhalashpur, P.S. – Bhabhua, District- Kaimur, Bihar.           |
| 595. | Gandhiwadi Rashtriya Congress            | Teachers Colony, Tehsil Road, Mahoaria, Post Mahoaria Town and Distt. Mirzapur (Uttar Pradesh).                                    |
| 596. | Gandhiya Makkal Iyakkam                  | 9-1, Thadagam Road, Kavundampalayam, Coimbatore, Tamil Nadu – 641030.  |

|      |                             |  |
|------|-----------------------------|--|
| 597. | Gandhiyan Peoples Party     | C-1255, Indira Nagar,<br>Lucknow-226016, Uttar Pradesh.  |
| 598. | Gareeb Aadmi Party          | R-21, Mohan Garden, Uttam Nagar,<br>New Delhi – 110059   |
| 599. | Gareeb Kranti Party         | House No. 7, Mukarpur Khema,<br>Nawabka Ahata, Tehsil and District- Bijnor<br>Uttar Pradesh-246701.  |
| 600. | Gareeb Samana Party         | H.No. 399, Aawas Vikas Colony,<br>District- Mirzapur-231001, Uttar Pradesh.  |
| 601. | Garib Ekta Party            | A-71 Group, Vazirpur Industrial Area,<br>Vazirpur, Delhi – 110052.   |
| 602. | Garib Janata Party          | Rajinder Nagar, Main Bazar, P.O. Vijay Nagar,<br>Batala Road, Amritsar (Punjab).   |
| 603. | Garib Janshakti Party       | Ward No. 03, Holding no. 15,<br>Behind Swarn Batika Sari Showroom,<br>Mohalla- Brahampura, Laxmi Chowk,<br>Main Road Muzaffarpur, Muzaffarpur,<br>Bihar- 842003. |
| 604. | Garib Janta Dal (Secular)   | Mitra Mandal Colony,<br>Ward No.11, Located Holding No. 470,<br>Saket Vihar, Anishabad, Patna-2, Bihar.  |
| 605. | Garib Raj Party             | H. No. 748A, Jharkhandi Kayasthwada,<br>Sikandrabad, District – Bulandshahar,<br>Uttar Pradesh.  |
| 606. | Garib Samaj Party (Shoshit) | Hajipur Malipur Road, Near Ram Janaki<br>Mandir, Shankargarh, P.S. & Tehsil – Jalalpur,<br>District – Ambedkar Nagar,<br>Uttar Pradesh-224149.                   |
| 607. | Garib Vikas Party           | Professor's Colony, Belbanwa, Motihari,<br>Bihar – 845401.   |
| 608. | Garo National Council       | New Tura, West Garo Hills (Meghalaya).   |
| 609. | Global People Peace Party   | 1 No. Anandanagar, P.O. – Anandanagar,<br>P.S.-Kalyani, District – Nadia,<br>West Bengal - 741245.   |
| 610. | Goa Forward Party           | Sheesh Mahal, 2 <sup>nd</sup> Floor, Office 4, Comba,<br>Margao, Goa - 403601.   |
| 611. | Goa Praja Party             | Classic Apartments, House No. – 69,<br>Ella, Old Goa, Tiswadi, North Goa,<br>Goa – 403402.   |
| 612. | Goa Su-raj Party            | 383-A, Pirazona, Moira,<br>Bardez-Goa (Pin-403514).  |
| 613. | Goa Vikas Party             | Laxmi Sadan, Ground Floor,<br>Opp. Assembly Complex,<br>Near Journalist Colony, Porvorim, Goa-<br>403507.  |
| 614. | Goemcarancho Otrec Asro     | H. No. 780/A, Mugally, Sao Jose de Areal,<br>Salcete, Goa.   |
| 615. | Gokula Makkal Katchi        | New No.7, Old No. 3, Venkatraman Street,<br>Teynampet, Chennai, Tamil Nadu- 600018   |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 616. | Gondvana Gantantra Party                             | Village & P.O. Tiverth, Tehsil Kutghora, District-Bilaspur (Chhattisgarh).  |
| 617. | Gondwana Congress Party                              | Shahapura, A-121, B.D.A. Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.  |
| 618. | Gondwana Mukti Sena                                  | M-2, Poorvanchal Phase-I, Khazurikala Road, Bhopal-462 021, Madhya Pradesh.   |
| 619. | Gorakha National Liberation Front                    | Dr. Zakir Hussain Road (Jalpahar Road), P.O. and District-Darjeeling, Darjeeling Gorkha Hill Council (West Bengal). |
| 620. | Gorkha Democratic Front                              | Shahi Niwas, Chandrabani, Post – Mohabbewala, Dehradun, Uttarakhand.  |
| 621. | Gorkha Janmukti Morcha                               | North Point Singamari, Darjeeling – 734104, West Bengal.  |
| 622. | Gorkha Rashtriya Congress                            | 9, K.B. Road, P.O. Ghoom, P.S. Jorebunglow, District Darjeeling, West Bengal.                                       |
| 623. | Gramanchal Party                                     | 3/A, Satya Nagar, In Front of Central School, Bhubaneswar-7, Orissa.  |
| 624. | Great India Party                                    | D.No.1-1334, Devasthanam Road, Mangalagiri-522503, Guntur District, Andhra Pradesh.                                 |
| 625. | Gujarat Jan Chetna Party                             | A-69, Trikarnagar Section-1, Near Chowpaty Garden, L.H. Road, Surat, Gujarat- 395010.                               |
| 626. | Gujarat Yuva Vikas Party                             | C/o Darbar Kruba Transport, Near Bus Station, Vadnagar-384 355, District-Mehsana (Gujarat).                         |
| 627. | Gurgaon Residents Party                              | C-1927, Sushant Lok-I, Gurgaon – 122 002, Haryana.  |
| 628. | Guru Chand Mukti Morcha                              | G-52, Aruna Nagar, Majnu Ka Tilla, Civil Lines, Delhi-110054.   |
| 629. | Haakim Apna Party                                    | MohallaMehmood Khan, Sarai NakhasaChauraha, Sambhal, Tehsil & District – Sambhal, Uttar Pradesh – 244302.           |
| 630. | Hamara Dal   | C-112, Sector-G, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow-12, Uttar Pradesh.   |
| 631. | Hamara Sahara Party                                  | Sanand Bhawan, Village and Post – Masaurha, P.S. – Paliganj, District - Patna, Bihar – 801110                       |
| 632. | Hamari Apni Party                                    | Survey No. 75/1, Indrayani Vihar, Sant Nagar, Lohgaon, Pune, Maharashtra – 411047                                   |
| 633. | Hamari Janmanch Party                                | 1/12, New Chukuwala, Dehradun, Uttarakhand.   |
| 634. | Hamdardi Janrakshak Samajvadi Vikas Party (Jansevak) | Village- Udhura, Post office- Dallupur, P.S- Brahampur, District- Buxar, BIHAR-802130                               |
| 635. | Harit Pradesh Party                                  | H. No. 349, Village & Post – Bilsuri, Distt. – Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203205.                                |
| 636. | Harit Pradesh Vikas Party                            | House No. 34, Gram – Tabela Gadhi, Tehsil – Baraut, Distict – Bagpat, Uttar Pradesh – 250622                        |

|      |                                |   |
|------|--------------------------------|---|
| 637. | Haryana Insaaf Congress        | Farm House, Near Bhagwat Bhakti Ashram, Rampura, Rewari – 123401, Haryana.                                      |
| 638. | Haryana Jan Chetna Party (V)   | Kothi No. 118A, Circular Road, Model Town, Ambala City, Haryana – 134003.                                       |
| 639. | Haryana Janrakshak Dal         | 249/3, Park Road, Adarsh Nagar, Gohana, Distt. Sonapat, Haryana.  |
| 640. | Haryana Janta Party            | Village & Post Office – Risalu, Tehsil & District – Panipat, Haryana – 132103                                   |
| 641. | Haryana Kranti Dal             | Babain Road, Ladwa, District - Kurukshetra Haryana  |
| 642. | Haryana Lokhit Party           | Shop No.8, SCO-2, Old Judicial Complex, Jharsa Road, Sector – 15, Gurgaon, Haryana – 122001                     |
| 643. | Haryana Navnirman Sena         | 101, Village – Silokhra, Gurgaon, Haryana.  |
| 644. | Haryana Samajik Nyay Party     | Kothi No. 239, Sector-7, Urban Estate, Kurukshetra-136118, Haryana.   |
| 645. | Haryana Sarvajan Party         | H. No. 236, Ward No. 2, Gram Panchayat Radaur, District – Yamuna Nagar, Haryana.                                |
| 646. | Haryana Swatantra Party        | House No. 154, Village & P. O. – Jakhauda, Tehsil – Bahadurgarh, Distt. – Jhajjar, Haryana.                     |
| 647. | Himachal Lokhit Party          | Shastri Bhawan, Devnagar, Kasumpti, Shimla-171009, Himachal Pradesh.  |
| 648. | Hind Congress Party            | C-6, South Side, GT Road, Industrial Area, Ghaziabad, Uttar Pradesh.  |
| 649. | Hind Ekta Mission              | Village – Leduwawar, Post – Kauragahani, Tehsil – Phulpur, Distt. – Azamgarh, Uttar Pradesh.                    |
| 650. | Hind Jan Congress              | 72, Pyarelal Compound, Nagra, Jhansi, Uttar Pradesh.  |
| 651. | Hind Kisan Mazdoor Party       | 31/419, Kela House, Maharana Pratap Nagar, Agra-4. (U.P.).  |
| 652. | Hind Morcha                    | Samaj Sudhar Ashram, Siraspur, Delhi.   |
| 653. | Hind Raksha Sena               | WZ-13 B, First Floor, Mukhram Park Extn. Tilak Nagar, New Delhi-110018  |
| 654. | Hind Rashtriya Ekta Party      | Plot No.104, Anguri Palace, Wazirabad Road, Pasunda, Garima Garden, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201 005.         |
| 655. | Hind Samdarshi Party           | F-64, Galaxy Apartment, Sector – 43, Gurgaon, Haryana – 122002.   |
| 656. | Hind Swarajya Ganatantra Party | S-41, Panchsheel Park, New Delhi-110017.  |
| 657. | Hind Vikas Party               | P.O. Sri Harbhagwan Nagar, Tapakalan, Near Kali Mandir, Jalesar Road, Ferozabad, (Uttar Pradesh).               |
| 658. | Hindu Ekta Andolan Party       | Hindi Ekta Karyalay, Malhar, Khan Bhag, Police Chowki, H.No.927/1, Sangli-416416, District Sangli, Maharashtra. |

|      |                                  |   |
|------|----------------------------------|---|
| 659. | Hindustan Action Party           | 156, Khanna Nagar, Loni, Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh.   |
| 660. | Hindustan Ekta Party             | Shop No. 132/2, Kesho Ram Complex, Sector - 45 C, Chandigarh-160047.  |
| 661. | Hindustan Janmorcha              | House No. 1, Village & Post – Tekua, District - Deoria, Uttar Pradesh – 244182.                                 |
| 662. | Hindustan Janta Party            | M/s Sono Sales Corporation, Subji Mandi, Khokadpura, Aurangabad (Maharashtra).                                  |
| 663. | Hindustan Kranti Dal             | Village – Tundlaka, Panchayat – Goudhola, P.O & Tehsil – Punahana, Distt. – Mewat (Nuh) Haryana.                |
| 664. | Hindustan Krantikari Dal         | A-65, Sector – 34, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.   |
| 665. | Hindustan National Party         | No. 103/68, College Raod, Nanganallur, Chennai-600 114, Tamil Nadu.   |
| 666. | Hindustan Peoples Party (Rajpal) | 85A-Mohiley Nagar, Allapur, Allahabad, Uttar Pradesh.   |
| 667. | Hindustan Shakti Sena            | H. No. 1113/11, Darshan Singh Nagar, Alipur Road, Patiala, Punjab   |
| 668. | Hindustan Swaraj Congress Party  | Shewar Bangla A.B. Nair Road, Juhu, Mumbai-4000491, Maharashtra   |
| 669. | Hindustan Utthan Party           | House No. 438, Village- Ravanikateri, Post- Bugrasi, Tehsil- Syana, District- Bulandshahr, Uttar Pradesh-245403 |
| 670. | Hindustan Vikas Dal              | Karman Tola, Arah, District – Bhojpur – 802301, Bihar.  |
| 671. | Hindustani Awaam Party           | H. No. 202A/104, Jawahar Nagar, Near Hathi Park, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001.                               |
| 672. | Hindustani Awam Morcha (Secular) | Maa Shabari Kutir, Godawari, P.S. - Rampur, District – Gaya, Bihar-823001.                                      |
| 673. | Hindustani Gareebwadi Party      | 61, Aggarwal Chambers, Vikas Marg, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092.                                |
| 674. | Hindustani Swaraj Party          | 69, Ashok Mohalla, Nangloi, Delhi – 110041.   |
| 675. | Hindusthan Nirman Dal            | House No. 100, Gali No. 5, Krishna Nagar, Safdarjang Enclave, New Delhi.  |
| 676. | Hindusthan Praja Paksha          | 7/702, 'C' Wing, Sheetal Dhara Complex, Plot No. 28, Sector-7, Kamothe, Navi Mumbai – 410209, Maharashtra.      |
| 677. | Hindusthan Suraksha Party        | North East Zone, Berpeta Road, Near Tourists Lodge, Ward No.6, District Berpeta (Assam).                        |
| 678. | Hitech Party                     | B-85, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.  |
| 679. | Hmar Peoples Convention          | C/o Lalauva, House No. A/56, Bawngkawn Chimveng, Aizawl – 796 014 (Mizoram).                                    |



|      |   |  |
|------|---|--|
| 680. | Hum Kisan Party                             | House No. 1699/G-25/A1, Vidya Nagar,<br>Road No. 1, Harmu, Ranchi,<br>Jharkhand – 834002                                 |
| 681. | Hum Sabki Party                             | Village – Mahimapur (Jalalpur Chaumuhani),<br>Post – Jalalpur, District - Jaunpur,<br>Uttar Pradesh – 222136             |
| 682. | Independent Indian Congress                 | At/Post Pimpalgaon By Mahalunge,<br>Tal. – Ambegaon, Dist. – Pune,<br>Maharashtra – 410503                               |
| 683. | Independent People's Party                  | House No.63, Kargil Colony, Narwal Bala,<br>Jammu, Jammu & Kashmir.  |
| 684. | Indhia Kudiarasu Katchi                     | 11, Karpagambal Nagar, III<br>Street, Kottivakkam, Chennai – 600 041. Tamil<br>Nadu.                                     |
| 685. | Indhu Dravida Makkal Katchi                 | No.14, Balaji Nagar, Chikkarayapuram,<br>Mangadu, Chennai, Tamil Nadu – 600069   |
| 686. | India Dravida Makkal Munnetra<br>Katchi     | Door No. 15/1, Ward No. 21, Sarojini Nagar,<br>Towerline Colony, Erode Corporation Zone II,<br>Erode-638011, Tamil Nadu. |
| 687. | India Makkal Munnetra Katchi                | 95, Cauveri Street, Bhavani – 638301,<br>Erode District, TAMIL NADU.   |
| 688. | India Rising Party                          | H.N. 39, Fatehpur, Kapoorapur-1,<br>Tehsil- Tirwa, Dist- Kannauj,<br>Uttar Pradesh- 209723                               |
| 689. | Indian Aarthik Sudhar Party                 | H. No.- 1, Manjit Nagar, Basti Sheikh,<br>Jalandhar, Punjab.   |
| 690. | Indian Bahujan Samajwadi Party              | 2/3, Ambedkar Nagar, Post-Nagina,<br>Distt. Bijnaur-246762 (Uttar Pradesh).  |
| 691. | Indian Bahujan Sandesh Party<br>(Kanshiram) | B-525, Guru Harikishan Nagar, New Delhi.   |
| 692. | Indian Business Party                       | 1207, Pragati Tower, 26-Rajendra Place,<br>New Delhi-110008.   |
| 693. | Indian Christian Front                      | LIG-289, Anna Nagar, Opp Velankanni<br>Church, Madurai- 625020, Tamil Nadu.  |
| 694. | Indian Christian Secular Party              | Plot No. 8, Wahab Nagar, Sikh Village,<br>Secunderabad – 500 009.  |
| 695. | Indian Citizens' Party                      | At: Markata Nagar, Sector-10, Plot No. C-43,<br>P.O. – Abhinaba Bidanasi, Cuttack-753014<br>Orissa.                      |
| 696. | Indian Democratic Party                     | D – 978, Jan Kalyan School Road, Bhajan Pura,<br>Delhi – 110054  |
| 697. | Indian Democratic Republican<br>Front       | House No.-404 Sanjay Colony,<br>Arthala Mohan Nagar, Ghaziabad,<br>Uttar Pradesh.  |
| 698. | Indian Federal Democratic Party             | 1, Balwant Rai Mehta Lane, K.G. Marg,<br>New Delhi – 110 001.  |
| 699. | Indian Gandhiyan Party                      | Kuriyakott Building, Thekkumpadam Road,<br>Pattikkad P.O., Thrissur District,<br>Kerala-680509.                          |
| 700. | Indian Justice Party                        | 5, Pusa Road, IIIrd Floor, Karol Bagh,<br>New Delhi – 110 005.   |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 701. | Indian Krantikari Lehar                | Mohalla Dhudi Wala, Bazigar Basti, Faridkot, Distt. – Faridkot, Punjab.   |
| 702. | Indian Labour Party (Ambedkar Phule)   | D.No.26-28-118, 1 <sup>st</sup> Line, Netaji Nagar, A.T. Agraharam, Guntur, Andhra Pradesh – 522004.                    |
| 703. | Indian Makkal Kalvi Munnetra Kazhagam  | No.3, Deenadayalau Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.  |
| 704. | Indian Minorities Political Party      | D. No. 9-4-51/35/48, Hakeempet (I.A.S.) Colony, Towli Chowki, Post – Golkonda Fort, Hyderabad – 500008, Andhra Pradesh. |
| 705. | Indian National Green Party            | A/44, Paryavaran Complex, Saidulazaib, New Delhi-30.  |
| 706. | Indian National League                 | No.7, Balwant Rai Mehta Lane, Kasturba Gandhi Marg Cross, New Delhi-110001.   |
| 707. | Indian Oceanic Party                   | K-316, M.B.Road, Lado Sarai, New Delhi-110030.  |
| 708. | Indian Peace Party                     | X-919, Chand Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031.   |
| 709. | Indian People's Conference Party       | H/o Makhdoom Sahib, House No. 51, Rainawari, Srinagar, Kashmir, Jammu & Kashmir.  |
| 710. | Indian People's Congress               | 79, Lawyers Chambers, Supreme Court, New Delhi-110001.  |
| 711. | Indian People's Forward Bloc           | Tangra Housing Estate, Block-L/1, Flat -5, 40/1, Trangra Road, Kolkata-15, West Bengal.                                 |
| 712. | Indian Peoples Green Party             | 19, Shubham Enclave, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan.   |
| 713. | Indian Public Party                    | Gujarat Housing Colony, Room No. - 1103, Block No.7/B, New Dablia, Bharatnagar, Bhavnagar-364001, Gujarat.              |
| 714. | Indian Savarn Samaj Party              | H. No. 0053, Daudpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh  |
| 715. | Indian Secular Congress                | 202, Pocket-B, SFS (DDA Flats), Sukhdev Vihar, New Delhi – 110025.  |
| 716. | Indian Socialist Republican Congress   | 10 B, Karanje Turf, Plot No. 7, Satara, Maharashtra – 415002.   |
| 717. | Indian Unity Centre                    | Village-Ichangari, P.O. & P.S- Jagatballavpur, Dist- Howrah, Pin- 711408, West Bengal.                                  |
| 718. | Indian Voters Welfare Party            | No. 608, 14th Main, Gokula 1st Stage, Bangalore – 560 054, Karnataka.   |
| 719. | Indian Youth Party                     | 7/545, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 720. | Indians Front                          | 37-12-62, NGGO's Colony, P.R. Gardens, Visakhapatnam – 530 007 Andhra Pradesh.  |
| 721. | Indians Victory Party                  | 3/261-2, Anandan Nagar, Asaripalla-629201, Kanyakumari District, Tamil Nadu   |
| 722. | Indigenous Nationalist Party of Twipra | Abhoyanagar, Agartala-799005 (Tripura).   |



|      |                                      |   |
|------|--------------------------------------|---|
| 723. | Indigenous People's Front of Tripura | H.O. Old Kali Bari Road, Krishnanagar, Agartala-799001, Tripura.  |
| 724. | Indiya Jananayaka Katchi             | No.9, 3rd Avenue, 34th Street, Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.   |
| 725. | Inqalab Party of India               | Mohalla Paschimi Lakhpeda, Town & Post – Mohammadi, Distt. Lakhimpur Khiri – 262 804 Uttar Pradesh.                           |
| 726. | Inqalab Vikas Dal                    | 92, Village Gawandi, Near Sardar Patel Park, Ghonda, Delhi.   |
| 727. | Inqlabi Party                        | Behind B.T.I. School, Mahavir Nagar, Bhind, Madhya Pradesh, Pin – 477001.   |
| 728. | International Party                  | Block-B-5, Flat No.-111, Yamuna Vihar, Delhi-110053   |
| 729. | Islam Party Hind                     | Mohalla: Rajde Pur, Post-City Janpad, Gazipur, Uttar Pradesh.   |
| 730. | Istatantra Parisad                   | At Village/Mouza – Dibyasinghapur, Khata No. 638, Plot No. 1343, P.O. Rayagurupur, P.S. – Gadisagoda, District – Puri, Odisha |
| 731. | Ittehad-E-Millait Council            | 93, Sodagaran, Dargah Aala Hajrat, Bareilly, Uttar Pradesh.   |
| 732. | J & K Citizen's Party                | Heera Building, Abi Guzar, Lal Chowk, Srinagar, Jammu and Kashmir.  |
| 733. | Jaago Bharat Front                   | D – 185 B, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi - 110059.   |
| 734. | Jaganmay Nari Sangathan              | Sector-21/5, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 735. | Jaghat Telugu Munnetra Kazhggam      | No.33, Halls Road, P.A. Tower, F-9 & 10, Egmore, Chennai-600008, Tamil Nadu.  |
| 736. | Jago Bharat Jago Party               | 14A/ 84, WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005.   |
| 737. | Jago Party                           | 9-1-108/1, 2nd Floor, Tata Chary Compound, S.D. Road, Secundrabad – 500 026, Andhra Pradesh.                                  |
| 738. | Jagrat Bharat Party                  | 101, Vidhayak Niwas, Rajender Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 739. | Jagte Raho Party                     | C/o Ms. Kshama R Desai, 2, Vatika Bunglows, Near Sabari School, Vasna Road, Baroda, Gujarat.                                  |
| 740. | Jai Andhra Party                     | D. No. – 14-71, Chagalnadu Steels, Morampudi Junction, Rajahmundry, East Godavari District, Andhra Pradesh - 533105.          |
| 741. | Jai Bharat Party                     | RZH-710E (E/54), Raj Nagar II (Near Dev Hospital), Palam Colony, New Delhi-45.  |
| 742. | Jai Bharat Samanta Party             | A-36/54-V-1, Samanata Shakti Bhawan, Kajjakpura, Koniya Road, Varanasi, Uttar Pradesh.  |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 743. | Jai Chhattisgarh Party                    | 10, 2nd Floor, Shaheed Veernarayan Singh Compound, Nagar Ghari Chowk, G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh – 492 001.                                |
| 744. | Jai Hind Party                            | Kharail Punarvas, Ward No.16, Nagar Parishad, Supaul, Bihar.  |
| 745. | Jai Hind Samaj Party                      | Village - Kharhara (Bind Valia), Post – Dubiha, Janpad – Ghazipur, Uttar Pradesh.   |
| 746. | Jai Janata Janardan Party                 | Mohalla-Manohari Ganj, Mardan Naka Shahar Banda, Paragna & Distt. – Banda, Uttar Pradesh.   |
| 747. | Jai Janseva Party                         | 14/43, Sambhaji Chowk, Ichalkaranji, Tehsil –Hatakanangale, Distt:- Kolhapur, Maharashtra-416115.   |
| 748. | Jai Janta Party                           | Ward No. 18, Holding No. 27, Bhabhua (Kaimur), Near of Agarwal Petrol Pump, Bihar – 821101.   |
| 749. | Jai Jawan Jai Kisan Mazdoor Congress      | WZ-553-A/3, Soni Kunj, Nangal Raya, New Delhi-110046.   |
| 750. | Jai Jawan Jai Kisan Party                 | First Floor, H. No. – 60, Street No.7, Virk Colony, Near DCW, Patiala, Punjab - 147001.   |
| 751. | Jai Lok Party                             | F-2/5, MayurVihar, Ashoka Garden, Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh-462023.  |
| 752. | Jai Maha Bharath Party                    | Jai Mahabharath Bhawan, Shri Mahaavykuntha Puram, Vill.- Bukkapuram, Tehsil – Alampuram, Distt. – Mahabub Nagar, Andhra Pradesh, Pin – 509 652. |
| 753. | Jai Manavta Party                         | H. No. 1, Samriddhi Parisar, Near of Sahu Aata Chakki, Lalita Nagar, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh.  |
| 754. | Jai Prakash Janata Dal                    | 190, Pratap Nagar, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi – 110091   |
| 755. | Jai Samaikya Andhra Party                 | D. No. 4-86, Kammavari Veedhi, Machavaram Gram Panchayat Limits, Rayavaram Mandal, District – East Godavari, Andhra Pradesh – 533 214.          |
| 756. | Jai Samaj Bharatiya Samaj Party           | Town Area Sadat, Post – Sadat, District – Gazipur, Uttar Pradesh.   |
| 757. | Jai Vijaya Bharathi Party                 | Chinnagottigallu P.O., Chittoor District, Andhra Pradesh.   |
| 758. | Jamat -E- Seratul Mustakim                | P.O. Chhotto Sujapur, P.S. Kaliachak, Distt. Malda, West Bengal – 732206  |
| 759. | Jammu & Kashmir Awami National Conference | 3-R.C. Quarters, Press Enclave, Pratap Park, Srinagar-190001 (J & K).   |
| 760. | Jammu & Kashmir National United Front     | Post Office Building, Amphalla Chowk, Karan Nagar, Jammu Tawi – 180 005, Jammu & Kashmir.   |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 761. | Jammu & Kashmir People Conference                   | General Office, Old Secretariat Road, Sri Nagar-190001 (Jammu & Kashmir).  |
| 762. | Jammu & Kashmir Pir Panjal Awami Party              | Near Police Station Poonch, C/o District Court Poonch, Jammu & Kashmir   |
| 763. | Jammu & Kashmir Save Srinagar Front,                | Naib Mufti Azam Manzil, Tailbal Road, Habak Crossing, Srinagar – 190 006. Jammu and Kashmir.   |
| 764. | Jammu and Kashmir Awami League                      | B-24, Indra Nagar Srinagar--190001, (Jammu & Kashmir).   |
| 765. | Jammu and Kashmir Democratic Party Nationalist      | Kursoo Rajbagh, Srinagar-190 008, Kashmir.   |
| 766. | Jammu And Kashmir National Democratic Front         | 168, Rawalpura Housing Colony, Srinagar (Jammu & Kashmir).   |
| 767. | Jammu and Kashmir People Democratic Front (Secular) | Rajbagh, Near Little Angels School, Srinagar, Kashmir.   |
| 768. | Jammu Kashmir People's Party (Secular)              | 96/9, Nanak Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir – 180004   |
| 769. | Jammu State Morcha (Progressive)                    | 8, Old Dry Fruit Market, Jewel Chowk, Jammu – 180 001, Jammu & Kashmir.  |
| 770. | Jan Aawaj Party                                     | Jhinhak, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh- 209302.  |
| 771. | Jan Adesh Akshuni Sena                              | House No.117, Patharia Mohalla, Padua Chauraha, G.T. Road Bhongaon, Mainpuri, Uttar Pradesh  |
| 772. | Jan Adhikar Manch                                   | 9 Shivakhand, Jhilmil, Delhi-110095.   |
| 773. | Jan Adhikar Party                                   | House No. 331, Sarvodaya Nagar, Chandi Road, Pilkhuwa, Uttar Pradesh.  |
| 774. | Jan Adhikar Party (Loktantrik)                      | Ward No. 05/14, Vardhman Hata, Arjun Bhawan, Arjun Nagar, Post office- Purnea, P.S- Sahayak k. Haat, District- Purnea, Bihar-854301. |
| 775. | Jan Bhavana Party                                   | C-103, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, New Delhi – 110092.   |
| 776. | Jan Chetna Party                                    | Chamber No.475, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.   |
| 777. | Jan Congress Party                                  | Ward No. 1. House No. 395, Bokakhat Town, District- Golaghat, Assam- 785612.   |
| 778. | Jan Ekta Dal  | Gher Katebaz Khan, Near Masjid Kale Khan, Rampur, Distt. Rampur – 244 901, Uttar Pradesh.  |
| 779. | Jan Ekta Party                                      | 147/5, Behind ITI, Shamsheerpur, Paonta Sahib, Himachal Pradesh.   |
| 780. | Jan Kalyan Party                                    | Fatehpur-Sahabpur, P.O- Kasenda, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, Uttar Pradesh.  |
| 781. | Jan Kranti Party, Andaman & Nicobar                 | C/o Harsh Mehra Traders, Opposite: CBI Office, Ranchi Basti, Port Blair - 744103.  |
| 782. | Jan Kranti Swatantrata Party                        | 226/27, Street No.-6, Mahavir Nagar, Firozabad, Uttar Pradesh.   |

|      |                           |  |
|------|---------------------------|--|
| 783. | Jan Lok Kalyan Party      | Village & Post: Butrada, Tehsil: Shamli, Distt. Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh.                               |
| 784. | Jan Lokmat Party          | 2, Hasrat Building, Adhyatmik Nagar, Beneath Rly. Fly Over, Dasna, Ghaziabad-201302, Uttar Pradesh.          |
| 785. | Jan Morcha                | 1, Teen Murti Marg, New Delhi-110001.  |
| 786. | Jan Raajya Party          | 110/F/10A/1A, Kanahipur Village, Dhoomangunj, Allahabad-211001, Uttar Pradesh.                               |
| 787. | Jan Raksha Party          | Bhithauli, Sitapur Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.   |
| 788. | Jan Sadharan Party        | House No – 04, Dr. Fatehullah Lane, Main Road, Ranchi, Jharkhand – 834001                                    |
| 789. | Jan Samanta Party         | B-125, Navjiwan Camp, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.   |
| 790. | Jan Samarthan Dal         | 12, Krishna Vihar, Jwala Nagar, Rampur, Uttar Pradesh.   |
| 791. | Jan Sangh Party           | A-90, Sector-21, Jalvayu Vihar, Noida, Gautambudh Nagar-201301, Uttar Pradesh.                               |
| 792. | Jan Sangharsh Virat Party | Street No. 2, Near of Bhuteshwar Mandir, Sant Ravidas Ward, Sagar, Tehsil & District – Sagar, Uttar Pradesh. |
| 793. | Jan Sangram Party         | House No. 482, Sector – 3 A, Awas Vikas Colony, Bodla, Agra -7, UP.  |
| 794. | Jan Satya Path Party      | 1 <sup>st</sup> Floor, Madhav Complex, Opp. City Pulse Theatre, Raipur, Ahmedabad, Gujarat- 380022.          |
| 795. | Jan Seva Sahayak Party    | Village – Tal Mahawar, Tehsil – Bilaspur, District - Rampur, Uttar Pradesh                                   |
| 796. | Jan Sevak Party           | L.I.G. 63, Shekhpura, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh,   |
| 797. | Jan Shakti Dal            | Shivaji Nagar, Street No. 1, Near Kailtan School, Line Paar, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.                |
| 798. | Jan Shakti Ekta Party     | Village – Mandanpur, Post- Meerganj, District – Bareilly, Uttar Pradesh – 243504.                            |
| 799. | Jan Shakti Party of India | 7107, Street No.3, New Vishwakarma Nagar, Focal Point, Ludhiana, Punjab-141 010.                             |
| 800. | Jan Shanti Sangathan      | AA-14, Chandan Van, Phase –1, Mathura, Uttar Pradesh-281001  |
| 801. | Jan Surajya Shakti        | Janasampark Karyalaya, Warananagar, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur, Maharashtra-416113.                       |
| 802. | Jana Hitkari Party        | A/13-14, Industrial Estate, Rasulgah, Bhubaneswar-751 010, Orissa.   |
| 803. | Jana Priya                | A/2, Kastel, 5, Cornwell Road, Bangalore-560025 (Karnataka).   |

|      |                                   |   |
|------|-----------------------------------|---|
| 804. | Jana Samanyara Party (Karnataka)  | Sri. Veerabhadra Swamy Nilaya,<br>1 <sup>st</sup> Main, 5 <sup>th</sup> Cross, Vijaya Nagar, Tumkur,<br>Karnataka – 572102.         |
| 805. | Jana Swarajya Party               | H.O. 83/A, 3 <sup>rd</sup> Ward, Kamma Bazar,<br>Sandur-583119, Karnataka.  |
| 806. | Jana Unnayan Mancha               | C/o Dolphin Engineering Co., 39,<br>Shakespeare Sarani, Kolkatta-700017,<br>(West Bengal).  |
| 807. | Jana Vaahini Party                | Door No. 28-5-37A,<br>12th Road, Santhi Nagar,<br>Eluru, West Godawari District,<br>Andhra Pradesh-534001                           |
| 808. | Janadesh Party                    | Radhey Niwas, Jarimari, Jagtap Wadi,<br>Kurla Andheri Road, Mumbai – 400072.  |
| 809. | Janadhipathya Samrakshana Samithi | Kerala State Committee Office,<br>Iron Bridge P.O., Alleppey-688011, Kerala.  |
| 810. | Janahitha Paksha                  | D. No. 109, 2nd Ward, Kamma Street,<br>Bellary, Karnataka – 583101.   |
| 811. | Jananayaha Munnetra Kazhagam      | No.32, New Tank Street, Nungambakkam,<br>Chennai-600034, (Tamil Nadu).  |
| 812. | Janapaalana Party (Democratic)    | 8-2-703/2/B, Plot No.2, Road No.12,<br>Banjara Hills, Hyderabad,<br>Andhra Pradesh - 500034.  |
| 813. | Janasena Party                    | House No. 8-2-293/82/HH/91/A/201,<br>Huda Heights, MLA Colony, Road No. 12,<br>Banjara Hills, Hyderabad,<br>Andhra Pradesh - 500033 |
| 814. | Janata Party                      | A-77, Nizamuddin East, New Delhi.   |
| 815. | Janata Uday Party                 | 860, Gali No.4, Sanjay Enclave, Chacha<br>Chowk, Parvatiya Colony, N.I.T. Faridabad,<br>Haryana.                                    |
| 816. | Janata Vikas Manch                | C/216, Awas Vikas Colony, Meera Bhawan,<br>Pratapgarh, UTTAR PRADESH.   |
| 817. | Janata Vikas Party                | Abashek Bhavan, Udainagar Colony,<br>Sagar Road, Vidisha (Madhya Pradesh).  |
| 818. | Janhit Dal                        | R.M.S. Colony, Road No. 2, Kankar Bagh,<br>Patna-20, Bihar.   |
| 819. | Janhit Kisan Party                | Ward No. 24, Saxena Nagar,<br>Nagar Palika Parishad – Maharajganj,<br>Janpad – Maharajganj – 273303<br>Uttar Pradesh.               |
| 820. | Janhit Lokshahi Party             | Room No. – 41/3,<br>Gaondevi Road, Pavanegaon,<br>Navi Mumbai, Maharashtra – 400705.  |
| 821. | Janhit Vikas Party                | Village-Kapasi, Post- Hasanpur,<br>Block- Baliakhedi, District- Saharanpur,<br>Uttar Pradesh-247111                                 |
| 822. | Jankranti Samaj Party             | House No. 16, Sadarpur Colony,<br>B.D.S. Market, Som Bazar,<br>Sector-45, Noida, Gautambudh Nagar,<br>Uttar Pradesh.                |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 823. | Janlok Rashtriya Party                 | 452, Sector -19,Dwarka,New Delhi.   |
| 824. | Janmangal Paksh                        | Ram Pratap, Geeta Nagar, Main Road, Near Gurukul, Rajkot – 360 002 (Gujarat).   |
| 825. | Janmat Party                           | C2A/107, Pocket-16, Janakpuri, New Delhi-110058.  |
| 826. | Janmat Vikas Paksha                    | Post – Saswad, Purandhar, Maharashtra - 412301.   |
| 827. | Jan–Nyay Dal                           | 301, Sri Devraha – Complex, Mata Madia Choraha, Vijay Takeej Road, Motinagar Ward, Teh. & Zila – Sagar, Madhya Pradesh. |
| 828. | Janral Samaj Party                     | Surat Printing Press,Dana Mandi Road, Bathinda, PUNJAB.   |
| 829. | Jansatta Party                         | L-14, Mahendra Park,Adarsh Colony, New Delhi-110 003.   |
| 830. | Janshoshit Samaj Party                 | A-618/7, Street No. – 8, Bhajanpura, Delhi - 110053   |
| 831. | Janta Dal Rashtravadi                  | House No. 55/1, Haroon Nagar Colony, Sector – 1, P.S. & P.O. Phulwari Sharif, Patna, Bihar - 801505.                    |
| 832. | Janta Raj Party                        | House No. 43, Village – Tejpura, Post – Indore, District – Ghazipur, Uttar Pradesh – 233226                             |
| 833. | Janta Raj Vikas Party                  | Village- Chakfaij, Post- Sukki, P.S- Patepur, Distirct- Vaishali, Bihar-843114.   |
| 834. | Janta Sarkar Party                     | I-4/39, Ground Floor, Sector – 16, Rohini, Delhi-110089   |
| 835. | Janta Sena Rajasthan                   | Mukam Post: Vallabhnagar, District – Udaipur, Rajasthan – 313601.   |
| 836. | Jantantra Party                        | 3rd Floor, Taksal Theatres Building, Nadesar, Varanasi – 221002, Uttar Pradesh.   |
| 837. | Jantawadi Congress Party               | 161/B, Opp. Shivaji Garden, Swadeshi Mill Raod, Chunabhatti (E), Mumbai, Maharashtra – 400037.                          |
| 838. | Janvadi Party (Socialist)              | B-32/2, Behind Jain Mandir,Nariya, Varanasi, Uttar Pradesh.   |
| 839. | Jathiya Telugu Abhivrudhi Seva Samuham | # 171, Kesavaigunta, Near S.G.S. Arts College, Tirupati -517501, Chittor District, Andhra Pradesh.                      |
| 840. | Jawan Kisan Morcha                     | Qr. No. L.I.G.H.-1/7, Housing Colony, Dalpatpur (Chandva), Aara, Bihar-802312.  |
| 841. | Jay Hind Jay Bharat Party              | N – 106, HIG Flat, Sanjay Nagar,Sector – 23, Ghaziabad, Uttar Pradesh.  |
| 842. | Jebamani Janata                        | No.33, Second Street, East Abiramapuram, Mylapore, Chennai-600004, (Tamil Nadu).  |
| 843. | Jharkhand Anushilan Party              | Vill + Post – Jhilimili,P.S.– Barikul, Distt – Bankura,West Bengal – 722135.  |
| 844. | Jharkhand Disom Party                  | 12, Road No.21, Kadma Farm Area, Jamshedpur-831005, Jharkhand.  |



|      |                                   |  |
|------|-----------------------------------|--|
| 845. | Jharkhand Jan Kranti Morcha       | House No. 36, Dinkar Nagar,<br>P.O. – Hatia Railway Colony,<br>PS – Jagarnathpur, Ranchi, Jharkhand.                             |
| 846. | Jharkhand Jan Morcha              | IInd Floor, Ajmeri Tower, Mallah Toli,<br>Ranchi – 834001, Jharkhand.  |
| 847. | Jharkhand Janadhikar Manch        | Bhubaneshwari Lok, Kali Mandir Road,<br>Vardman Compound, Ranchi – 834 001<br>(Jharkhand)  |
| 848. | Jharkhand Janadhikar Party        | Opposite Holi Cross School, Lalpur Peace<br>Road, Ranchi – 834 001, Jharkhand.   |
| 849. | Jharkhand Ki Krantikari Party     | 23, Purvi Jail Road, Ranchi-1, (Jharkhand).  |
| 850. | Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan)  | Shukla Colony, Post Hinoo, Ranchi Distt,<br>Ranchi-834002 (Jharkhand).   |
| 851. | Jharkhand Party                   | Anand Suwani Niwas, Airport Road, Hinoo,<br>Ranchi Jharkhand-834002.   |
| 852. | Jharkhand Party (Naren)           | At-Raghunathpur, P.O. Jhargram,<br>District- Midnapur-721507 (West Bengal).  |
| 853. | Jharkhand People's Party          | P.O. Laubasa, Jamshedpur, P.S. Gobind Pur,<br>Distt. Singhbhum (East) (Jharkhand).   |
| 854. | Jharkhand Vananchal Congress      | 5, Ratu Road, Ranchi-834005, Jharkhand.  |
| 855. | Jharkhand Vikas Dal               | 273, Lake Avenue, Kanke Road, Ranchi,<br>Jharkhand.  |
| 856. | Justice Party                     | Village- Diktankhera, P.O- Harchandpur,<br>District- Raebareli, Uttar Pradesh-229303   |
| 857. | Jwala Dal                         | H. No. 247B, Mo. Jangal Tulsiram,<br>Post – Bichhia P.A.C. Camp,<br>P.S. – Shahpur, Distt. – Gorakhpur-273014,<br>Uttar Pradesh. |
| 858. | Kaivinayger Munnetra Kazhagam     | Sri Visweswara Bhavanam, 76, Millers Road,<br>Kilpauk, Chennai-600010. (Tamil Nadu).   |
| 859. | Kalinga Sena                      | 19A, Madhusudan Nagar, Unit-4,<br>Bhubaneswar-751 001, Khurda, Orissa.   |
| 860. | Kalyankari Jantantrik Party       | B 4/260A, Keshavpuram, New Delhi - 110035.   |
| 861. | Kalyanwadi Party                  | 16, Pandey Tola, Paintepur, Mahmudabad, Sitapur<br>Uttar Pradesh- 261203   |
| 862. | Kamarajar Adithanar Kazhakam      | 6-E, Sasthan Koil Street, Pudhukudieruppu,<br>Nagercoil-629001, Tamil Nadu.  |
| 863. | Kamarajar Deseeya Congress        | 7-Velayudha Raja Street, Raja<br>Annamalaipuram, Mandaveli, Chennai-600028<br>(Tamil Nadu).                                      |
| 864. | Kamatapur People's Party (United) | Village & Post- Bhandani, P.S- Dhupguri,<br>District- Jalpaiguri, West Bengal-735210   |
| 865. | Kamgar Samaj Dal                  | H. No.9/237, Mohalla : Raidopur,<br>Post & Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh.   |
| 866. | Kamatapur Progressive Party       | 'Chilla Roy Bhawan' Village - Bidhanpally,<br>P.O. Kadamtala, Distt. Darjeeling – 734433,<br>West Bengal.                        |
| 867. | Kannada Chalavali Vatal Paksha    | 154, Rangswamy Temple Street,<br>Bangalore-560053 (Karnataka).   |

|      |                                       |   |
|------|---------------------------------------|---|
| 868. | Kannada Naadu Party                   | 54, Ground Floor, Parasana Colony, Basaveshwar Nagar, Gokul Road, Hubli – 580030, Karnataka.  |
| 869. | Kannada Paksha                        | No. 259/1, 1st Floor, Ranghswamy Temple Street (Opp. to Jain Temple) Bangalore-560053 (Karnataka).  |
| 870. | Karma Party                           | Shop No. – 1, HUDA Market, Leisure Valley Park, Opposite Kingdom of Dreams, Sector – 29, Gurgaon, Haryana - 122002                          |
| 871. | Karnataka Kranthi Dal                 | No.240, 16th Main, 6th Cross, 1st Phase, 2nd Stage, BTM (EWS) Layout, Bangalore-560076(Karnataka).  |
| 872. | Karnataka Makkala Paksha              | H.O. No. 09, Block-4 JSS Employee's Layout, Sathagalli, Nazarabad Mohalla, Mysore, Karnataka-570011   |
| 873. | Karnataka Praja Vikas Party           | No. 15 Sampangiramaiah Layout, Sidedahalli, Yashwantpur Hobli, Nagasandra Post, Bengaluru North Taluk, Bengaluru District, Kanataka- 560073 |
| 874. | Karnataka Rajya Ryota Sangha          | 636, Ideal Homes Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-560098 (Karnataka).   |
| 875. | Karnataka Swarajya Party              | No. 2082, Chidambar Krupa, Sai Nagar, Raibag, Dist-Belgaum, Karnataka – 591317.   |
| 876. | Karnataka Thamizhar Munnetra Kazhagam | No.6, IInd Floor, Chick Bazar Road Cross, Shivaji Nagar, Bangalore-560051 (Karnataka).  |
| 877. | Karunaadu Party                       | Sa-13/2, No:7 <sup>th</sup> Mallathahalli, Nanjappa Garden, Bangalore-560056 Karnataka.   |
| 878. | Kashmir Development Front (J&K)       | House No. 254 – Main Road, Near Post Office, Jawahar Nagar, Srinagar, Jammu & Kashmir.  |
| 879. | Kerala Congress                       | 67, Kumaranasn Nagar, Kadavanthara, P.O. Ernakulam, Kerala.   |
| 880. | Kerala Congress (B)                   | P.T. Chacko Smarka, Mandiram, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala).  |
| 881. | Kerala Congress (Jacob)               | Ward XIII, Building 346, T.B. Road, Kottayam (Kerala).  |
| 882. | Kerala Congress (Skariah Thomas)      | Chingavanam in Building No. 711, Ward No.6, Kottayam Municipality, Kottayam, District- Kottayam, Kerala                                     |
| 883. | Kerala Congress Secular               | Kerala Congress Secular State Committee Office, Bharath Building, Pulimood Jn., Kottayam - 1, (Kerala).                                     |
| 884. | Kerala Janapaksham                    | PURA-36, Shyamala Nivas, Poojappura P.O., Thiruvananthapuram - 695012.  |



|      |   |  |
|------|---|--|
| 885. | Kerala Janatha Party                        | MulakulamPanchayath, Ward No. 12, Building No.2, Poozhikol P.O, Kaduthuruthy, Kerala- 686604                     |
| 886. | Kerala Vikas Congress                       | EP. III/468, Eruvessi Village, P.O- Chemperi, Taliparamba Taluk, Kannur District, Kerala.- 670632                |
| 887. | Khandesh Vikas Congress Party               | Building No.2, 15/16, First Floor, Khandesh Mill Shopping Complex, Jalgaon – 425 001.                            |
| 888. | Khun Hynnietrip National Awakening Movement | C/o Office of the Khasi Students Union, Jaiaw Chapel Road, Shillong-793 002 (Meghalaya).                         |
| 889. | Kisan Garib Nagrik Party                    | 203, Markaz View, 2nd Floor,24, Opposite Carrit Cinema,Jogeshwari (West), Mumbai-400103, MAHARASHTRA.            |
| 890. | Kisan Kranti Dal                            | Nangla Sukhdev, Neemkhera – Jalesar, Distt: Etah (Uttar Pradesh).  |
| 891. | Kisan Majdoor Berojgar Sangh                | Village-Jaitpur,Post-Phaphund, Oraia, Uttar Pradesh  |
| 892. | Kisan Majdoor Praja Party                   | A X - 223/224, Rajharsh Colony, Nayapura, Kolar Raod, Bhopal, Madhya Pradesh.                                    |
| 893. | Kisan Majdoor Suraksha Party                | House No. 45, Village- Kheria Hairat Khan, PO- Kulwath, Tehsil- Gabhana, District- Aligarh, Uttar Pradesh-202001 |
| 894. | Kisan Mazdoor Bahujan Party                 | J-1/2, Dali Bagh Colony, Lucknow (Uttar Pradesh).  |
| 895. | Kisan Party of India                        | Ward No. 01, Janakpur Road, Nageshwar Sthan, P.S- Pupri, District- Sitamarhi, Bihar -843320.                     |
| 896. | Kisan Samaj Morcha                          | Bichola Bhood, Post – Patriya, Tahsil – Gunnaur, Badayun, Uttar Pradesh.   |
| 897. | Kisan Samaj Party (S)                       | Jhinnapurva, Post – Dhakherva Nankar, Tehsil – Nighasan,Distt. – Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.               |
| 898. | Kisan Sena                                  | Koliyan Vishungarh Road, Chhibramau,Kannouj,UTTAR PRADESH.   |
| 899. | Kisan Shakti Jantantrik Party               | H.No. 12/445, Majhola Awas Vikas, Tehsil-Sadar, Distt.- Muradabad, Uttar Pradesh.                                |
| 900. | Kisan Vyawasayee Mazdoor Party              | Prakash Bhavan, Narhi Bazar, Lucknow (Uttar Pradesh).  |
| 901. | Kishore Raj Party                           | L-2/601, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 902. | Kongu Desa Marumalarchi Makkal Katchi       | 301/14, Alagarasan Nagar, Pachampalayam, Anthiyur, Erode, Tamil Nadu – 638501.                                   |
| 903. | Kongu Nadu Munnetra Kazhagam                | 320, Best Complex, Kumaran Road, Tirupur-641601, Coimbatore (District), Tamil Nadu.                              |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 904. | Kongunadu Jananayaga Katchi            | “Irai Arul” No. 24, Metha Layout, Laxmipuram, Peelamedu (PO), Coimbatore, Tamil Nadu – 641004.                      |
| 905. | Kongunadu Makkal Desia Katchi          | No. 5/54, East Street, Post - Kokkarayan Pettai, Taluk - Tiruchengode, District - Namakkal, Tamil Nadu-638007       |
| 906. | Kosal Kranti Dal                       | Telephone Exchange Road, Rugudi Para, Balengir – 767 001, Orissa.   |
| 907. | Kosal Party                            | G.M. College Road, Sambhalpur-768004 (Orissa).  |
| 908. | Koshal Mukti Morcha                    | Railway Station Road, Titilagarh, District-Bolangir, Odisha.  |
| 909. | Kosi Vikas Party                       | Machhli Bhawan, Dr. Ambedkar Marg, At.+P.O. & Distt. Khagaria, Bihar – 851204.                                      |
| 910. | Kranti Dal                             | 132, Babuganj, Lucknow (U.P.).  |
| 911. | Kranti Kari Jai Hind Sena              | C/o Advocate R.N. Kachave, Near Devi Prasad Hotel, M.I.D.C., Central Road, Andheri (E), Mumbai-400093, Maharashtra. |
| 912. | Kranti Parishad                        | House No.2019, Mistrikhan Road, Nahargarh Road, Jaipur (Rajasthan).   |
| 913. | Krantikari Kisan Sena                  | C-221, Old Meenal Residency, Raj Homes, J.K. Road, Bhopal-462023, Madhya Pradesh.                                   |
| 914. | Krantikari Samyavadi Party             | MLA Flat No.26, Veerchand Patel Path, Patna. (Bihar).   |
| 915. | Krantikari Vikas Dal                   | 78/09C, Mohalla- Birsa Adivasi Colony, Post- Guljarbagh, P.S.-Alamganj, Distt.- Patna-800007, Bihar.                |
| 916. | Krantikari Yuva Party                  | H.No. 318, Old Rohtak Road, Gujjar Gujjar Gali, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi- 110035.                           |
| 917. | Krantisena Maharashtra                 | 5-A, Jyotisadan Shitladevi, Temple Road, Mahim, Mumbai, Maharashtra.  |
| 918. | Kuki National Assembly                 | Grace Cottage, Paiteveng, Kwakelthel, P.O. Imphal, Pin-795001, (Manipur).   |
| 918. | Labour And Job Seeker's Party Of India | 66, Royapettah High Road, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).  |
| 920. | Labour Party (Secular)                 | 382/4, Gali Hardev, Sant Nirankari Colony, Delhi-110009.  |
| 921. | Labour Party Of India(V.V. Prasad)     | B – 5, Kanti Nagar, Delhi –110051.  |
| 922. | Labour Samaj Party                     | Chamber No. 91, Civil Court, Rajnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.  |
| 923. | Laghujan Samaj Vikas Party             | Badapura, Lalitpur, Uttar Pradesh.  |
| 924. | Lakshya Ghar Ganatantrik Party         | Puruni Basti, Chowkidarpada, P.O.- K.M.Road, Jharsuguda-2, Dist. – Jharsuguda, Odisha                               |
| 925. | Lal Morcha                             | RZC-113, Vishnu Garden, Khayala, New Delhi – 110018   |

|      |                               |  |
|------|-------------------------------|--|
| 926. | Lattin Congress               | Bavali, Post-Khash, Distt. Meerut-250621 (Uttar Pradesh).  |
| 927. | Lenin Communist Party         | 20, Bharathinagar, Alagappapuram, Karaikudi – 630003, Tamil Nadu.  |
| 928. | Liberal Democratic Party      | Village – Santipur (Mirza), Post Office – Mirza, Police Station – Palashbari, District – Kamrup, Assam - 781125.   |
| 929. | Lok Chetna Dal                | Village - Pakari Jalal, P.O. – Shubhankarpur, District – Muzaffarpur, Bihar – 843113.  |
| 930. | Lok Awaz Dal                  | Holding No. 20/11, Circle No. 264, Ambedkar Chowk, Vishnu Puri, Patna-800002, Bihar.   |
| 931. | Lok Bhalai Party              | 5-FF, Raj Guru Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab.  |
| 932. | Lok Bharati                   | A/702, Vedant Unnat Nagar No. 2, Goregaon (W) Mumbai- 400062.  |
| 933. | Lok Dal                       | Central Office, 8, Mall Avenue, Lucknow (Uttar Pradesh).   |
| 934. | Lok Ekta Party                | S-8/188, Sudhakar Road, Khazuri Cant., Varanasi – 221 002, Uttar Pradesh.  |
| 935. | Lok Gathbandhan Party         | NO. B – 16-A, Basement of Alisha Apartment (Utraula House, 27/6, Ram Mohan Rai Marg) Madan Mohan Marg, Near Krishi Bhawan, 3 Way Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001 |
| 936. | Lok Hit Rashtriya Vikas Party | Grain Market, Longowal, District – Sangrur, Punjab.  |
| 937. | Lok Jan Sangharsh Party       | Village- Jamunaha, Post- Sounkhia, Vikas Khand Bankeganj, District- Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh- 262802   |
| 938. | Lok Jan Vikas Morcha          | Kachahri Road, Thana-Kotwali, PO. Ranchi, Zila-Ranchi-834001, Jharkhand.   |
| 939. | Lok Janhit Party              | Village – Daloopur Sultanpur, Post – Prempur, Janpad – Kannauj, Uttar Pradesh.   |
| 940. | Lok Manavadhikar Party        | C. 32/27-16A, Vidyavihar Colony, Chhittipur, Varanasi-221002, Uttar Pradesh.   |
| 941. | Lok Paritran                  | "Saubhagya" 12-13 Tilak Nagar -II, Mahamandir, Jodhpur-342010 (Rajasthan).   |
| 942. | Lok Parivartan Party (DC)     | Bhapra Road, opposite Police Chowki, G.T. Road, Samalkha District-Panipat, Haryana.  |
| 943. | Lok Raksha Party              | Village & Post Office Sirsa, District – Etawah, Uttar Pradesh.   |
| 944. | Lok Satta Party               | Flat No.801, Srinivasa Towers, Beside ITC Kakatiya Hotel, Begumpet, Hyderabad-500016, Telangana'.  |
| 945. | Lok Sewa Dal                  | Post: Badhiya, Tehsil: Lakhi Sarai, Bihar-811 302.   |

|      |                                   |  |
|------|-----------------------------------|--|
| 946. | Lok Shahi Party (Secular)         | 187-H, 6/2, Jivan Nagar, Near Ashram Chowk, Opposite Maharani Bagh Bus Stand, New Delhi-110014.        |
| 947. | Lok Shakti                        | 83, Lodhi Eastate, New Delhi-110003.   |
| 948. | Lok Vikas Party                   | 41, Vigyan Vihar, Delhi-110092.  |
| 949. | Loknaya Party                     | 172/3 C, East Moti Bagh, Sarai Rohilla, Delhi-110 007.   |
| 950. | Loko Sanmilon                     | P.O.-Jaleswar, Distt.-Goalpara, Assam.   |
| 951. | Lokpriya Samaj Party              | Prajapati Dharmshala Mandir Shri Kalkaji, Nehru Place, New Delhi-110019.                               |
| 952. | Loksangram                        | H.No. 1321, Lane No.4, Dhule - 424001, Maharashtra.  |
| 953. | Loksena                           | 63/H/S, Madan Mohan, Burman Street, Kolkatta-700007, West Bengal.                                      |
| 954. | Lokshasan Andolan Party           | 259, Village Guha, Tal. Rahuri, District - Ahmednagar, Maharashtra - 413705.                           |
| 955. | Lokshasan Party of India          | S.No. 67, Plot No. 25, Pratik Building, Flat No. 3, Vidyanagar, Pune -411032, MAHARASHTRA.             |
| 956. | Loktantra Congress Party          | E-1, 21/7, New Rajendra Nagar, P.O. Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.                                    |
| 957. | Loktantrik Chetna Party           | Mumtaj Manjil, Azad Nagar, Baanda. (Uttar Pradesh).  |
| 958. | Loktantrik Janata Party (Secular) | Main Road, Firozpur, Post Office-Aander, Distt.- Siwan, Bihar-841231.                                  |
| 959. | Loktantrik Manavatavadi Party     | Shop No. 5, SD 366, Shastri Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.   |
| 960. | Loktantrik Rashtravadi Party      | E-2, Old Society, Near Saijpur Railway Station, Saijpur Bogha, Ahmedabad, Gujrat-382245.               |
| 961. | Loktantrik Samajwadi Party        | 27-A, D.D.A.Flats, Mata Sundri Road, New Delhi-110002.   |
| 962. | Loktantrik Samata Dal             | D-104, Daroga Prasad Rai Path, Patna-800 001. (Bihar).   |
| 963. | Loktantrik Sarkar Party           | C/o P.K. Kharia, Advocate, Shatabdi Chember No. 1, District Court, Mandla - 481 661, Madhya Pradesh.   |
| 964. | Loktantrik Sarvjan Samaj Party    | B-103, Sapna Apartment, Ramnagari, Ashiyana Nagar, Patna-800025, Bihar.                                |
| 965. | Loktrantrik Janata Front          | E-13/307, Press Complex, Jawahar Park, Vikash Marg, Laxmi Nagar, Delhi - 110092                        |
| 966. | Maa Telangana Party               | 8-2-540/4, Road No.4, Banjara Hills, Hyderabad, (Andhra Pradesh).                                      |
| 967. | Maanavvaadi Janta Party           | Village- Dogi, Post Office- Gorour, P.S. - Chhabilapur, Via - Rajgir, District- Nalanda, Bihar-803116. |
| 968. | Maanila Konghu Peravai            | No.41, Narayanaguru Road, Saibaba Colony, Coimbatore-641011, Tamil Nadu.                               |

|      |                                      |   |
|------|--------------------------------------|---|
| 969. | Madhya Pradesh Nav Nirman Sena       | 2983, Prince Colony, New Kanchanpur, Adhartal, Jabalpur-482004. Madhya Pradesh.                               |
| 970. | Maha Loktantra Party                 | Shop No. 4, Basant Ganga Market, H. No. 762/ 648, Purana Katra, Allahabad – 211002, UP.                       |
| 971. | Mahabharath Mahajan Sabha            | Plot No, 10, Vivekananda Nagar, Inner Ring Road, Kolathur, Chennai-600099 (Tamil Nadu).                       |
| 972. | Mahagujarat Janta Party              | A-203, Satyamev-1, S.G. Road, Opp. High Court, Ahmedabad, Gujarat.  |
| 973. | Mahajana Mandali Party               | H. No. 1-8-27/20, GHMC-1483, Street No. 12, Chikkadpally, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500020.                 |
| 974. | Mahajana Socialist Party             | Door No. 1-14-297/1, Balamrai, Rasoolpura, Secunderabad, Hyderabad, Andhra Pradesh                            |
| 975. | Mahakaushal Vikas Party              | ‘Shanti Kutir’ 281, Sanjivani Nagar, Jabalpur (M.P.).   |
| 976. | Mahakranti Dal                       | Village-83 Awahadpur, Post- Koilari, Tehsil and Paragna- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222148.   |
| 977. | Mahamukti Dal                        | Village Usarav, Post Office – Itayen, Tehsil – Mariahu, District - Jaunpur, Uttar Pradesh.                    |
| 978. | Mahan Dal                            | A-218 D, Dhiraj Nagar Extn., Atmadpur, Near Fauji Dhaba, Sector-30, Faridabad, Haryana.                       |
| 979. | Mahanayak Sardar Patel Sangh         | 52/98, IInd Floor, Chittaranjan Park, New Delhi-110019.   |
| 980. | Mahanwadi Party                      | Village & Post – Kutubpur Chanora, District – Firozabad, Uttar Pradesh.                                       |
| 981. | Maharana Kranti Party                | H. No. 698, Ward No. 14, Opposite Baba Ramdev Mandir, Purani Abadi, Sriganganagar, Rajasthan.                 |
| 982. | Maharashtra Parivartan Sena (T)      | Village – Mangvadgaon, Taluk – Kej, District – Beed, Maharashtra  |
| 983. | Maharashtra Vikas Aghadi             | Govindagraj Sadan, Shyam Nagar, Latur, Maharashtra.   |
| 984. | Mahatma Gandhi National Labour Party | 3/366 G, Kuthukal Street, Paramakudi, Ramanathapuram District, Tamilnadu - 623707                             |
| 985. | Mahila Adhikar Party                 | 29-A, Naharpur, Sector-7, Rohini, Delhi-110085.   |
| 986. | Mahila Pradhana Paksha               | 1261, 16 <sup>th</sup> Main, 20 <sup>th</sup> Cross, A Block, Sahakara Nagara, Bangalore - 560092, Karnataka. |
| 987. | Mahila Swabhiman Party               | Village–Gumati No. 5, Sarai Karora, Gosainganj, District – Lucknow, Uttar Pradesh - 227125.                   |
| 988. | Mai Hee Bharat                       | 2A, “Royal” Hastings Park Road, Kolkata, West Bengal.   |

|       |                                       |  |
|-------|---------------------------------------|--|
| 989.  | Maidani Kranti Dal                    | Headquarters Majid Wali Gali, Mazra, Dehradun, (Uttaranchal).  |
| 990.  | Majdoor Kisan Akali Dal               | Village – 75 GB, Post Office – 72 GB, Via Ramsinghpur, Tehsil – Anoopgarh, Distt. – Ganganagar, Rajasthan.   |
| 991.  | Majdoor Kisan Union Party             | 459/1, Moh. Sarvat (Basant Vihar), Post Office-Khas, Distt. & City-Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251 001.   |
| 992.  | Majlis Bachao Tahreek                 | 16-4-593/A, Chenehalguda, Hyderabad-500024 (Andhra Pradesh).   |
| 993.  | Majlis Markaz-e-Siyasee Party         | 10-5-391/54/182/A, Ground Floor, Kashan-e-Ghousia Aleem, Sayed Nagar, Opp: 95A, MLA's Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad – 500028, Andhra Pradesh .                    |
| 994.  | Makkal Congress Vazhapadiyar          | 18, Telugu Brahmin Street, Velacheri, Chennai-600 042, Tamil Nadu.   |
| 995.  | Makkal Desiya Jananayaka Katchi       | 245/6, R.K. Mutt Road, Mylapore, Chennai – 600004, Tamil Nadu.   |
| 996.  | Makkal Desiya Katchi                  | 137, Kakkan Colony, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600034   |
| 997.  | Makkal Kootamaipu Katchi              | No. 348A, Cape Road, Ettukadai Bazar, Near T.M.B. Bank, Edalakudy, Kottar Post, Vaiveeswaram Village, Agasteeswaram Taluk, Nagercoil, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629002. |
| 998.  | Makkal Manadu Katchi                  | 82/1, 5th Street, Padmanabha Nagar, Adyar, Chennai – 600020, Tamil Nadu.   |
| 999.  | Makkal Marumalarchi Munnetra Kazhagam | No. 13A, 1 <sup>st</sup> Floor, Thiyagarajan Nagar, Kodungaiyur, Chennai - 600118, Tamil Nadu.   |
| 1000. | Makkal Sakthi Katchi                  | New No. 41, Old No. 15, Bazaar Lane, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai –600015, Tamil Nadu.   |
| 1001. | Makkal Sananayaga Kudiyaarasu Katchi  | No.3/123, Gengai Amman Kovil Street, South Malayambakkam Village, Kunrathur, Chennai, Tamil Nadu – 600069.   |
| 1002. | Makkalatchi Katchi                    | No. 57, Jagajeevanram Street, Parumbu Alwarkurichi, Ambasamuthiram Taluk, Thirunelveli District, Tamil Nadu- 627412.   |
| 1003  | Mana Party                            | 5-4-719, Kattelamandi, Nampally, Hyderabad-500 001, Andhra Pradesh.  |
| 1004  | Manav Adhikar Raksha Party            | 36 Daryasthan Street, Ground Floor, Office No.3, Katawala Bldg. (Gopmani Chambers), Mumbai, Maharashtra – 400003.  |
| 1005  | Manav Ekta Party                      | Dadusingh Colony, Plot No. 53, Sirpur, District – Dhule, MAHARASTRA.   |



|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1006. | Manav Hit Party                              | 575/1, Sector-24, Tubewell Colony, Agra Road,<br>Etah, Uttar Pradesh- 207001   |
| 1007  | Manav Jagriti Manch                          | 552, Bank Colony, Devli Village,<br>New Delhi – 110062.  |
| 1008. | Manav Kalyan Manch                           | Sa. 6/186, M.X. – 1. Aktha, Varanasi,<br>Uttar Pradesh.  |
| 1009. | Manav Kranti Party                           | New Sarrafa Bazar, Nagar Panchayat Khaga,<br>Ward No. 11, District- Fatehpur,<br>Uttar Pradesh- 212655                                     |
| 1010. | Manav Mukti Morcha                           | Hameedganj Ward No. – 13,<br>Ahead the Patthar Mill,<br>PO. Medini Nagar – 822 101,<br>Distt. Palamu (Jharkhand).                          |
| 1011. | Manav Samaj Party                            | 9538, Gausala Baradari, Kishanganj,<br>Delhi-110006.   |
| 1012. | Manava Party                                 | G-23, Eureka Towers, Kittur, Chennamma<br>Circle, Hubli-580029 (Karnataka).  |
| 1013. | Manavadhikar Janshakti Party                 | J-6/7-B-D, Near Police Station, Jaitpura,<br>Varanasi, Uttar Pradesh-221001  |
| 1014. | Manavtawadi Kranti Dal                       | Manav Bhawan, Kullikhera, Ahmamau,<br>Post – Arjunganj, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 1015. | Manavtawadi Samaj Party                      | 638/307, Village – Jarahra, Indira Nagar,<br>Lucknow - 05, Uttar Pradesh.  |
| 1016. | Manipur Democratic People's Front            | Lairik Yengbam Leikai (South),<br>Opposite-33KV Electric Sub-Station,<br>Near K.M. Tower, Tirupati Lane,<br>Imphal East – 795010, Manipur. |
| 1017. | Manipur National Democratic Front            | Koijam Apartment, VIP Colony-107/109,<br>Babupara, Imphal West, Manipur- 795001  |
| 1018. | Manipur People's Party                       | People's Road, Imphal 795001 (Manipur)   |
| 1019. | Manipur People's Party<br>(Democratic)       | Qtr. No.1, Type-IV, Babupara, Imphal-795001<br>(Manipur).  |
| 1020. | Manitha Urimaigal Kalaagam                   | 14/41, Goods Shed Street, Madurai-625001<br>Tamil Nadu.  |
| 1021. | Manithaneya Makkal Katchi                    | 3rd Floor, No. 6, Vada Maraicoir Street,<br>Chennai- 600001, Tamil Nadu.   |
| 1022. | Manuvadi Party                               | 201, Birhana Pandeyganj, Subhash Marg,<br>Lucnow-226004, Uttar Pradesh.  |
| 1023. | Manvadhikar National Party                   | 12, 2nd Floor, Swagat Complex,<br>Rambaug Road. Maninagar, Ahmedabad,<br>Gujarat- 382443   |
| 1024. | Maraland Democratic Front                    | Saiha-796901, Chhimtuipui District<br>(Mizoram).   |
| 1025. | Marumalarchi Dravida Munnetra<br>Kazhagam    | 'THAYAGAM' No. 141,<br>Rukmani Lakshmi Pathi Salai, Egmore,<br>Chennai-600008 (Tamil Nadu).  |
| 1026. | Marxist Communist Party of India<br>(United) | Saidpur, Patna-800004 (Bihar).   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1027. | Marxist Co-ordination                                 | 115 MLA Flat, Bir Chand Patel Path, Patna-800004 (Bihar).                                    |
| 1028. | Marxwadi Janata Party                                 | 33, Kundan Pura, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh - 251002.                                      |
| 1029. | Maryadi Dal   | Gram Chhoukarwada, Tehsil – Vair, District – Bharatpur, Rajasthan.                           |
| 1030. | Matra Bhakta Party                                    | Raghunath Farm, Village + Post – Kundli, Sonapat, Haryana.                                   |
| 1031. | Matra Bhoomi Vikas Party                              | C/o Shri Kashi Nath Tripathi, Aspathal Road Mau Chibee, Bandha-210209 (Uttar Pradesh).       |
| 1032. | Mazdoor Dalit Kisaan Mahila Gareeb Party (Hindustani) | Garhi Ashraf Khan, Jasmai Road, Farrukhabad, Uttar Pradesh                                   |
| 1033. | Mazdoor Vikash Dal                                    | At-Qtr. No. Plot-E/124, Phase- I, Chhend, Rourkela, Dist- Sundargarh, Odisha-769015          |
| 1034. | Meenavar Makkal Munnani                               | No. 51, Old No. 24, Thambu Lane, Royapuram, Chennai, Tamilnadu -600013.                      |
| 1035. | Megh Desham Party                                     | Meghvansh Bhawan, E-70B, Bajrang Vihar Tirtiya, Harmada Ghati, Jaipur, Rajasthan.            |
| 1036. | Meghalaya Democratic Party                            | Mission Compound, Mawkhar, Shillong-793001, Meghalaya.                                       |
| 1037. | Mera Gaon Mera Desh Party                             | H. No. 142, Village – Islampur, P.O. – South City – II, Gurgaon, Haryana - 122018            |
| 1038. | Meydhaa Party   | 13E/10A, Rajeev Nagar (Suturkhana), P.O. Teliarganj, District-Allahabad, Uttar Pradesh.      |
| 1039. | MGR Thonderkal Katchi                                 | No.18/33A, Vattavilai, Kappiyarai Post, Kanyakumari District- 629156, Tamil Nadu.            |
| 1040. | Mihir Sena  | Nagar's Choice, S-47, South Side, G.T. Road, Lal Kuan, Ghaziabad, Uttar Pradesh.             |
| 1041. | Minorities Democratic Party                           | 13, Hydry Road Complex, Mominpura, Nagpur-440018, (Maharashtra).                             |
| 1042. | Mithilanchal Vikas Morcha                             | Mahuar, Gaura Bauram, Post – Aasi, District - Darbhanga, Bihar – 847203.                     |
| 1043. | Mithilanchal Mukti Morcha                             | Supoul Bazaar, College Road, Vandevi Nagar, Biroul, Darbhanga, Bihar – 847203.               |
| 1044. | Mizoram Congress Party                                | Headquarters: Aizawal, Mizoram – 796 001.  |
| 1045. | Moderate Party  | Village – Khakhari (Maghara Chauraha P.O. Balepur Kalan, District – Devariya, Uttar Pradesh. |
| 1046. | Momin Conference                                      | 47/26, Waris Plaza, Hussain Ganj, Vidhan Sabha Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.          |



|       |                                  |  |
|-------|----------------------------------|--|
| 1047. | Mool Bharati (S) Party           | House No. 25, Near Khooni Masit Moga Mehla Singh Moga- 142001 Distt. Faridkot (Punjab).                            |
| 1048. | Moolniwasi Samaj Party           | Village – Maghaipur, Post – Maharajganj, Janpad – Ajamgarh – 276137, Uttar Pradesh.                                |
| 1049. | Most Backward Classes of India   | Paraspur-Kudwar, Sultanpur-228155, Uttar Pradesh.  |
| 1050. | Moulik Adhikar Party             | Biroli-Motinagar, Faizabad, Uttar Pradesh-224201.  |
| 1051. | Mulnibasi Party of India         | Village and Post- Basantpur, District- Murshidabad, SD and PS- Dumkal, West Bengal-742406                          |
| 1052. | Musalsal Iman Samaj Party        | 261, Chakki Wali Gali, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad, Uttar Pradesh.  |
| 1053. | Muslim Majlis Uttar Pradesh      | Sultan Manzil, Takia Peer Jaleel, Lucknow (Uttar Pradesh).   |
| 1054. | Naam Tamilar Katchi              | Door No. 7, Plot No. 8, Hospital Road, Senthil Nagar, Cinna Porur, Chennai – 600 116, Tamil Nadu .                 |
| 1055. | Naga National Party              | Hd.Qtrs. Aja Daily Office, Church Road, Dewlahland, Imphal, Manipur.   |
| 1056. | Nagrik Adhikar Shakti Sewa Party | A-63, JantaJeevan Camp, Tigri, Khanpur, New Delhi- 110062  |
| 1057. | Nagrik Chetna Party              | Sarvodaya Nagar, Teachers Colony, Pilakhua, Ghaziabad, Uttar Pradesh.  |
| 1058. | Nagrik Ekta Party                | 19/1168, Indira Nagar, Lucknow, UTTAR PRADESH.   |
| 1059. | Naitik Party                     | 314, City Center, Near Press Club, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 1060. | Naki Bharatiya Ekta Party,       | Ward No. 1, Mohalla- Harijan Wala, Kithore, Meerut, UTTAR PRADESH  |
| 1061. | Nalvazhikkazhagam                | Kathiravan Illam, 94/2, Kalavai Chetty Street, Chintadripet, Chennai, Tamil Nadu – 600002.                         |
| 1062. | Namadhu Dravida Iyakkam          | SCC Anthony Pillai Illam, New No.41, Old No.18, 7th Cross Street, Shenoy Nagar West, Chennai – 600030, Tamil Nadu. |
| 1063. | Namadhu Makkal Katchi            | No.3, Pillayar Kail Street, Kasba, Vellore-632001, Tamil Nadu.   |
| 1064. | Namathu Kongu Munnetra Kalagam   | 5F Sanjith Plaza, Thiru.V.Ka. Street, Tirupur Road, Kangayam, Tirupur District, Tamil Nadu - 638701                |
| 1065. | Narayani Sena                    | Niwas-Gram, Post-Malipur, Zila-Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh.  |
| 1066. | Nasha Mukht Bharat Party         | Tejaswi House, VivekVihar Colony, Farrukhabad Road, New Mandi, Etawah, Uttar Pradesh- 206001                       |
| 1067. | National Adhikar Insaf Party     | House No. – 230, Street No. – 7, S.A.S. Nagar, Abohar Road, Sri Muktsar Sahib, Punjab                              |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1068. | National Aman Party                                    | Moh. Punjabiyan, Nagina, District – Bijnor, Uttar Pradesh – 246762  |
| 1069. | National Apni Party                                    | D-1, 242/9, Main Circular Road, Sonia Vihar, Delhi-110094.  |
| 1070. | National Backward (Mool), Dalit, Minorities Kranti Dal | 1st E-17, Jai Narayan Vyas Colony, Bikaner, Rajasthan – 334003.   |
| 1071. | National Bhrashtachar Mukht Party                      | 576/2, Punjabiyan-5, Khurja, Bulandshahr, Uttar Pradesh-203131  |
| 1072. | National Black Panther Party                           | Shop No. 1, Hill Park, Tirupati Apt., Kokanipada, Kurar Village, Mumbai, Maharashtra - 400097.                          |
| 1073. | National Confederacy of India                          | 63, Southern Avenue, Flat No. – 9, Kolkata, West Bengal – 700029.   |
| 1074. | National Democratic Party                              | Central Office-Changanacherry-2, Kottayam District (Kerala).  |
| 1075. | National Democratic Party (Secular)                    | TC. 28/1628, Pullamadom Compound, Sreekandeswaram, Thiruvananthapuram, Kerala- 695023                                   |
| 1076. | National Democratic Peoples Front                      | C-4D, 42 B, Janakpuri, New Delhi.   |
| 1077. | National Development Party                             | House No. A-8-2, Multani Colony, Bidar – 585 401, Karnataka.  |
| 1078. | National Federal Party                                 | House No. 80/3A, Ground Floor, Basant Village (Basant Gaon), Vasant Vihar, New Delhi – 110057.                          |
| 1079. | National Future Party                                  | Deoria House, Behind GPO, Purani Mandi, Ajmer, Rajasthan.   |
| 1080. | National Jagaran Party                                 | H.O.-14, Montessory School lane, Near Maruti Auto Mobiles, Boring Road, Patna, Bihar - 800001.                          |
| 1081. | National Janhit Congress (AB)                          | 043A/5 Piarey Lal Building, Near Government College, Mehrauli Road, Gurgaon, Haryana.                                   |
| 1082. | National Jankranti Dal                                 | K-316, Near Bus Terminal, Opposite Qutub Minar, M.B. Road, Lado Sarai, New Delhi – 110030.                              |
| 1083. | National Jansatta Party                                | Tejaji Chenchya Wali Dhani, Post – Khori, Tehsil – Shahpura, District – Jaipur-303103 Rajasthan.                        |
| 1084. | National Janta Party (Indian)                          | Plot No. 385, Khata No. 105, Village – Mohammadpur Hari, P.O. & P.S. – Bhagwanpur, District – Vaishali, Bihar – 844114. |
| 1085. | National Lokhind Party                                 | C-1375, Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.   |
| 1086. | National Lokmat Party                                  | Village - Jisauri, Post - Mundali, District - Meerut, Uttar Pradesh   |
| 1087. | National Loktantrik Party                              | 46, Gulista Colony, Lucknow-226001 (Uttar Pradesh).   |

|       |                                       |  |
|-------|---------------------------------------|--|
| 1088. | National Organisation Congress        | No.1, Jeevananandam, Salia, K.K.Nagar, Chennai-600078(Tamil Nadu).   |
| 1089. | National Party                        | Rudain Badayun-202 524 (Uttar Pradesh).  |
| 1090. | National Peace Party Secular          | Village – Rasoolpur Biur, Post-Awadhan, Tehsil – Chaayal, District – Kaushambi, Uttar Pradesh - 212218.  |
| 1091. | National People's Congress            | H.No. 3-6-200, Flat No. 105, Arunodaya Apartment, Street No.15, Himayatanagar, Hyderabad- 500029, Andhra Pradesh                                       |
| 1092. | National Progressive Party            | Plot No. 157, Block-B-3, Sultan Puri Colony, New Delhi-110086 .  |
| 1093. | National Republican Congress          | Holding No. 223, House No. 6, Ward No. 26, Located at Pragati Path, Near Rajdhani Masjid, Dispur, Guwahati, Assam -781006.                             |
| 1094. | National Sarvasamaj Party             | H. No. 66,Khasra No. 1995, Iqbal Colony, Near of Sana Masjid, Village – Pasaunda, Pargna – Loni, Tehsil & District – Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001 |
| 1095. | National Secular Conference           | MISFA, Koduvally (P.O.), Kozhikode DT., Kerala - 673572.   |
| 1096. | National Secular Party                | C-20/B, 1st Floor, Green Park Extention, New Delhi-110 016.  |
| 1097. | National Students Party               | 16/2, Karaneeshwarar Pagoda Street, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).   |
| 1098. | National Target Party                 | No. 158/A, Tehkhand, Okhla Phase-I, New Delhi- 110020.   |
| 1099. | National Tiger Party                  | Central Head Office- Sarojnagar, Post office- Kalgiganj, Vai/Thana- Kahalgaon, District- Bhagalpur- Bihar- 813203.                                     |
| 1100. | National Unionist Zamindara Party     | 129, New Dhaan Mandi, Sriganganagar, Rajasthan-335001.   |
| 1101. | National Vikas Party (India)          | B-40/A-11, Ganapati, Paradise Central Spine, Vidhya Dhar Nagar,Jaipur-302023,Rajasthan.  |
| 1102. | National Welfare Party                | 16, Nehruji Nagar, Karupparayan, Koil Street, Samundipuram South, Tripur - 641603, Tamil Nadu  |
| 1103. | National World Life Panchatatva Party | Patidar Colony, Bhelkheri Road, Shujalpur Mandi, District – Shajapur, Madhya Pradesh   |
| 1104. | National Youth Party                  | Flat No. A-202, Yuro Apartment, Sector – 5, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh   |
| 1105. | Nationalist Charity Congress          | Bishop House, Gabriel Compound, Panavilai Thuckaley-629175, Kanniyakumari District, Tamil Nadu.  |
| 1106. | Nationalist People's Front            | S-8, Divya Mall, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur (Rajasthan)  |
| 1107. | Nationalist Trinamul Congress Party   | 19/7/130-A, Thanapara Road, P.O. – Dinhata, District – Coochbehar, West Bengal.  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1108. | Nationalistic Telangana Rashtra Samithi | 23-6-431/1, Gowlipura, Hyderabad – 500265, Andhra Pradesh.   |
| 1109. | Nav Bharat Democratic Party             | Chherawal and Associates, F6/35, United Apartments, East Street, Pune- 411001, (Maharashtra).                              |
| 1110. | Nav Jankranti Party                     | B – 11/42, Ahata Rohila, Gauriganj, Varanasi, Uttar Pradesh – 221001   |
| 1111. | Nav Yuvak Dal                           | Village - Tikra, Post – Ghunghter, Tehsil – Fatehpur, District - Barabanki, Uttar Pradesh – 225302                         |
| 1112. | Nava Bharat National Party              | Survey No.627, Bhairava Gutta, Ravalkole Village, Medchal Mandal, Ranga Reddy District. Andhra Pradesh.                    |
| 1113. | Nava Nirmana Nagarika Samithi           | 6/7/8, Shankarmutt Road, Basavanagudi, Bangalore-560004 (Karnataka).   |
| 1114. | Nava Praja Rajyam Party                 | Old H.No.10-30, New H.No.11-54, Harijanawada(P&M) Utnoor, District - Adilabad, Andhra Pradesh -504311                      |
| 1115. | Nava Telangana Party                    | House No. 8-2-598/B, Road No.8, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034.  |
| 1116. | Navataram Party                         | D.No. 26-37, Subbaiah Thota, Chilakaluripet, District – Guntur, Andhra Pradesh - 522616                                    |
| 1117. | Navbahujan Samajparivartan Party        | 185, Sahyadrinagar, G – Ward, AT/Post – Lonavla, Tehsil – Maval, District – Pune, Maharashtra – 410401.                    |
| 1118. | Navbharat Ekta Dal                      | Dhiman Bhawan, Nagrota Surian, Tehsil- Jawali, District- Kangra, Himachal Pradesh- 176027                                  |
| 1119. | Navbharat Nirman Party                  | 30, DSIDC Complex, Mata Sundri Road, New Delhi-110 002.  |
| 1120. | Navin Bharat Nirman Manch               | Pipalawali Khadki, At. & Po. Kasor- 388205, Ta. & District Anand, Gujarat.   |
| 1021  | Navjawan Sangharsh Morcha               | D/711, Township, Bhavnathpur, Garhwa, Jharkhand-822112.  |
| 1122. | Navodayam Party                         | D.No. 4-96/2, Near Rama Mandir, Nallakavari Street, Etukuru Village, Guntur Rural Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh. |
| 1123. | Navyug Party                            | 1-Ground Floor, Begumpur, Malviya Nagar, New Delhi – 110017.   |
| 1124. | Naya Daur Party                         | A-406, Defence Colony, New Delhi-110024.   |
| 1125. | Nehru Janhit Congress                   | Sainipura Mohalla, Badshahpur, Tehsil & Distt. – Gurgaon, Haryana.   |
| 1126. | Nelopa (United)                         | B.D.O. Building, Durga Devi Marg, Sheesh Mehal, Hussienabad Chowk, Lucknow (Uttar Pradesh).                                |
| 1127. | Netaji Adarsh Party                     | 298, Kuttiyani, 28 – Thodupuzha, Idukki District, Kerala – 685584.   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1128. | Netaji Subhash Chander Bose<br>Rashtriya Azad Party | Mohalla – Gayatri Nagar,<br>City & Post – Banda, Distt. – Shahjahanpur<br>Uttar Pradesh – 242402.                                |
| 1129. | Netaji Subhash Party                                | Shajanwa, Distt. Gorakhpur (Uttar Pradesh).  |
| 1130. | New All India Congress Party                        | A-138, Main Vikas Marg, Shakarpur,<br>Delhi – 110092.  |
| 1131. | New Democratic Party of India                       | 2nd Floor, 9A/83, W.E.A., Karol Bagh,<br>NEW DELHI-110005.   |
| 1132. | New India Party                                     | H. No. 20-3-314,<br>Vidyanagar Godavarikhani,-505209,<br>Distt. Karimnagar(Andhra Pradesh).                                      |
| 1133. | New Life People's Party                             | No.15/16, 'Judie Flats', No. 13,<br>Rosary Church Road, Santhome,<br>Chennai-600004, Tamil Nadu.                                 |
| 1134. | New Rashtriya Samaj Party                           | H.No. 167/2/5/F/4, 1st Floor,<br>Bramhanand Nagar, Tadali Road,<br>Kamatghar, Bhiwandi, District- Thane,<br>Maharashtra – 421305 |
| 1135. | New Socialist Movement                              | 104, Maharana Pratap Complex Opp.<br>Ellisbridge, P.O. – Ellisbridge,<br>Ahmedabad – 380 006. Gujarat.                           |
| 1136. | News Congress                                       | Baimahal, 2nd Floor, Wadia Street, Tardeo,<br>Mumbai – 400 034, Maharashtra.   |
| 1137. | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam<br>Dal             | House No. 105T,<br>Mohalla- Jungle Salik Ram,<br>Bypass Road, Sangram Chowk,<br>Padri Bazar, Gorakhpur,<br>Uttar Pradesh -273014 |
| 1138. | Nirdhan Samaj Party of India                        | 11A, Rajiv Vihar, Near Bandi Baba Mandir,<br>Machhariya, Naubasta, Kanpur Nagar,<br>Uttar Pradesh – 208011                       |
| 1139. | Nirjatita Samaj Biplabi Party                       | Village –Durgapur P.O. Haritala (Bagula),<br>Distt. Nadia, West Bengal, Pin 741502   |
| 1140. | Nirmal India Party                                  | SA 6/8 H-15, Satsang Nagar, Benipur,<br>Pahadia, Varanasi-221007, Uttar Pradesh.   |
| 1141. | Niswarth Sewa Party                                 | Ved Ayurvedic Store, Near Bus Stand,<br>Mahendregarh, Haryana.   |
| 1142. | Noorie Party  | 102, Kadodra – Bardoli Road, Surat, Gujarat.   |
| 1143. | North East India Development<br>Party               | Sagolband Tera Loukrakpam Leikai,<br>Imphal West, Manipur-795001   |
| 1144. | North East Social Democratic Party                  | Mawlai Mawdatbaki, Dong Nongpathaw,<br>Shillong-793008, East Khasi Hills District,<br>Meghalaya.                                 |
| 1145. | Odisha Jan Morcha                                   | Plot No.17, Village Nakhaur,<br>PO Gopinathpur, District – Khurda,<br>Bhubaneswar – 751002, Odisha.                              |
| 1146. | Ojaswi Party  | Flat No. 38, Plot No. 36, Ajanta Apartment,<br>Patparganj, Delhi-110092.   |
| 1147. | Orissa Communist Party                              | MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar (Orissa).  |

|       |                                      |   |
|-------|--------------------------------------|---|
| 1148. | Orissa Gana Parishad                 | A/52, Kharvela Nagar, Unit-III, Bhubaneswar-751001.   |
| 1149. | Orissa Mukti Morcha                  | 15, Bhouma Nagar, Unit-IV, Bhubaneswar-751 001, Orissa.   |
| 1150. | Orissa Socialist Party               | Municipal Compound, Choudhury Bazar, Cuttack-753009 (Orissa).   |
| 1151. | Pachai Tamizhagam Katchi             | 122/ 12/143 Idinthakarai, Harijancolony, Vijayapathy, Radhapuram(TK), Tirunelveli(DT), Tamil Nadu - 627104.                             |
| 1152. | Pahachan Mangalkari Party            | L-II-56, Madangir, Delhi-110 062.   |
| 1153. | Panthers Republican Party            | 'Anandvan', Mahatma Phule Nagar, Peer Bazar, Osmanpura, Aurangabad, Maharashtra - 431005  |
| 1154. | Param Digvijay Dal                   | H. No. 7/297/7, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh   |
| 1155. | Parbatiaya Prajatantrik Party        | 39/A, Leborg Cart Road, Near Maheswari Petrol Pump, Darjeeling, West Benga-734301   |
| 1156. | Parcham Party of India               | 1-Rahmat Bano Market, Medical College Road, Civil Lines, Aligarh-202002, Uttar Pradesh.   |
| 1157. | Parivartan Samaj Party               | Gande Wali Sarak, Laskar, Gwalior-474001, Madhya Pradesh.   |
| 1158. | Party for Democratic Socialism       | 183, Jodhpur Park, Kolkata-700068, West Bengal.   |
| 1159. | Party Kisan Mazdoor Vyapari          | Railway Road, Hathras Junction, Mahatma Prakritic Chikitsalya, Nangla Hira, Hathras Junction, Mahamaya Nagar, Hathras, (Uttar Pradesh). |
| 1160. | Paschim Banga Rajya Muslim League    | 129, Collin Street, Kolkata-700016 (West Bengal).   |
| 1161. | Paschimanchal Vikas Party            | Qr. No. 10 E, In front of St. Joseph School, At. Sakhipara, Distt. – Sambalpur, Orissa- 768001.   |
| 1162. | Paschimi Prajatantra Morcha          | 386, Shahnatthan, Meerut, Uttar Pradesh   |
| 1163. | Paschimi Uttar Pradesh Swaraja Party | Sardhana Road, Kankar Khara, Meerut (Uttar Pradesh).  |
| 1164. | Pashchimi Uttar Pradesh Vikas Party  | H. No. 1, Kasana Niwas, Village – Morna, Sector – 35, Noida, District – Gautambuddh Nagar, Uttar Pradesh – 201308.                      |
| 1165. | Pasumpon Makkal Kazhagam             | Door No.102, L.B. Road, Adyar, Chennai, Tamil Nadu – 600 020.   |
| 1166. | Patriot                              | 28-Appavu Street, Cuddalore Port, Pin-607003, Tamil Nadu.   |
| 1167. | Patriotic Party of India             | 4/28, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh.   |
| 1168. | Peace Party                          | Johra Complex, Barhalganj, PO- Barhalganj, Zila – Gorakhpur, Uttar Pradesh.   |
| 1169. | Peasants And Workers Party of India  | Hari Kharude Niwas, Mahatma Phule Road, Naigaon, Dadar, Mumbai (Maharashtra).   |



|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1170. | Pedala Party  | D.No. 18-131(A), Village - Katurivaripalem, Mandal – Podili, District – Prakasam, Andhra Pradesh – 523240.                     |
| 1171. | Pedarikam Nirumulana Party                              | D No. 66-1-3/A.S. Atchuthapuram, Kakinada-533004, East Godavari District Andhra Pradesh.                                       |
| 1172. | People's Democratic Front                               | H.Q. Guwahati, H.O. Udalgiri, Distt. Darrang, Bodoland (Assam).  |
| 1173. | People's Party  | A-23, Subhash Nagar, Roorkee, District- Haridwar, Uttarakhand  |
| 1174. | People's Party of India (Secular)                       | Duplex-38, Saileshree Vihar, Chandershekharapur, Bhubaneswar-751021, Orissa.   |
| 1175. | People's Party of Punjab                                | 7112, Ward No.2, Malout Road, Gidderbaha (Mukatsar), Punjab-152101.  |
| 1176. | People's Democratic Conference of India                 | Bankra, Post Office – Birati, Kolkata – 700051, West Bengal.   |
| 1177. | People's Democratic Forum                               | C-177, Sector 'J', Aliganj, Lucknow (Uttar Pradesh).   |
| 1178. | Peoples Democratic Party                                | MASS Building Emakulam North, P.O. Cochin-18 (Kerala).   |
| 1179. | Peoples Green Party                                     | 19C/1, Jeevan Jyoti Appartments, Ward No. 1, Mehrauli, New Delhi-110030.   |
| 1180. | Peoples Guardian  | D-302, Blue Hills, Nagar Road, Pune (Maharashtra) – 411 006.   |
| 1181. | Peoples Movement of India                               | 9/215/22, Yojna – 3, Sector –9, Aavas Vikas Colony, Jhoonsi, Allahabad, Uttar Pradesh – 211 019.                               |
| 1182. | Peoples Power Party                                     | P.B.No.16, Shivaji Nagar Post Office, Mumbai-400043, Maharashtra.  |
| 1183. | Peoples Republican Party                                | Saptahik Jaibheem, Opp. Anand Talkies, Sitabadi, Nagpur-440012 (Maharashtra).  |
| 1184. | Perunthalaivar Makkal Katchi                            | 'NRD Towers', First Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600 083, Tamil Nadu.  |
| 1185. | Phule Bharti Lok Party                                  | Main Gurudwara Road, Baba Bakala, Distt.-Amritsar, Punjab-143201.  |
| 1186. | Pichhra Samaj Party                                     | Mohalla Jati, Nagina, District-Bijnor, Uttar Pradesh.  |
| 1187. | Pichhravarg Mahapanchayat Party                         | Mo.-Jamalpur, (Karhan Road), Post- Mohammadabad Gohana, District- Mau, Uttar Pradesh-276403.                                   |
| 1188. | Plains Tribals Council of Assam                         | P.O. & T.O. Kokrajhar, Distt. Kokrajhar (Assam).   |
| 1189. | Political Essential & Accurate Council of Experts Party | Door No. 24-21, Vyshya Street, 5 Roads Junction, American Hospital Road, Narsipatnam, Vizag District, Andhra Pradesh – 531116. |
| 1190. | Poorvanchal People's Party                              | 12/391, Gali No.12, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.  |
| 1191. | Poorvanchal Rashtriya Congress                          | Plot No. 157-158, Pocket E-20, Sector-3, 1 <sup>st</sup> Floor, Rohini, Delhi-110085.  |

|       |                                |  |
|-------|--------------------------------|--|
| 1192. | Prabuddha Bharat Party         | 7A, Hospital Street, 1st Floor, Kolkata – 700072, West Bengal.   |
| 1193. | Prabuddha Republican Party     | MD-26-17/6, SRTRMCH Chanai Road, Ambajogai, District Beed-431517, Maharashtra.   |
| 1194. | Pragatisheel Janta Party       | “Satya Pramod” Abhimanyu Nagar, Bailey Road, Post – Danapur, P.S. – Rupaspur, Danapur, Patna, Bihar – 801503.          |
| 1195. | Pragatisheel Lok Manch         | Ishwar Sadan, Sonkar Farm, Dhaulakhera, Post – Arjunpur (Haldwani), District - Nainital Uttarakhand.                   |
| 1196. | Pragatisheel Magahi Samaj      | H.No.605/334, Ward No. 44, Mohalla – Madaanpur(Akshayvat), Thana – Civil Lines, Distt. – Gaya, Bihar.                  |
| 1197. | Pragatisheel Manav Samaj Party | Village Wari (Naipurva) Post Dashrathpur-221304, Distt. Bhadohi (Uttar Pradesh).                                       |
| 1198. | Pragatisheel Party             | 111, Badshah Nagar, Lucknow-226007 (Uttar Pradesh).  |
| 1199. | Pragatisheel Samaj Party       | 58/12/1D, Newada, Circular Road, Rajapur, Allahabad, Uttar Pradesh.  |
| 1200. | Praja Bharath Party            | Plot No. 106, Block `A`, Archana Appartments, East Marredpally, Secunderabad-500026 (Andhra Pradesh)                   |
| 1201. | Praja Chaithanya Party         | 1-7-578/31/2, Gemini Colony, Musheerabad, Hyderabad, Aandhra Pradesh.  |
| 1202. | Praja Party                    | 3-5-898/1, Himayatnagar, Hyderbad-500029 (Andhra Pradesh).   |
| 1203. | Praja Raj Party                | 287/264/1, Meerut Bulandshahar Road, Hapur –245101, Uttar Pradesh.   |
| 1204. | Praja Satta Party              | 1-91/24, Raghavendra Nagar, Parvathapur(V), GP – Ghatkesar Mandal, R.R. District, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500098.  |
| 1205. | Praja Shanthi Party            | 382, Aparijitha Colony, Ameerpet, Hyderabad, Andhra Pradesh.   |
| 1206. | Prajamandal Party              | Barthwal Niwas, Sheetla Mata Mandir Marg, Lower Bhaktiyana, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand- 246174.                    |
| 1207. | Prajasattak Bharat Paksha      | At. Shileshwar, Post – Bhadas, Tal. Mulshi, District – Pune-412108 Maharashtra .                                       |
| 1208. | Prajashakti Party Samdarshi    | Shri Ram Sadan – 40, Saraipitthu Aanshik, Nayagaon (Kesharua), Sitapur Raod, Hargaon, Janpad – Sitapur, Uttar Pradesh. |
| 1209. | Prajatantra Aadhar Party       | 46, Purani Fauzdar Ki Chali, Memco Char Raste Ke Pass, Naroda Road, Ahmedbad-382345, Gujarat.                          |
| 1210. | Prajatantra Congress Party     | Station Chowk, Opposite Main Post Office, Raigarh, Chhattisgarh  |



|       |                                     |   |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1211. | Prajatantrik Bahujan Shakti Dal     | T-1, Shriram House, 117 H-2/52, Pandunagar, Kanpur, Uttar Pradesh.  |
| 1212. | Prajatantrik Lok Ekta Dal           | 3, Koutilya Marg, Patna – 800 001, Bihar.   |
| 1213. | Prajatantrik Samadhan Party         | Village- Hakimabad, Tehsil- Aasta, Distt.- Sihore, Madhya Pradesh.  |
| 1214. | Prajatantrik Samajvadi Party        | C-17, Yadav Nagar, Village – Samaypur, Delhi-110042.  |
| 1215. | Pravasi Nivasi Party                | Maha Mahal Building, T.C.-1/1502/7, Pazhaya Road, Medical College P.O, District - Thiruvananthapuram, Kerala-695011 |
| 1216. | Prem Janata Dal                     | H. No. 1-4-524/A/7/1, Bholakpur, Near Badi Masjid, Musheerabad, Hyderabad, Andhra Pradesh.                          |
| 1217. | PRISM                               | Top Floor, 4-CHHA-30, Vigyan Nagar, Kota-324005 (Rajasthan).  |
| 1218. | Prithak Bastar Rajya Party          | 8, Senior H.I.G., Sector-3, Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh.  |
| 1219. | Progressive Democratic Party        | Village and Post- Surjawali(Salempur), District-Bulandshahar-203001, Uttar Pradesh.                                 |
| 1220. | Progressive Party                   | B Block, Gali No.5, Shani Bazaar Road, Amrit Vihar, Burari, Delhi – 110084.   |
| 1221. | Progressive People's Party          | House No. -975,976, Shyam Colony, Budh Vihar Phase-II, Near Krishna Mandir, P.S. – Vijay Vihar DELHI- 110086.       |
| 1222. | Proutist Bloc, India                | House No. E- 2/39, 5 <sup>th</sup> Pustha, Sonia Vihar, Delhi- 110094   |
| 1223. | Proutist Sarva Samaj                | Sewa Niketan Compound, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh.  |
| 1224. | Public Development Party            | Murlipur Shekh Salah Takiya, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 1225. | Public Mission Party                | Sita Kunj, Opposite Godawari Appartment, Ashiyana Digha Road, Patna, Bihar-800014                                   |
| 1226. | Public Party                        | Iqbal Mahal, 234-A, Atala, Allahabad-211003, Uttar Pradesh.   |
| 1227. | Public Political Party              | 14A/57, First Floor, WEA, Karol Bagh, New Delhi- 110005.  |
| 1228. | Puducherry Development Party        | No. 51, Second Cross, Selva Nagar, Uruvaiyar, Puducherry- 605110  |
| 1229. | Puducherry Padaippali Makkal Katchi | No. 4, First Street, Thendral Nagar, Puducherry - 605013.   |
| 1230. | Punjab Democratic Party             | 958, Mataur, Sector – 70, SAS Nagar, Adjoining Syndicate Bank, Punjab - 160070.                                     |
| 1231. | Punjab Labour Party                 | Village and Post Office Adhniyan, Tehsil – Malot, Distt. – Muktsar, Punjab  |
| 1232. | Punjab People's Party               | 14, Sector 28, Arun Vihar, Noida-201303 (Uttar Pradesh).  |
| 1233. | Punjab Vikas Congress Party         | Panj Peer Chowk, Jalandhar, Punjab.   |
| 1234. | Punjabi Dal                         | H.No. BV/30A, Ramgarhia, Gurdwara Road, Barnala-148101. Distt. Sangrur (Punjab).                                    |

|       |                                  |   |
|-------|----------------------------------|---|
| 1235. | Puratchi Bharatham               | No. 54, National Highways, Poonamalla, Chennai-56, Tamil Nadu.  |
| 1236. | Puratchikara Thozhilalar Katchi  | No. 3, Karikalan East, First Street, (Opp.S.P.Hospital, Anjappar Hotel), Adambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600088 |
| 1237. | Purvanchal Gan Parishad          | House No. 34, Pocket-28, Sector-24, Rohini, Delhi-110085.   |
| 1238. | Purvanchal Janata Dal            | Village and Post Office – Janadi, District – Ballia, Uttar Pradesh.   |
| 1239. | Purvanchal Janshakti Party       | ShreeVishveshwar Ashram Satuabhar, Post – Bihari Bujurg, Khajni, Gorakhpur-273 212, Uttar Pradesh.                |
| 1240. | Purvanchal Janta Party (Secular) | Flat No. 2, DDA Flats, Pocket-I, Phase-I, Sector-12, Dwarka, New Delhi- 110078.                                   |
| 1241. | Purvanchal Kranti Party          | Yadavganj, Post – Sikrara, District – Jaunpur, Uttar Pradesh.   |
| 1242. | Purvanchal Mahapanchayat         | No. 601 D, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh.  |
| 1243. | Purvanchal Rajya Banao Dal       | 374, Bakshipur, (Near the North of Power House),Distt.-Gorakhpur, Uttar Pradesh.                                  |
| 1244. | Purvanchal Vikas Party           | L-131, Street No.5, Mahipal Pur Extn., New Delhi-110037.  |
| 1245. | Puthiya Needhi Katchi            | 6, North Boag Road, T-Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.  |
| 1246. | Puthiya Tamilagam                | 132, New MLAs Hostel, Govt. Estate, Chennai-600002 (Tamil Nadu).  |
| 1247. | Pyramid Party of India           | 2-1-83, Kola Street, Tirupati-517 501, (Andhra Pradesh).  |
| 1248. | Qaumi Ekta Dal                   | H. No. - 228, Moh. Astupura, Teh. - Sadar, District - Mau, Uttar Pradesh.   |
| 1249. | Quami Janta Dal                  | 9-B, Triloknath Road, Lal Bagh, Lucknow (Uttar Pradesh).  |
| 1250. | Radical Democrats                | D. No. 4-9-771/P70, Pavangiri Colony, Hayatnagar, Hyderabad, Telangana -501505.                                   |
| 1251. | Rahbar Party                     | Ward No. 2, Mohalla - Kachchi Masjid, Raysen, Tehsil & Distt. Raysen-464551, MADHYA PRADESH.                      |
| 1252. | Rajasthan Dev Sena Dal           | Opposite to Bus Stand, Dhamai Haveli, Dudu, Jaipur, Rajasthan.  |
| 1253. | Rajasthan Jan Satta              | Gramin Kanya Chhatrawas, Near Water Works, Sadulpur, Churu-331023, Rajasthan.                                     |
| 1254. | Rajasthan Vikas Party            | 43, Chand Bihari Nagar, Khatipura Road, Jaipur-302012. (Rajasthan).   |
| 1255. | Rajdal Haryana                   | D/S 45, Brass Market, Bawal Road, Rewari-123401, Haryana.   |
| 1256. | Rajlok Party                     | B-123, Street No.8, Kamal Vihar, Burari, Delhi – 10084.   |
| 1257. | Rajnaitik Vikalp Party           | 204 – Shahi Bhawan, Dak Banglow, Patna – 800001 Bihar.  |
| 1258. | Rajya Nojawan Shakti Party       | Near Gandhinagar Police Station, Jammu, Jammu & Kashmir.  |

|       |                                  |   |
|-------|----------------------------------|---|
| 1258. | Rajyadhikara Party               | H.No.10-4-A/390, Addagutta, East Marredpally, Secundarabad-17, Andhra Pradesh.  |
| 1260. | Rakshaka Sena                    | No. 604, Vayunanda Layout, Hebbal, Kempapura, Bangalore-560024.   |
| 1261. | Rani Chennamma Party             | Vakkalageri Dyamavvankatti, Gadag – 582 101, Karnataka.   |
| 1262. | Rashtra Bhakt Dal                | Baba Bajrang Das Ji Ki Bagichi, Khatipura Road, Jhotwada, Jaipur – 302 012, Rajasthan.  |
| 1263. | Rashtra Hith Party               | 706/707, M.K. Heights CHS, 'B' Wing, C.T.S. No. 621, Opp. 'L' Ward Office, S.G. Barve Marg, Kurla (W), Mumbai-400 070, Maharashtra. |
| 1264. | Rashtra Nirman Party             | D-25, Defence Colony, New Delhi-110024.   |
| 1265. | Rashtra Sewa Dal                 | 85/40, Officer Flat, Beli Road, Patna – 800001, Bihar.  |
| 1266. | Rashtra Shakti                   | 1112, S/5 Tegore Garden, Near Bus Stand, Yamuna Nagar-135001, District – Yamuna Nagar, Haryana.                                     |
| 1267. | Rashtra Vikas Zumbes Party       | 2nd Floor, Apollo Enclave, Opp. Jain Derasar, Modhera Cross Road, Mehesana, Gujarat – 384002  |
| 1268. | Rashtrasamarpit Jansamooch       | H-101, Ground Floor, Chandu Park, Krishna Naga, New Delhi- 110051   |
| 1269. | Rashtravadi Bahujan Kranti Party | Mohalla – Chiranjilal, Town – Afzalgarh, Tehsil – Dhampur, District – Bijnor, Uttar Pradesh – 246722.                               |
| 1270. | Rashtravadi Communist party      | Begaria Ka Khera, P.O. Brawan Kalan, Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 1271. | Rashtravadi Janata Party         | Anil Bharti Bhawan, 43-A, Sukhbir Nagar, Karala, New Delhi-110081.  |
| 1272. | Rashtravadi Kranti Dal           | Indu Niwas, Gaon Devi Road, Poisar, Kandivali (East), Mumbai, Maharashtra- 400101   |
| 1273. | Rashtravadi Pratap Sena          | Village – Narayanpur Banska, P.O. – Dhaulana, Ghaziabad, Uttar Pradesh.   |
| 1274. | Rashtravyapi Janta Party         | M.M.S. 1/84, Sector – A, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 1275. | Rashtrawadi Chetna Party         | House No. 16F/F, K.H.No. 28/10, Risal Garden, Nangloi, New Delhi-110041   |
| 1276. | Rashtrawadi Insaan Party         | 18/84/6C, Pura Dalel, Tilak Nagar, Allahpur, Allahabad, Uttar Pradesh.  |
| 1277. | Rashtrawadi Jantantrik Party     | Ambar Villa, 127/660, W-1, Saket Nagar, Kanpur-208014, UTTAR PRADESH.   |
| 1278. | Rashtrawadi Janwadi Manch        | H.No.-160, Jodhi ka Pura, Azamgarh City, Azamgarh, Uttar Pradesh  |
| 1279. | Rashtrawadi Labour Party         | D-12/104, Sector-8, Rohini, Delhi – 110085  |

|       |                                     |   |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1280. | Rashtrawadi Parivartan Party (L.B.) | M.C. Unit No. 4 – 467,<br>Noonsar Johad, Patram Gate,<br>Bhiwani, District – Bhiwani,<br>Haryana – 127021                     |
| 1281. | Rashtrawadi Praja Dal               | C-2/60, Ram Park – I, Loni,<br>District – Ghaziabad,<br>Uttar Pradesh - 201102  |
| 1282. | Rashtrawadi Samaj Party             | 16/17, Civil Lines, Near Padam Apartment,<br>Kanpur, Uttar Pradesh.   |
| 1283. | Rashtrawadi Samta Party             | 196/187 K, Village-Balipur Khurdwan,<br>Tehsil- Gauriganj, Distt. Amethi,<br>UTTAR PRADESH.                                   |
| 1284. | Rashtrawadi Sena                    | Main Shahdra Chowk, Delhi – 110032  |
| 1285. | Rashtrawadi Shramjeevi Dal          | 512/695N, First Street, Nishatganj,<br>Lucknow, Uttar Pradesh-226007  |
| 1286. | Rashtrawadi Swarn Ekta Party        | Plot No. 11, 2 <sup>nd</sup> Floor, Awadhपुरी Khand – I,<br>Market Khargapur, Gomti Nagar, Lucknow,<br>Uttar Pradesh.         |
| 1287. | Rashtrawadi Yuva Party              | ARSI House, Pragati Nagar, Chakmohabbat,<br>P.O- Bhikhanpur, P.S- Ahiyapur,<br>District- Muzaffarpur, Bihar-842004.           |
| 1288. | Rashtriya Aadiwasi Bahujan Party    | Plot No.4, Pushpak Nagar, Junwani Road,<br>Bhilai, Disst. Durg, Chhattisgarh-490020   |
| 1289. | Rashtriya Aam Party                 | Office no. 19A, 2nd Floor,<br>Om Heera Panna Mall, New Link Road<br>Oshiwara, Andheri (West), Mumbai,<br>Maharashtra – 400053 |
| 1290. | Rashtriya Aamjan Party              | B-225, Old Minal, J.K.Road, Bhopal,<br>Madhya Pradesh- 462023.  |
| 1291. | Rashtriya Adarsh Party              | Pitthuwalla Khurd, Chanderbani, Dehradun,<br>Uttarakhand.   |
| 1292. | Rashtriya Agraniye Dal              | Village – Khamona, Post – Resipur, P.S. –<br>Jansa, District – Varansi, Uttar Pradesh.  |
| 1293. | Rashtriya Ahinsa Manch              | 132/1, Mahatama Gandhi Road,<br>Kolkata – 700 007.  |
| 1294. | Rashtriya Aikta Manch Party         | D-197, Kunwar Singh Nagar, Nangloi,<br>Delhi-110041   |
| 1295. | Rashtriya Aman Sena                 | Aman House, Sanjay Gandhi Nagar, Road No.<br>9, Shiwaji Nagar No. 2, Govandi, Mumbai,<br>Maharashtra-400043.                  |
| 1296. | Rashtriya Ambedkar Dal              | Ambedkar Bhawan, Budh Vihar, Bhim Nagar,<br>Central Jail Road, Varanasi, Uttar Pradesh.                                       |
| 1297. | Rashtriya Antyodaya Congress        | SS-III / 800, Sector – 1, Koparkhairane,<br>Navi Mumbai, Maharashtra - 400709.  |
| 1298. | Rashtriya Apna Dal                  | House No. 232/81/4D, Tilak Nagar, Allapur,<br>Allahabad, UTTAR PRADESH  |
| 1299. | Rashtriya Arya Raj Sabha            | 769/2, Vijay Park, Jhang Colony,<br>Rohtak-124001. Haryana.   |
| 1300. | Rashtriya Awami Dal                 | 152, Kazi Tola, Sailani Road, Old City,<br>Bareilly-243005, Uttar Pradesh.  |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1301. | Rashtriya Backward Party                       | 1/44, Shanti Nagar, Etah-207001<br>UTTAR PRADESH   |
| 1302. | Rashtriya Bahujan Congress Party               | TA-137/3, Tughlakabad Extension,<br>New Delhi-110019.  |
| 1303. | Rashtriya Bahujan Hitay Party                  | C-158, Captain Satish Marg, Rishi Nagar,<br>Rani Bagh, New Delhi-110034.   |
| 1304. | Rashtriya Balmiki Sena Paksha                  | Jagadguru Maharishi Balmiki Swami Mandir<br>Marg, C.M.E. Ram Nagar Bopkhel,<br>Pune-411 031 (Maharashtra).                                       |
| 1305. | Rashtriya Bandhutwa Party                      | 554, Mamfordganj, Allahabad, Uttar Pradesh.  |
| 1306. | Rashtriya Bhagidari Samaj Party                | 86-B, DDA Flats, Masjid Moth, Phase-II,<br>Greater Kailash Part III, New Delhi-110 048.  |
| 1307. | Rashtriya Bujurg Shakti Party                  | House No. – 144, Village – Mangawas,<br>Post Office – Palra, Tehsil – Beri,<br>District – Jhajjar, Haryana.                                      |
| 1308. | Rashtriya Congress (Babu<br>Jagjivanram)       | Ward No. 45, Mohalla – Baldevpuri,<br>Janpad – Muradabad, Uttar Pradesh.   |
| 1309. | Rashtriya Congress (J.) Party                  | Saindhri, Post-Harthala, Via Pakvarh,<br>Muradabad, Uttar Pradesh.   |
| 1310. | Rashtriya Dehat Morcha Party                   | 601, Rohit House, 3-Tolstoy Marg,<br>New Delhi-110001.   |
| 1311. | Rashtriya Deshaj Party                         | Tungari Toli, Argora, St. Francis School,<br>Post - Harmu, Distt. Ranchi<br>Jharkhand - 834012.  |
| 1312. | Rashtriya Dharmanirpeksha Nava<br>Bharat Party | 108, Shankar Shah Nagar, Jabalpur<br>(Madhya Pradesh).   |
| 1313. | Rashtriya Ekta Party                           | H.No. 83, Ground Floor, Gali No. 4,<br>Near Chand Masjid, Jafarabad, Delhi –<br>110053.  |
| 1314. | Rashtriya Ekta Party (Secular)                 | Bhawan No. 543, Mohalla- Upadiyan,<br>Ward No.14, Kithore, District- Meerut,<br>Uttar Pradesh.   |
| 1315. | Rashtriya Ekta Vikas Party                     | Near Noor Masjid,<br>Madina Masjid Transformer Wali Gali,<br>Ashok Vihar Ward No.42, Loni,<br>Tehsil and District - Ghaziabad,<br>Uttar Pradesh. |
| 1316. | Rashtriya Garib Dal                            | 110, Ram Nagar, Panipat, Haryana.  |
| 1317. | Rashtriya Garima Party                         | B-14, Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge,<br>Bhopal-462001, (Madhya Pradesh).  |
| 1318. | Rashtriya Gondvana Party                       | Sarkhel House, Tiffra, Bilaspur – 495223,<br>Chhattisgarh.   |
| 1319. | Rashtriya Gram Vikas Party                     | 62, Civil Lines, Roorkie, Janpad-Haridwar<br>Uttarakhand   |
| 1320. | Rashtriya Gramin Party                         | Village Chakershanpur (Kemralla),<br>P.O. Ghorl Bachera (Dadri),<br>District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.                                   |
| 1321. | Rashtriya Hamara Dal                           | 22/191, Dholi Khar, Mantola, Agra<br>(Uttar Pradesh).  |
| 1322. | Rashtriya Hind Sena                            | 158/1, Dev Nagar, District Firozabad - 283203,<br>Uttar Pradesh.   |

|       |                                       |   |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1323. | Rashtriya Hindustan Sena, Karnataka   | Shiva Shakti, 141, Behind New Bus Stand, Vasvi Nagar, Hubli-580030, Karnataka.  |
| 1324. | Rashtriya Hith Congress               | 712, G-Block, Military Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005.  |
| 1325. | Rashtriya Independent Morcha          | At: Mining Road, Keonjhar (In front of O.S.M.E. Ladies Hostel), P.O./Via.: Keonjhargarh District – Keonjhar-758001, Odisha. |
| 1326. | Rashtriya Indira Party                | Dattपुरा, Near Subzi Mandi, Morena, (Madhya Pradesh).   |
| 1327. | Rashtriya Jagriti Party               | Rishabh Institute, Chiraitaad Pul, Chaudhry Petrol Pump, Kankarbagh, Patna, Bihar – 800020.                                 |
| 1328. | Rashtriya Jan Gaurav Party            | 470, Parmanatpur, (Behind-Sapna Ice Factory), P.O- Kachahari, Tehsil- Sadar, District- Jaunpur, Uttar Pradesh-222002.       |
| 1329. | Rashtriya Jan Jan Party               | Village- Nawada Khurd, Post- Sahdullahpur, via- Hajipur, District- Vaishali, Bihar.   |
| 1330. | Rashtriya Jan Kalyan Party            | G-290, Old Seema Puri, Delhi 110095.  |
| 1331. | Rashtriya Jan Sahay Dal               | 112, New Connaught Place, Dehradun, Uttaranchal.  |
| 1332. | Rashtriya Jan Samanatawadi (Ambedkar) | 71-B, Pocket A-3, Kalkaji Extension, New Delhi-110 019.   |
| 1333. | Rashtriya Jan Sansad                  | Shakti Nagar, Old G.T.Road, Khurja, Distt. – Bulandshahar-203131, UTTAR PRADESH.  |
| 1333. | Rashtriya Jan Sewak Party             | Village : Nangla Jamalpur, Post : Panchli Khurd, Baghpat Road, Meerut, Uttar Pradesh.                                       |
| 1335. | Rashtriya Janadhar Party              | 596 S.K. – 04/01/01, Sumiran Khera, Adarsh Vihar, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 1336. | Rashtriya Janadhikar Party            | 61, Mangla Puri Phase-I, Palam, New Delhi-110045.   |
| 1337. | Rashtriya Janadhikar Suraksha Party   | Village: Krishnapur, Post: Dhopathat Krishnapur, Distt: 24 Parganas (South), West Bengal.                                   |
| 1338. | Rashtriya Janandholan Paksha          | “Powrabhavan”, No.567(38), 60 Ft. Road, Gokula Mathikere Layout, Bangalore-560054 (Karnataka).                              |
| 1339. | Rashtriya Janasachetan Party (R.J.P.) | Sonarpur, Sukanta Nagar (Milanpally), (Near Shib Mandir) P.O. & P.S. Sonarpur, Kolkata-700150. West Bengal.                 |
| 1340. | Rashtriya Janata Janardan Party       | Suraj Ka-Purva, Atarrarural, P.O. Atarra, District Banda, Uttar Pradesh.  |
| 1341. | Rashtriya Janhit Party                | Kothi No.75, Sector-17, Panchkula-134 109 (Haryana).  |
| 1342. | Rashtriya Janhit Sangharsh Party      | 109-F, Najimpura, Bhoor, Bulandshahar Uttar Pradesh - 203001.   |
| 1343. | Rashtriya Jan-Jagran Morcha           | Raj Manzil, Ward No.12, Gopalganj, Post and District Gopalganj, Bihar.  |



|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1344. | Rashtriya Jankranti Morcha              | Village- Babhne Alam Nagar,P.O-Pratappur, District: Chatra,Jharkhand -825404                                |
| 1345. | Rashtriya Jankranti Party               | 5/24 H-10 (R) ITI Road, Aligarh, Uttar Pradesh – 202001   |
| 1346. | Rashtriya Janmat Party                  | Village – Fatuha, Post – Hanumanganj, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.                                    |
| 1347. | Rashtriya Janmorcha                     | C-69/10, Gali No. 10, C- Block, Mustafabad, Delhi-110094.   |
| 1348. | Rashtriya Janpriya Party                | H-II-76/D, LDA Colony,Kanpur Road. Lucknow-226012,UTTAR PRADESH.  |
| 1349. | Rashtriya Janrakshak Party              | Village – Birjapur, Post – Aduki,Distt. Mathura UTTAR PRADESH   |
| 1350. | Rashtriya Jansabha Party                | Kondagaon, Forest Colony Ward, District- Kondagaon, Chhattisgarh-494226                                     |
| 1351. | Rashtriya Jansangh                      | Old 20, New 35, Victoria Park, Sports Colony, Meerut, Uttar Pradesh   |
| 1352. | Rashtriya Jansangharsh Swaraj Party     | Upper Chutia, Ranchi, Jharkhand – 834001.   |
| 1353. | Rashtriya Jansena Party                 | Shop No. 101, Madina Complex, Kumbhartek, Shirpur, District- Dhule, Maharashtra                             |
| 1354. | Rashtriya Janseva-Secular Party         | 428, Brahman Wara, Old Ward No. 23, Ballabhgarh-121004, Distt. - Faridabad, Haryana.                        |
| 1355. | Rashtriya Janshakti Party (Eklavya)     | Post and Village :- Binjhol, Tehsil and District :- Panipat, Haryana-132103.                                |
| 1356. | Rashtriya Janshanti Party               | 52/2, School Ward Chawk, Behind G.G.I.C., Pratapgarh-230001,Uttar Pradesh.                                  |
| 1357. | Rashtriya Jansurajya Party              | House No. 953/C, Garoba Maidan, Bhandara Road, Bagadganj, Nagpur(E), Maharashtra-440008.                    |
| 1358. | Rashtriya Janta Party                   | Near of Shiv Mandir Colony,Saorkha Jahidabad, Sector – 115, Noida, Distt. - Gautambudhnagar, UTTAR PRADESH. |
| 1359. | Rashtriya Jantantra Paksh               | 24, Star Apartments, Vidya Vihar Marg, Sector – IX, Rohini,Delhi – 110085                                   |
| 1360. | Rashtriya Jantantrik Bharat Vikas Party | Govind Chikitsalya, Parsiya Morh, Rasulpur, Rasraha, Balia, Uttar Pradesh.                                  |
| 1361. | Rashtriya Jantantrik Party (Secular)    | Flat No. 153-154, Vir Chand Patel Path, Patna-800001 (Bihar).   |
| 1362. | Rashtriya Janutthan Party               | A-655-56, Awas Vikas, Hanspuram (Kainal Road), Naubesta, Kanpur Nagar – 208021, Uttar Pradesh.              |
| 1363. | Rashtriya Janvikas Party (Democratic)   | Manorma Sadan, Indrapuri Sipara, Post Office- Dhelwan, Thana- Beur, District- Patna, Bihar 800020.          |
| 1364. | Rashtriya Janwadi Party (Krantikari)    | 9/168, Indira Nagar, Near Pani Tanki, Luknow-226016.  |



|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1365. | Rashtriya Jatigat Aarakshan Virodhi Party | 788-E/24, In Front of Union Bank, Near of old Court, Rohtak Road, Sonapat-131001, Haryana.                        |
| 1366. | Rashtriya Kalyan Paksha                   | 904, Atlanta Towers, Inqualab Society Gulbai Tekra, Ahmedabad-380006, Gujarat.                                    |
| 1367. | Rashtriya Kamgar Party                    | B.W – 97 D, Shalimar Bagh, Delhi – 110088   |
| 1368. | Rashtriya Kamjor Varg Party               | Central Office: Post Office Building, Lal Bahadur Shastri Nagar, Post Office (Upper Floor) Patna-800023 (Bihar).  |
| 1369. | Rashtriya Karmyog Party                   | Village & P.O. – Sultanpur, Tehsil – Nilokheri, Distt. – Karnal, Haryana-132116.                                  |
| 1370. | Rashtriya Kisan Congress Party            | H. No. 1-11-602, Ramamata Ambedkar Nagar, Near of Guru Govind Singh Ji Stadium, Tq. & Distt. Nanded, Maharashtra. |
| 1371. | Rashtriya Kisan Party                     | Village & P.O. Dhanaundha, Teh. & Distt. Mahendragarh (Haryana).  |
| 1372. | Rashtriya Kisan Samaj Party (United)      | Mohalla- Pateganj, Post- Kanth, Tehsil- Kanth, District- Moradabad, Uttar Pradesh-244501                          |
| 1373. | Rashtriya Kisan Vikas Party               | Village & Post – Parasi, Tehshil – Mangawan, District – Rewa, Madhya Pradesh – 486111.                            |
| 1374. | Rashtriya Komi Ekta Party                 | Limda Lane, Makrani Pada, Jamnagar-361001, Gujarat.   |
| 1375. | Rashtriya Kranti Party                    | Lodhi Pragyaapeeth, Lauh Purush Dr. Sakshi Nagar, Shikohabad Road, Etah, District: Etah – 207 001, Uttar Pradesh. |
| 1376. | Rashtriya Krantikari Dal                  | Gopal Nagar, Main Surakhpur Road, Najafgarh, New Delhi –110043.   |
| 1377. | Rashtriya Krantikari Janata Party         | 407, Durga Chambers, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005.   |
| 1378. | Rashtriya Krantikari Samajwadi Party      | House No. 65/25 K, Chhitwapur Road, Lalkaun, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 1379. | Rashtriya Lok Jagriti Party               | Near Bk. No. 27, Opp. Budh Vihar, Bhim Nagar, Ulhasnagar – 421 001, Distt. Thane, Maharashtra.                    |
| 1380. | Rashtriya Lok Nirman Party                | M-12, Mir Vihar, Madan Pur Dabas DELHI.   |
| 1381. | Rashtriya Lok Sarvadhikar Party           | H. No. –630, Village-Pasonda, Bodh Vihar Mandir, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh.                             |
| 1382. | Rashtriya Lok Seva Morcha                 | 206, Lovekush Tower, Exhibition Road, Patna-800 001, Bihar.   |
| 1383. | Rashtriya Lok Tantra Dal                  | Gram Mohalla – Nagla Kashi, Tehsil – Dhaulana, District – Hapur. Uttar Pradesh - 245301.                          |
| 1384. | Rashtriya Lokhit Party                    | A-40/35A, Amarpur Madiya, Varanasi, Uttar Pradesh.  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1385. | Rashtriya Lokmanch                            | 1303, Naurang House, B-Block,<br>21-Kasturba Gandhi Marg,<br>NEW DELHI-110001.   |
| 1386. | Rashtriya Lokraj Party                        | H. No. 73/382, Mohalla – Vankhandi Teela,<br>(Behind of Sahkari Bank), Mathura,<br>Uttar Pradesh- 281001.                            |
| 1387. | Rashtriya Lokshahi Party                      | Survey No. 40/1, 40/2 & 40/3,<br>House No. 411 & 412,<br>Village – Beed Budhruk, Taluka – Karjat,<br>District - Raigad, Maharashtra. |
| 1388. | Rashtriya Lokshakti Party                     | Arjun Nagar Colony, Gola Gokarnnath,<br>Lakhimpur Kheeri, Uttar Pradesh - 262802   |
| 1389. | Rashtriya Lokswaraj Party                     | Padma Farm, Village – Chhapra Khera,<br>Near Balaji Mandir, Phusgarh, Karnal,<br>Haryana.  |
| 1390. | Rashtriya Loktantrik Sambhav<br>Secular Party | H. No. 411, Krishna Bihari Nagar,<br>Banda Sagar Road, Varma Tiraha,<br>District & Tehsil – Fatehpur, Uttar Pradesh.                 |
| 1391. | Rashtriya Lokwadi Party                       | A/6A, Ground Floor, Mansarovar Garden,<br>New Delhi – 110015.  |
| 1392. | Rashtriya Machhua Samaj Party                 | Railway Road, Dadri,<br>Near Ravaji Farm House,<br>Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh)   |
| 1393. | Rashtriya Maha Janshakti Dal                  | Room No.17, M. Naresh Munna Chawl,<br>Jaihind Nagar, Pipe Line, Khar East,<br>Mumbai-400 051, Maharashtra.                           |
| 1394. | Rashtriya Mahan Dal                           | 108/60, Avas Vikas Colony,<br>Village – Taimurpur, Post – Bijnaur,<br>Distt. – Bijnaur, Uttar Pradesh.                               |
| 1395. | Rashtriya Mahan Gantantra Party               | H. No. 1488, Anna Nagar, Sector – B,<br>Post – Govindpura, Bhopal – 462023,<br>MADHYA PRADESH.                                       |
| 1396. | Rashtriya Mahashakti Party                    | 5, Rupayatan, S V Road, Vile Parle West,<br>Mumbai-400056, Maharashtra.  |
| 1397. | Rashtriya Mahila Janshakti Party              | Gram Sabha – Santa Jiginiya, Post – Kanta<br>Guljarpur, Block – Fatehpur, Distt. – Unnao,<br>Pin-209801 UTTAR PRADESH.               |
| 1398. | Rashtriya Manav Adhikar Party                 | 17/700, Village-Gopalpur, Post-Azadpur<br>(Timarpur), Delhi-110009.  |
| 1399. | Rashtriya Manav Ekta Congress<br>Party        | Opp. Gurudwara, Station Road, Raipur,<br>Chhattisgarh.   |
| 1400. | Rashtriya Manav Samman Party                  | H. No-1485, Kidwai Nagar, Bhardwaj Puram,<br>Allahabad-211006.   |
| 1401. | Rashtriya Mangalam Party                      | 19/23, West Moti Bagh, Street No. 3,<br>Sarai Rohilla, Delhi – 110035.   |
| 1402. | Rashtriya Marxwadi Dalit Lehar Part           | Village- Chhonkarwara, Tehsil- Weir,<br>District- Bharatpur, Rajasthan.  |
| 1403. | Rashtriya Mazdoor Ekta Party                  | Block-B, Sant Nagar, Gali No.57, Burari Road,<br>Delhi –110009.  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1404. | Rashtriya Mazdoor Kisan Prajatantrik Party | Ashoka Avenue, Village-Lalganj, P.S- Sadar, District - Ranchi, Jharkhand.   |
| 1405. | Rashtriya Mazdoor Kisan Party              | Aakash Bhawan, Opp. IDBI Bank, Main Road Dadri, Surajpur, Greater Noida, Vikas Khand- Visrakh, Tehsil- Sadar, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. |
| 1406. | Rashtriya Morcha Party                     | H.No.57, Village – Manesar, Mohalla – Mohan Patti, Distt. – Gurgaon, Haryana-122050.  |
| 1407. | Rashtriya Naujawan Dal                     | 20/575, D.D.A. Flat, Dakshinpuri, New Delhi – 110062  |
| 1408. | Rashtriya Parivartan Dal                   | B-4A/25, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007.  |
| 1409. | Rashtriya Peace Party                      | 17G/322, Sector – 17, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh.   |
| 1410. | Rashtriya Pragati Party                    | Garh Par, Nardiganj Road, Nawada, Post & Distt. Nawada – 805 110, Bihar.  |
| 1411. | Rashtriya Pragatisheel Prajatantra Party   | 3518, Daribapan, Opposite to Sheela Cinema, Paharganj, New Delhi-110055.  |
| 1412. | Rashtriya Praja Congress (Secular)         | 12-11-113, AB-Nageswara Rao Street, Arya Puram, Rajamundry, Andhra Pradesh.   |
| 1413. | Rashtriya Prajantantrik Party              | House No. 38, Gram-Janaur, Post-Kandhikala, Janpad-Jaunpur, Uttar Pradesh.  |
| 1414. | Rashtriya Rajdhani Congress Delhi          | 8, Nath Market, Nai Sarak, Delhi-110006.  |
| 1415. | Rashtriya Raksha Dal                       | C/o Hotel Pankaj, Sector-22A, Chandigarh.   |
| 1416. | Rashtriya Rashtrawadi Party                | 2/36, Ruchi Khand-1, Sharda Nagar Yojna, Lucknow, Uttar Pradesh -226012.  |
| 1417. | Rashtriya Sadbhavna Party                  | Village- Raghupur Narsanda, Post- Bajitpur, Thana- Patepur, District- Vaishali, Bihar- 843110   |
| 1418. | Rashtriya Sadhu Vichar Council             | Raidopur New Officer Colony, Nyay Marg, Azamgarh, Uttar Pradesh.  |
| 1419. | Rashtriya Sahara Party                     | Jangra Market Dundahara, Gurgaon-122016, Haryana.   |
| 1420. | Rashtriya Samadhaan Party                  | 121-A, R-3/A-2, Mangal Bazar Mohan Garden, New Delhi - 110059.  |
| 1421. | Rashtriya Samaj Paksha                     | C/o L.W. Kale, 17-Raghunath Dadoji Street, 4th Floor, Near Handloom House, Fort, Mumbai-400 001 (Maharashtra).  |
| 1422. | Rashtriya Samajwadi Apna Dal               | Vill. – Basupar (Bankut), Near Shiva Nursing Home, P.O. – Jiyanpur, District – Ajamgarh, Uttar Pradesh.   |
| 1423. | Rashtriya Samajwadi Jankranti Party        | B-37/162, K.P.Giri Colony, Birdopur, Varanasi, Uttar Pradesh.   |
| 1424. | Rashtriya Samajwadi Party (Secular)        | A/104, Rajshree Avenue, B/h, Income Tax, Nr. Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat.   |
| 1425. | Rashtriya Samajwadi Party (United)         | 9, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052.   |
| 1426. | Rashtriya Samajwadi Party 'Pragatisheel'   | B-248, Mohan Nagar, Thatipur, Morar, Gwalior (Madhya Pradesh).  |
| 1427. | Rashtriya Samanta Dal                      | 8/440, Trilok Puri, Delhi-110091.   |

|       |                                    |  |
|-------|------------------------------------|--|
| 1428. | Rashtriya Samdarshi Deshbakt Dal   | Khushkari Sadan, Anand Nagar, Mandi Road Tiraha, Kasganj, Kanshiram Nagar, Uttar Pradesh.  |
| 1429. | Rashtriya Samyawadi Aryan Party    | 570/20, Virat Nagar, Alam Bagh, Lucknow-226005, Uttar Pradesh.   |
| 1430. | Rashtriya Sangharsh Party          | Faridabad, Sujanganj, Jounpur-222201 Uttar Pradesh.  |
| 1431. | Rashtriya Sant Sandesh Party       | 263, Vanarse Niwas, Mitra Nagar, Latur, Tq. Latur, Distt.- Latur-413512, Maharashtra.  |
| 1432. | Rashtriya Sanyukt Party            | 5/36, Railway Road, Near State Bank of India, District – Furrukhabad, Uttar Pradesh - 209625.  |
| 1433. | Rashtriya Sarvajan Party           | 124/3, Madak Khana (Khushipura), Jhansi-284001, Uttar Pradesh.   |
| 1434. | Rashtriya Sarvasamaj Party (India) | Plot No. 256, Mithila Dham Rahivashi Sangh, Opp. Jery Verghese Termate Company, Gen. A.K. Vaidya Marg, malad (East), Mumbai-400097, Maharashtra. |
| 1435. | Rashtriya Sarvjan Samaj Party      | Village & Post – Mandhata, Tehsil – Sadar, Distt. – Pratapgarh, Uttar Pradesh.   |
| 1436. | Rashtriya Sarvodaya Party          | A-412, AG Colony, P.S. – Shastri Nagar, District - Patna, Bihar – 800025.  |
| 1437. | Rashtriya Sawarn Dal               | Dubey Ka Parav, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).  |
| 1438. | Rashtriya Sawarn Shakti Party      | 299, Ground Floor, Gagan Vihar, Delhi – 110051   |
| 1439. | Rashtriya Secular Congress         | Ashirvad Apartment, Mathura Dawaraka Road, P.O. Dispur, Sakuntala Path, 5th Bye Lane, Guwahati-6, ASSAM.   |
| 1440. | Rashtriya Shahri Vikas Party       | H. No. 8/69(40,40A) Purana Quila, Babu Banarsi Das Nagar, Cantt. Road, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001.  |
| 1441. | Rashtriya Shakti Party (India)     | 80-A, Munirka Village, New Delhi-110067.   |
| 1442. | Rashtriya Shoshit Samaj Party      | Village – Lohvan, Post – Lohvan, Laxmi Nagar-Baldeo Road, District – Mathura, Uttar Pradesh.   |
| 1443. | Rashtriya Sindhi Congress          | 437/B/1, Rubia House, B/H, Ellis Bridge Shopping Centre, Ashram Road, Ahmedabad-380 006, Gujarat.  |
| 1444. | Rashtriya Surya Prakash Party      | C/o Sh. Panna Lal, S/o. Sh. Bhole Shankar, Thana-Avagarh, Jalesar Road, Kasba & Post Office-Avagarh, Zila-Eta, Uttar Pradesh.                    |
| 1445. | Rashtriya Ulama Council            | 3, Rashad Nagar, Gorakhpur Road, Azamgarh-276001, Uttar Pradesh.   |
| 1446. | Rashtriya Unnatisheel Dal          | F.167, Chand Bagh Colony, P.O. Gokulpuri, Delhi – 110094.  |
| 1447. | Rashtriya Uttarakhand Party        | 124/98, Haridwar Road, Dehradun, Uttarakhand.  |
| 1448. | Rashtriya Vikalp Party             | Village – Piprauli, Post – Jahangirabad, Janpad – Barabanki, Uttar Pradesh   |

|       |                                      |  |
|-------|--------------------------------------|--|
| 1449. | Rashtriya Vikas Manch Party          | Plot No. 58, New Colony, Tilmapur, Aashapur, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh.   |
| 1450. | Rashtriya Vikas Party                | 195, Main Ashoka Enclave, Faridabad, Haryana.  |
| 1451. | Rashtriya Viklang Party              | 114, DDA Pocket -2, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110045.  |
| 1452. | Rashtriya Vyapari Party              | F-25, Professor Colony, Kamla Nagar, Agra-282005, Uttar Pradesh.   |
| 1453. | Rashtriya Yuva Samaj Party           | 18- Muskan Manjil, Rasulabad, Opposite Rehmat Duplax, Shah-E-Alam, Ahmedabad, Gujarat- 380028  |
| 1454. | Rashtriya Yuva Sangh                 | B-117, Gali No. 6, East Vinod Nagar, Delhi-110091  |
| 1455. | Rastriya Aam Jan Seva Party          | C-90, Khasra No. 770, Madanpur Khaddar Extension, Tehsil, Mehrauli, New Delhi-110076   |
| 1456. | Rastriya Insaaf Party                | House No.606, Rudra Nagar, District-Sultanpur, Uttar Pradesh.  |
| 1457. | Rastriya Naba Nirman Party           | Jemadevi Pentho Street, Old Berhamapur, PO- Berhamapur, PS – Bada Bazar, Dist. Ganjam, Odisha – 760009                               |
| 1458. | Rastriya Praja Chakravyuha Party     | No. 73, Shanthinikethanam, D.K. Halli Main Road, Palar Nagar, BEML Nagar Post, Bangarapet Taluk, Kolar District, Karnataka - 563115. |
| 1459. | Rastriya Sadabahar Party             | 72, Tulsi Mandi, Hotel Maharani, Maharani Chowk, Post- Gulzarbagh, Thana- Aalamganj, Patna City, District- Patna, Bihar 800007.      |
| 1460. | Rayalaseema Congress Party           | 5/62, Pedduru Road, Galiveedu Kaspas, Galiveedu Post and Mandal, Y.S.R Kadapa District, Andhra Pradesh – 516267.                     |
| 1461. | Rayalaseema Parirakshana Samithi     | Door No. 70-125-B-71, Near Highway, Kallur, Kurnool Town, Andhra Pradesh – 518003  |
| 1462. | Rayalaseema Rashtra Samithi          | Door No.22/160, Vasanthapeta, Kadapa District, Proddatur-516360, Andhra Pradesh  |
| 1463. | Regional Democratic Secular Congress | Lower Lumparing, P.O. Laban, Distt. East Khasi Hills, Shillong – 793004 Meghalaya.   |
| 1464. | Republican Backward Congress         | Plot No. 4, Gali No. 1, Ward No.1, M.C. Colony, Charkhi-Dadari, Distt. Bhiwani, Haryana-127306                                       |
| 1465. | Republican Bahujan Sena              | 305, Shahu Smruti Building, 3rd Floor, Mahatma Phule Nagar, Behind Meenatai Thakrey Udyan, Thane (West), Maharashtra – 400606        |
| 1466. | Republican Labour Party              | Block-4, House No. 236, 7th Mile Chumukedima, Dimapur-797103, Post Box –354, Nagaland.   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1467. | Republican Paksha (Khoripa)                               | Ensa Hutments, 8-9, Azad Maidan, Infront of Mumbai Maha Nagar Palika, Fort, Mumbai-400 001, (Maharashtra).                         |
| 1468. | Republican Party of India                                 | ENSA Hutment, I-Block, Mahapalika Marg, Azad Maidan, Mumbai-400001 (Maharashtra).  |
| 1469. | Republican Party of India (Democratic)                    | Mukund Niwas, India Nagar, Latur-413512 (Maharashtra).   |
| 1470. | Republican Party of India (Kamble)                        | A, 703, Suryakiran Co. Op. Housing Society, Plot No. 12&13, Sector-5, Ghansoli, Navi Mumbai- 400701, Maharashtra.                  |
| 1471. | Republican Party of India (Khobragade)                    | Gita Villa, East Marredpally, Secunderbad, (Andhra Pradesh).   |
| 1472. | Republican Party of India (Sivaraj)                       | 10, Solai Street, Ayanavaram, Chennai-600023 (Tamil Nadu).   |
| 1473. | Republican Party of India Ektavadi                        | B-9/667, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi – 110005.  |
| 1474. | Republican Party of India(A)                              | 1/16, Sanjay Complex, T.T. Nagar, Bhopal-462003,(Madhya Pradesh).  |
| 1475. | Republican Presidium Party of India                       | Uruli-Kanchan, Pune-412202 (Maharashtra).  |
| 1476. | Republican Sena   | Shop No. 6, New Nirmal Society, 189, Dhole Patil Road,Opp. Akshay Complex, Pune, Maharashtra-411001                                |
| 1477. | Revolutionary Communist Party of India (Rasik Bhatt)      | 84-Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700025 (West Bengal).  |
| 1478. | Revolutionary Democratic Party of India                   | 221, Street No. – 115,B – Block, Sant Nagar, Burari, Delhi – 110084.   |
| 1479. | Revolutionary Socialist Party of India (Marxist)          | TC 24/113, Panvila, Thycadu,P.O. Thiruvananthapuram, Pin Code-695014.  |
| 1480. | Revolutionary Socialist Party of Kerala (Bolshevik) RSP.B | Kerala State Committee Office, Future Centre, Sahodara, Samajam Road, Chettikulangara, Thiruvananthapuram, (Kerala).               |
| 1481. | Right Party of India                                      | Village & P.O. – Uttar Bahir Gachi, P.S. – Nakashipara, District – Nadia, West Bengal - 741126.                                    |
| 1482. | Sab Samaan Party  | House No. 95 K, Village – Sarsanda, Post – Gopramau, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh                                    |
| 1483. | Sabbath Party   | Shop No.3, Laxmi Niwas Building,M.N. Road, Kurla (W),Mumbai-400070,MAHARASTRA.   |
| 1484. | Sabki Party   | B-1/1, Sector-G, Jankipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 1485. | Sadan Vikas Party   | North Office Para, Gauri Shankar Nagar, House No.276, Doranda, Ranchi, Jharkhand.  |
| 1486. | Sadbhavana Party  | Room No.14, Ist Floor, Lucknow Hotel, Sri Ram Road Choraha, Aminabad, Lucknow-226018 (Uttar Pradesh).                              |
| 1487. | Sainik Samaj Party  | 317, Shiva Disposal Complex,Sanyukat Yatra Bus Adda Road,Chandrabhaga, Adarsh Gram, Rishikesh, Disstt. Dehradun-249201.Uttarakhand |



|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1488. | Sakhthi Baratha Desam                    | 2/58, Vairavan Chetty Store, Pachiyamman Padithurai, Madhurai-625001, Tamil Nadu.  |
| 1489. | Samagra Vikas Party                      | 1147/8 (157), P.L. Sharma Road, Meerut, Uttar Pradesh – 250001.  |
| 1490. | Samaikya Rashtra Samithi                 | D. No: 42-64-1/1, Luna Centre, Opp. M.K. Baig Municipal Corporation High School, Singhnagar, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh – 520015 |
| 1491. | Samaikya Telugu Rajyam                   | D. No.1-39-B(Serial No. 1026A), Chayapuram Village, Vajrakarur Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh-515842.                                  |
| 1492. | Samaikyandhra Parirakshana Samithi       | H.No. 8-3-580/1, Yellareddyguda, Ameerpet – 500073, Hyderabad, Andhra Pradesh.   |
| 1493. | Samaj Parivartan Party                   | Village – Salarpur, Post – Karaura, Tahsil – Machhlisahar, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.  |
| 1494. | Samaj Seva Party                         | House No. 27, Bahramgarh, Tehsil- Budana, District- Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.  |
| 1495. | Samaj Sevak Party                        | 568Kh/223, Sector – 7, Near Old Bharat gas Godam, Geetapalli, Alambagh, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 1496. | Samajik Ekta Party                       | 22, Housing Board Colony, Sonipat-131001 (Haryana).  |
| 1497. | Samajik Insaaf Party (Rashtrawadi)       | House No - 53, Village Lehari, Post Kuriyar, District – Basti, Uttar Pradesh - 272178.   |
| 1498. | Samajik Jantantrik Party                 | Mukam Raja Market, Cinema Road, Gopalganj Nagar Palika Post, Gopalganj-841428, Distt. Gopalganj (Bihar).   |
| 1499. | Samajik Nyaya Party                      | M-22, Mahavir Park, Marris Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).   |
| 1500. | Samajtantric Party of India              | 40/1, B – Road, Bamanghachi, Howrah – 711 006, (West Bengal).  |
| 1501. | Samajwadi Jan Parishad                   | Jai Malha Prasad, Reti Bunder Road, Mahagiri, Thane (W)-400601 (Maharashtra).  |
| 1502. | Samajwadi Janata Dal Democratic          | 14, Dr. Bishambhar Das Marg, New Delhi – 110 001.  |
| 1503. | Samajwadi Janata Party (Chandra Shekhar) | Narendra Niketan, Behind Police Headquarters, Indraprastha Estate, New Delhi-110002.   |
| 1504. | Samajwadi Janata Party (Karnataka)       | Room No.21, 2nd Floor, Hameed Shah Complex No.2, Cubbonpet, Main Road, Behind Ulsoor Gate Police Station, Bangalore-560002, Karnataka.             |
| 1505. | Samajwadi Kranti Dal                     | 3/197, Vidhayak Puram, Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.   |



|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
| 1506. | Samajwadi Samaj Party         | Ward No.13, Lohia Nagar,<br>Nagar Panchayat – Salempur,<br>Janpad - Deoria,Uttar Pradesh – 274001   |
| 1507. | Saman Adhikar Party           | 62/271, Nagla kachhiyan,<br>(Mustafa Quarter Colony),<br>Agra Cantt, Agra,Uttar Pradesh.  |
| 1508. | Samarth Kisan Party           | Prabandhak – Mother Teresa Convent School,<br>Village & Post – Manauri,Tehsil – Chayal,<br>Janpad – Kaushambi,Uttar Pradesh.  |
| 1509. | Samata Kranti Dal             | Plot No.3547/3875, Mouza Gautam Nagar,<br>Garage Chhaka, Temple Road, old Town<br>Bhubaneswar – 751002, Odisha.   |
| 1510. | Samata Party                  | 220, Vitthalbhai Patel House, Rafi Marg,<br>New Delhi – 110001.   |
| 1511. | Samata Samadhan Party         | E-1/150, Arera Colony, Bhopal,<br>Madhya Pradesh.   |
| 1512. | Samata Sangharsh Party        | 55 B, Radheypuri Extension-1, Delhi-110051  |
| 1513. | Samathuva Makkal Kazhagam     | 139- T.H. Road, Kaladipet, Thiruvottiyur,<br>Chennai,Tamil Nadu-600019.   |
| 1514. | Sampoorna Kranti Dal          | Village – Khajoori Kalan,<br>Post – Khajoori Khurd,Koraon, Allahabad,<br>Uttar Pradesh  |
| 1515. | Sampoorna Samaj Party         | H. No. 464, Village & Post – Gairwah,<br>P.S. – Sarpatahan, Tehsil – Shahganj,<br>District – Jaunpur, Uttar Pradesh-223103.   |
| 1516. | Samras Samaj Party            | Raji Jarai, Mouja – Ghamroj, Tehsil – Sohna,<br>District – Gurgaon,Haryana.   |
| 1517. | Samruddha Odisha              | 201, Sitalkunj Apartment,Plot No. M63,<br>Madhusudan Nagar,Bhubaneshwar – 751001,<br>Orissa.  |
| 1518. | Samta Dal (Pragatisheel)      | H. No. 480, Village – Lisari,<br>Tehsil & District – Meerut,<br>Uttar Pradesh - 250002.   |
| 1519. | Samta Samjwadi Congress Party | K - 56/114-7 (Raniphatak), Ausanganj,<br>Varanasi - 221001, Uttar Pradesh   |
| 1520. | Samta Vikas Party             | House Harbhajan Jangde, Ward No. 17,<br>Mandideep, Tehsil – Goharganj,<br>District - Raisen,Madhya Pradesh  |
| 1521. | Samtawadi Republican Party    | 108, Rampuram, PAC Road,<br>Kanpur,Uttar Pradesh.   |
| 1522. | Samuga Makkal Katchi          | No.3 Mudalair Street, Vallam Village,<br>Kancheपुरam Dt.Tamil Nadu – 602105.  |
| 1523. | Samuga Samatuva Padai         | 4/388, Ram Garden,Anna Salai,<br>Palavakkam,Chennai-600041,TAMIL NADU.  |
| 1524. | Samyak Parivartan Party       | Village –Janki Nagar,<br>Behind of Ranipurwa School,<br>Vikas Khand – Jhanyhri,<br>Near of Mande Nala Bridge,<br>Post – Bus Stop, Janpad – Gonda,<br>Uttar Pradesh. |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1525. | Sanatan Samaj Party                         | Ramanand Nagar, Begumpura, Ayodhya, Faizabad (Uttar Pradesh).  |
| 1526. | Sanatan Sanskriti Raksha Dal                | Village -Taraon, Post, Thana & Tehsil - Koraon, Distt. – Allahabad,Uttar Pradesh.  |
| 1527. | Sangharsh Party of India                    | House No. 314, Shanti Niketan, D.M. Road, Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203001  |
| 1528. | Sangharsh Sena                              | 11, Sairaj Complex,Pandit Naka, Shahapur, Tq. Shahapur, District – Thane, Maharashtra – 421601                           |
| 1529. | Sankhyanupati Bhagidari Party               | New Vighrapur, Mithapur, (Bus Stand) Patna-800001  |
| 1530. | Sanman Rajkiya Paksha                       | 56, Tirupati Nagar, Lohara, Taluk & District - Yavatmal, Maharashtra – 445002  |
| 1531. | Sanyukt Dastkar Party                       | P-205, Basti Khwaja Meer Dard, Barron Road, New Delhi-110002.  |
| 1532. | Sanyukt Samajwadi Dal                       | 11, Zones Lines, Agra – 282004,Uttar Pradesh.  |
| 1533. | Sanyukta Samaj Party                        | Village and Post-Khari,District-Bijnaur, Uttar Pradesh.  |
| 1534. | Sardar Vallabhbhai Patel Party              | 1, Olekar House, Dattapada Road, Borivali (East), Mumbai – 400 066.  |
| 1535. | Sarv Jan Sarv Samaj Party                   | 2/248, TF, Subhash Nagar, New Delhi – 110027.  |
| 1536. | Sarv Vikas Party                            | Village – Prateet Nagar, N.H. – 58, Near of Post Office,Raiwala, Dehradun, Uttarakhand - 249205.                         |
| 1537. | Sarva Jan Samaj Party (Nand Kishore Chawla) | Chawla Properties, Laxmi Vihar, Camry Road, Hisar, Haryana.  |
| 1538. | Sarva Janata Party                          | Central Party Office # 17, Javalli (Village), Pillangere (Post), Shimoga (Taluk), District – Shimoga - 577227 Karnataka. |
| 1539. | Sarva Samaj Kalyan Party                    | Bijraj Bhawan,Village - Singharpur, Post – Ahamadpur, Mathura Road,Aligarh, Uttar Pradesh.                               |
| 1540. | Sarva Samaj Vikas Party                     | Bamba Road, Sailai, Post Office – Sailai, District – Firozabad, Uttar Pradesh.   |
| 1541. | Sarva Suraksha Party                        | Village and Post- Tilakhwar, District - Karchhana, Allahabad, Uttar Pradesh  |
| 1542. | Sarvahara Samaj Party                       | 68-A Block, Darulshafa, Lucknow (Uttar Pradesh).   |
| 1543. | Sarvajan Hitay Party                        | 70/59, Leader Road, Allahabad, Uttar Pradesh -211003.  |
| 1544. | Sarvajan Kalyan Loktantrik Party            | COFFED, Meen Bhawan, 3rd Floor, New Punaichak,West Boring Canal Road, Patna,Bihar – 800023.                              |
| 1545. | Sarvajan Kalyan Party                       | In front of K-73, Hanuman Nagar, Kankarbag, Patna-800020,Bihar.  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1546. | Sarvajan Samaj Party (D)                    | Village & P.O. : Wadala Bangar,<br>Tehsil: Gurdaspur, District: Gurdaspur-143511,<br>Punjab.   |
| 1547. | Sarvajanik Kranti Party                     | Surya Lodge, Road ways,Azamgarh,<br>Uttar Pradesh.   |
| 1548. | Sarve Bhavanti Sukhinah Party               | Village & Post - Mamdar,<br>Tehsil & P.S. – Rampur Naikin,<br>District – Sidhi, Madhya Pradesh.  |
| 1549. | Sarvhara Dal                                | Kewala Fariyatta, Via. Gidhour, Distt- Jamui<br>(Bihar).   |
| 1550. | Sarvjan Samta Party                         | 774, Geetanjali Vihar, Ward No. 28, Loni,<br>Ghaziabad,Uttar Pradesh – 201102  |
| 1551. | Sarvochcha Rashtriya Vikas<br>Mahaparishad  | C-90,DDA Flat, West Gorakh Park,<br>(New Jafrabad) Shahdara,Delhi-110032.  |
| 1552. | Sarvodaya Bharat Party                      | B- 19, Sector- O, Aliganj,Lucknow,<br>Uttar Pradesh.   |
| 1553. | Sarvodaya Karnataka Paksha                  | "Aniketana" First Floor,SJM Samudaya<br>Bhavana, Kalidasa Road, Gandhinagar,<br>Bangalore-560 009, (Karnataka).                                |
| 1554. | Sarvodaya Prabhat Party                     | B-3/231,Nand Nagri,Delhi- 110093   |
| 1555. | Sarvshreshth Dal                            | Village - Shahdaudpur or Kakorgahna,<br>P.O. & Tehsil – Sader, District – Jaunpur,<br>Uttar Pradesh  |
| 1556. | Sarwajan Mahasabha                          | B-36/40, Kabir Nagar, Durgakund,<br>Varanasi –221005, Uttar Pradesh.   |
| 1557. | Sathi Aur Aapka Faisala Party               | Plot No. 2005, Village – Chamrahara,<br>Mahnar Road, District – Vaishali,<br>Bihar - 844507.   |
| 1558. | Satya Bahumat Party                         | A-112, Pratap Nagar, Street No. 15,<br>Mayur Vihar Phase-1,Delhi- 110091.  |
| 1559. | Satya Kranti Party                          | H. No. – 176 E, Shivpur,Sahbazganj,<br>Gorakhpur,Uttar Pradesh.  |
| 1560. | Satya Vijay Party                           | 101-C, Press House,22, Phiroz Gandhi Press<br>Complex,Agra – Mumbai Road,<br>Indore – 452 008, Madhya Pradesh.                                 |
| 1561. | Satyavadi Paksh                             | Room No. 4-5, Oriyan Complex,<br>Opp. Hotel Rajdhani, Railway Station<br>Road,Aurangabad-431005 Maharashtra.                                   |
| 1562. | Satyug Party                                | Village – Sukhatola, Dumri,Post – Kasya,<br>Distt. – Kushinagar,Uttar Pradesh.   |
| 1563. | Savarn Samaj Party                          | East Of Stadium, Nand Hardware, Sirmor<br>Road, Rewa-486001, (Madhya Pradesh).   |
| 1564. | Secular Alliance of India                   | Keswani Complex, 1 <sup>st</sup> Floor,<br>Above Navjeevan Cooperative Bank Ltd.,<br>Chopda Court Branch,<br>Ulhasnagar – 421003. Maharashtra. |
| 1565. | Secular Democratic Labour Party of<br>India | 6-2-44/3A, Jammibanda Street,<br>Khammam-507001, Andhra Pradesh.   |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1566. | Secular National Dravida Party                        | Kadakkavoor Buildings, Thumpara Nagar, Mundakkal, Kollam City, Kollam-691001, Kerala.                               |
| 1567. | Secular Party of India                                | House No.122-A, Ramvihar, Old Janipur, Jammu-180007 (J& K).   |
| 1568. | Secular Republican Democratic Party                   | Adam star Complex, Room No. 132, 1 <sup>st</sup> Floor, 2 <sup>nd</sup> Block, Thodupuzha, Idukki District, Kerala. |
| 1569. | Sehajdhari Sikh Party                                 | 622/9, Near Telephone Exchange, Raikot, District Ludhiana, Punjab.  |
| 1570. | Serv Bhalai Party                                     | H.No. 625, New Azad Nagar, Sultanwind Road, Amritsar, Punjab - 143001.  |
| 1571. | Seva Samrajya Party                                   | Dhabunaik Tanda, Aanandiwadi, Tq. – Palam, District – Parbhani, Maharashtra- 431536.                                |
| 1572. | Shakti Sena (Bharat Desh)                             | Simi Bhawan, National Highway 43, Cross Lane Tiraha, Devpuri, Raipur, Chhattisgarh- 492015.                         |
| 1573. | Shetkari Vichar Dal                                   | 49, Mamta, Anandnagar Co-op. Housing, Gulmohar Road, Savedi, Ahmednagar-414001, Maharashtra.                        |
| 1574. | Shining India Party                                   | Ward No.6, Post – Deshnok, District - Bikaner, Rajasthan – 334801   |
| 1575. | Shiromani Akali Dal (Amritsar) (Simranjit Singh Mann) | Village Quilla S. Harnam Singh, P.O. Tellania, District-Fatehgarh Sahib, Punjab- 140 406.                           |
| 1576. | Shiromani Akali Dal (Republic)                        | 9, Hakikat Nagar, Guru Tegh Bahadur Nagar, DELHI-110009.  |
| 1577. | Shiromani Lok Dal Party                               | Building No. 108, Near Krishna Mandir, Opposite Dana Mandi, G.T. Road, Amritsar, Punjab.                            |
| 1578. | Shiromani Youth Akali Dal (Kahlon)                    | 5/5051, Shakti Nagar, Khandwalla, Chaharta, Amritsar (Punjab).  |
| 1579. | Shivaji Congress Party                                | House No. 31, A/P Khakurdi, Tal. Malegaon, District – Nashik, Maharashtra.  |
| 1580. | Shivrajya Party                                       | Flat No. B/102, Deccan Apartment, Union Park, Pali Hill, Khar (West) Mumbai- 400052                                 |
| 1581. | Shoshit Samaj Adhikar Party                           | Tehsil – Kole, Thana – Gandhi Park, Janpad – Aligarh, Uttar Pradesh – 202001.                                       |
| 1582. | Shoshit Samaj Dal                                     | Center Office : Dakshnini Mandiree, Patna-800001 (Bihar).   |
| 1583. | Shoshit Samaj Party                                   | 4/8, Thyagraj Nagar (Near Safdarjung Bus Terminal), New Delhi-110003.   |
| 1584. | Shoshit Sandesh Party                                 | Gird Badgaon, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, Uttar Pradesh.   |
| 1585. | Shramajeevi Party                                     | 1-6-48, Old Alwal, Post – Bollaram, Secunderabad – 500010, Andhra Pradesh.  |
| 1586. | Shree Bharat Vikas Paksh                              | 220, Shreeji Complex, Near Ellisbridge Post Office, Ashram Road, Ahmedabad – 380 006(Gujarat).                      |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1587. | Shreshthatam Rashtra Party                  | Village – Jagsar, Post – Sarsava, Janpad – Kheeri-Lakhimpur, Uttar Pradesh.  |
| 1588. | Shri Janta Party                            | Manda Sadan, Dwarika Nagar, Rewa, Madhya Pradesh - 486001.   |
| 1589. | Shubha Karnataka                            | House No.1262, Kustagi Road, 1st Cross, Gajendragad, Distt. Gadag - 512114, Karnataka  |
| 1590. | Sikkim Gorkha Prajatantric Party            | Shimma Building, P.O. & P.S. Singtam, East Sikkim-737 134 (Sikkim).  |
| 1591. | Sikkim Himali Rajya Parishad Party          | Tulsikunj Building, Near Telephone Exchange, P.O. – Dara Gaon, 31-A, National Highway, Tadong Bazar, Tadong, Gangtok - 737102, Sikkim. |
| 1592. | Sikkim Jan-Ekta Party                       | Tinzir, Namchi, South Sikkim – 737 126   |
| 1593. | Sikkim Liberation Party                     | Tintek, East Sikkim, Gangtok, Sikkim – 737134  |
| 1594. | Sikkim Sangram Parishad                     | Deorali Bazaar, P.O.- Tadong, Gangtok, Sikkim- 737102.   |
| 1595. | Sikshit Berozgar Sena                       | Chandan Kumar Bahraicha, Khajurhawan, Madiyahun, Jaunpur, Uttar Pradesh.   |
| 1596. | Sinh Jan Sena Party                         | Near Public Library, Veraval-362265 (Gujarat).   |
| 1597. | Sirpanch Samaj Party                        | T-47, Old Nangal, Delhi Cantt-110 010.   |
| 1598. | Smast Bhartiya Party                        | W-6/5, DLF City Phase-III, Gurgaon – 122002, Haryana.  |
| 1599. | Social Action Party                         | Mylackal House, Ranny, Pathanamtitta Distt. Pin-689072 (Kerala).   |
| 1600. | Social Democratic Party of India            | 8/2, First Floor, Jangpura Extn., Hospital Road, Bhogal, New Delhi-110014.   |
| 1601. | Social Movement Party                       | H.O. – 539, Lane No. – 29, Rajpura Mangotrian, Jammu, Jammu & Kashmir-180001.  |
| 1602. | Socialist Janata Party                      | XB-1, Sah Vikas Apartment, Patparganj, Delhi – 110 092   |
| 1603. | Socialist Party (India)                     | Lohiya Mazdoor Bhawan, H. No. 41/557, Dr. Tufel Ahmed Marg, Narhi, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 1604. | Socialist Party (Lohia)                     | Siddiqui Building, 6122, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.   |
| 1605. | Socialist Party Secular                     | 505/506 Bhilawan, Lucknow Kanpur Road, (In front of Ajanta Hospital) Aalambagh, Lucknow -5, Uttar Pradesh.                             |
| 1606. | Socialist Republican Party                  | State Committee Office, Tutor's Lane, Statue, Trivandrum – 695001 (Kerala).  |
| 1607. | Socialist Unity Centre of India (Communist) | 48-Lenin Sarani (First Floor), Kolkata – 700 013, West Bengal.   |
| 1608. | Socialist Workers Party                     | Plot No – 218, Backside of Binayak Enclave, At- Kolathia, P.O. – Aiginia, District – Khordha, Bhubaneswar, Odisha – 751019             |
| 1609. | Socialistic Democratic Party                | Post Box No.1089, General Post Office, Srinagar-190001, Jammu and Kashmir.   |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1610. | Studentz United For Nation Party          | D. No. 12-464/4, B- Block, Tadepalli, District- Guntur, Andhra Pradesh - 522501   |
| 1611. | Suheldev Bharatiya Samaj Party            | Village: Fatehpur, Post: Katona, P.S. Phoolpur, Distt. Varanasi, Uttar Pradesh.   |
| 1612. | Sukhee Samaaj Party                       | 344 Bhonjha, Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh.   |
| 1613. | Sunder Samaj Party                        | Village + Post – Nangoi, Tahsil - Kharasia, Distt. – Raigarh, Chhattisgarh – 496665.  |
| 1614. | Super Nation Party                        | 57/1, Thathavalli Village, Kurumbhageri Post, Tirupattur Taluk, Vellore District, Tamil Nadu – 635653   |
| 1615. | Super Stars Makkal Kalagam                | D. No. 26, AVP Layout, 2 <sup>nd</sup> Street, Gandhi Nagar, Tiruppur, Tamil Nadu- 641603   |
| 1616. | Suraaj Party                              | 6-81, Office Building, Vishal Estates, Village – Annaram, Mandal – Jinnaram, District – Medak, Andhra Pradesh – 502313                                |
| 1617. | Suraaj Seva Dal                           | Village – Ramdi Jasuva, P.O. – Fatehpur, Tehsil- Haldwani, District – Nainital, Uttarakhand   |
| 1618. | Suraksha Samaj Party                      | Mohalla – Tarkapur (Sonkar Basti), Bhawan No. 1102/1, Ward No.7, Post & Tehsil – Sadar, Janpad – Mirzapur, Uttar Pradesh - 231001.                    |
| 1619. | Sushasan Party                            | House No. 558, Vill. + Post – Badsi, Tehsil – Bawanikhed, Distt. Bhiwani-127032, Haryana.   |
| 1620. | Swabhimani Party                          | 31/666, New Shanti Nagar, Raipur, Chhattisgarh – 492001   |
| 1621. | Swabhimani Paksha                         | Jaisingpur, District Kolhapur, Maharashtra – 416 101.   |
| 1622. | Swachh Bharat Party                       | Sai Baba Mandir Bhojyavas, Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan.  |
| 1623. | Swachh Swasth Swawlambijan Party          | H.No. 108, Payagipur, Opposite of near ITI, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228001  |
| 1624. | Swaraj (J)                                | Jungle Suhas Kunwari (Mahavir Chhapra), Post Office – Mahavir Chhapra, Police Station – Belipar, Tehsil – Sadar, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh. |
| 1625. | Swaraj Dal                                | No.4 Stop, Pattar Gudda, Post-Garaheharama, Port Blair-744101 (Andaman & Nicobar Islands).  |
| 1626. | Swaraj Janata Party                       | B-79-B, Street No. 7, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094   |
| 1627. | Swaraj Party – Yes (Subhash Chandra Bosh) | Village & P.O. Semrikhan Kot, Sidharth Nagar, Uttar Pradesh-272 192.  |
| 1628. | Swaraj Party (Loktantrik)                 | H.No. -17, Village – Mogalpur, Gram Panchayat – Mogalpur, P.O. – Bakhtiyarpur, District – Patna, Bihar – 803212                                       |
| 1629. | Swarajya Nirman Sena                      | House No. 396/1, Indira Vasahat, Uttam Nagar, Pune, Maharashtra - 411023.   |



|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1630. | Swarajya Party of India                    | B-33, Sector-C, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh., PIN Code-226024.  |
| 1631. | Swarashtra Jan Party                       | Tarkapur, Phulwariya, P.O. Sadar, Distt. Mirzapur – 231001, Uttar Pradesh.  |
| 1632. | Swarna Bharat Party                        | G-249 Palam Vihar, Gurgaon, Haryana – 122017  |
| 1633. | Swarna Yuga Party                          | No. 26, “ Amma” Ist Main Road, Dollars Colony, RMV 2nd Stage, Bangalore – 560 094, Karnataka.                     |
| 1634. | Swarnim Bharat Inquilab                    | L.G. - 22, Sunrise Tower 579, M.G. Road, Indore, Madhya Pradesh.  |
| 1635. | Swatantra Adarshwadi Bhartiya Kranti Party | Village & Post- Lutuhi, Yanha Mahuli, Distt.- Sant Kabir Nagar, Khalilabad, Uttar Pradesh.                        |
| 1636. | Swatantra Bharat Paksha                    | ‘Rahi’, Khokadpura, Aurangabad-431001, Maharashtra.   |
| 1637. | Swatantra Rashtravadi Party                | 12-H, In front of Traffic Kotwali, Dariyaganj, New Delhi-110 002.   |
| 1638. | Swatantra Samaj Party                      | Village & Post – Lebhri, P.S. – Darauli, Block/Circle – Mairva, Pin Code – 841 239, District – Siwan, Bihar.      |
| 1639. | Taayi Nadu Party                           | 44/15, Kamraj Raod, Shivaji Nagar, Bangalore-560001, Karnataka.   |
| 1640. | Tamil Desiyak Katchi                       | 80-A, Chamundi Shopping Complex, Salem-636007 (Tamil Nadu).   |
| 1641. | Tamil Maanila Congress (Moopanar)          | No.4, Ashoka Road, Alwarpet, Chennai – 600018.  |
| 1642. | Tamil Maanila Katchi                       | No. 74, Jermiah Road, Vepery, Chennai, Tamil Nadu – 600007  |
| 1643. | Tamil Maanila Quaide Milleth League        | 579, Anna Salai Teynampet, Chennai – 600 006, Tamil Nadu.   |
| 1644. | Tamil Manila Dravida Munnetra Kazhagam     | Door No.296, Ambedkar Street, Uthukkadu Village & Post, Walajabad Via Kancheepuram Taluka & District, Tamil Nadu. |
| 1645. | Tamil Nadu Peasants & Workers Party        | No. 1, Jayammal Road, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).   |
| 1646. | Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam          | 563, Shanti Colony, N.K.B. Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.   |
| 1647. | Tamilaga Sthabana Congress                 | 26/1, 33E, Henry Road, Nesamony Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu- 629001.   |
| 1648. | Tamilar Desiya Munnani                     | 119/A, Dippoline C.Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu-600043   |
| 1649. | Tamilar Makkal Katchi                      | Village – Thumbalahallidam, P.O. – Gendiganahalli, Taluk – Palacode, District – Dharmapuri, Tamil Nadu - 635205.  |
| 1650. | Tamilina Vidiyal Pulikal Iyakkam,          | Annai Illam, Pallavan Nagar, Third Street, Theni Main Road, Madurai-625 016, Tamil Nadu.                          |



|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1651. | Tamilnadu Jananayaka Congress                     | 327, Lloyds Road, Royapettah, Chennai – 600 014, Tamil Nadu.   |
| 1652. | Tamilnadu Mahatma Gandhi Makkal Katchi            | Door No. 9-2/1C, Thettivilai Veedu, Near Sree Devi Kumari Women's College, Kuzhithurai, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629163.                           |
| 1653. | Tamilnadu Makkal Urimai Katchi                    | 43, V.O.C. Nagar, Kichipalayam, Salem, Tamil Nadu – 636015.  |
| 1655. | Tamilnadu Telungu Makkal Katchi                   | Door No.-1/803, Opposite Karpagam University, Pollachi Main Road, Coimbatore, Tamil Nadu – 641021  |
| 1655. | Tamizhaga Makkal Jananayaga Katchi,               | Vanavil Illam, No. 9, East 7th Street, Pudukkottai-622001, Tamil Nadu.   |
| 1656. | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi                     | 13-6-54, Pillaiyar Koil Street, Samrajapettai Post, Mecheri Mettur Tk., Salem District, Tamil Nadu – 636451.   |
| 1657. | Tamizhar Party                                    | 8/43, M.T.C. Road, Mattur Dam, 1, Salem District, Chennai-600017 (Tamil Nadu).   |
| 1658. | Telangana Communist Party of India                | H. No. 3-4-760/19, Beside Narayanaguda, Flyover Bridge, Barkatpura, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500027.  |
| 1659. | Telangana Karmika Raithu Rajyam Party             | Village – Bairanpally, Post – Siddapur, Mandal – Hasanparthy, District – Warangal, Telangana.  |
| 1660. | Telangana Labour Party                            | H.No.8-2-293/82/BJR/A/1, BJR Nagar, Film Nagar, Jubilee Hills, Mandal: Shaikpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500096.   |
| 1661. | Telangana Loksatta Party                          | Plot No. 46, Flat No. 201, Gunrock Teachers Colony, Trimulgherry, Secundrabad- 500015 Andhra Pradesh   |
| 1662. | Telangana Minorities OBC Rajyam                   | 17-3-4, Rein Bazar, Yakutpura, Hyderabad, Andhra Pradesh -500023.  |
| 1663. | Telangana Praja Samithi (Kishore, Rao and Kishan) | H.No.10-4-108, Girmajipet, Warangal-506002, Andhra Pradesh.  |
| 1664. | Telangana Rashtra Punahnirmana Samithi            | H. No.1-3-186/a, Vidya Nagar, Bhongir, District – Nalgonda, Andhra Pradesh - 508116.   |
| 1665. | Telangana Sakalajanula Party                      | H. No. 4-2-99, NFC (Nuclear Fuel Corporation Colony), Bandlaguda Jagir (Village) & (Post), Rajendra Nagar Mandal, Ranga Reddy Dist. – 500 086 Andhra Pradesh |
| 1666. | Telangana Studentz United for Nation Party        | H.No. 3-85, Bowrampet Village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500043.   |
| 1667. | Telangana Independent Party                       | House No.5-2-13, Tirumala Nagar, Moulali, R.R. District, Kapra Circle, Hyderabad, Andhra Pradesh- 500040   |
| 1668. | Telugu Bahujana Party                             | 8/160-A, Mittapalem Street, Gudur, SPSR Nellore District, Andhra Pradesh – 524101.   |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1669. | Telugu Congress Party                                  | 8-2-38, Opp. G.P. office, Bhavaninagar, Vemulawada, Karim Nagar District, Andhra Pradesh – 505302.                                |
| 1670. | Thalli Telangana Party                                 | Plot No.50, Road No.5, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033, Andhra Pradesh.  |
| 1671. | Thamizhaga Munnetra Congress                           | No. 91, Ponnusamy Nagar, 3 <sup>rd</sup> Street Perambur, Division 68, Chennai-600011, Tamil Nadu.                                |
| 1672. | Thanthai Periyar Dravida Munnetra Kazhagam             | 23, Alagappan Street, Thenkarai Periyaklam, District - Theni, Tamil Nadu - 625601.  |
| 1673. | The Future India Party                                 | No: 2/191 B, Nethaji Street, Opp. to Elite School, M.A. Nagar, Redhills, Chennai, Tamil Nadu - 600052.                            |
| 1674. | The Humanist Party Of India                            | 34, Lavina, 52A, Tagore Road Santa Cruz (West), Mumbai-400054 (Maharashtra).  |
| 1675. | The Imperial Party of India                            | 190, Shrinagar Main, Indore – 452001, Madhya Pradesh.   |
| 1676. | The Lok Party of India                                 | Room No. 7, Building No. 61, 1 <sup>st</sup> Floor, 2 <sup>nd</sup> Lane, M.R. Road, Kamathipura, Mumbai – 400 008. Maharashtra . |
| 1677. | The National Road Map Party of India                   | B-145, New Ashok Nagar, Delhi- 110096.  |
| 1678. | The Public Welfare Party                               | Sonapur Complex, Alhadnagar, Ward No.14, East of Zilla Complex High School, Gadchiroli, Maharashtra - 442605.                     |
| 1679. | The Religion of Man Revolving Political Party of India | Kabirtirtha, Kabitanagar, P.O.Bongaon, Distt. 24-Parganas (North)-743235 (West Bengal).   |
| 1680. | Third View Party                                       | 203, Hill View, Plot No. 85, Lullanagar, Near Mount Carmel Convent School, Pune-411 040, (Maharashtra).                           |
| 1681. | Thozhilalar Party                                      | No. 28A, Metu Street, Nemilichery, Chrompet, Chennai-600044 Tamil Nadu.   |
| 1682. | Thrinamool Tamil Nadu Congress                         | 189/1, Amaravathi Street (Near Five Roads), Reddiyur Village, District – Salem - 636004, Tamil Nadu.                              |
| 1683. | Tippu Sultan National Republic Party                   | No.24, Ist Main, 13th Cross, Bapujinagar, Mysore Road, Bangalore – 560 026, Karnataka.  |
| 1684. | Tola Party   | H. No. – 56, Ward No. – 14, Andhua Patti, Hodel, (Palwal), Haryana.   |
| 1685. | Total Vikas Party                                      | C-95 A-1, 2 <sup>nd</sup> Floor, Ardee City, Sector – 52, Gurgaon, Haryana – 122011.  |
| 1686. | Trikalinga Congress                                    | Palanka Koligadia, P.O.- Gunthuni Barchana, District- Jajpur, Pin- 754024, Odisha.  |
| 1687. | Trilinga Praja Pragati Party                           | B-118, Madhuranagar, S.R. Nagar post, Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.   |
| 1688. | Trinamool Gana Parishad                                | Ananda Plaza Complex, 4th Floor, Ganeshguri Chariali, Gawahati-781006 (Assam).  |
| 1689. | Tripura Peoples Party                                  | 8/9, Jail Ashram Road, Dhaleswar, Agartala, TRIPURA- 799007   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1690. | Truth, Equality, Justice Applying Service Dal | B-35, Anandlok, Near Shriji Baba School, Post – Krishna Nagar, Govardhan Marg Mathura Teh. & Dist. – Mathura, Uttar Pradesh- 281004. |
| 1691. | Twenty 20 Party                               | Building No.IV/172, Ikkarnadu Panchayath, Kadayiruppu PO, Kunnathunadu Taluk, Ernakulam Dist.,Kerala - 682311                        |
| 1692. | Ujala Party                                   | E-26, Gali No.9, Near Water Tank, Subhash Vihar, Bhajanpura, Delhi-53.   |
| 1693. | Ujjawal Rashtra Party                         | Village - Ahirawan,Post – Barua, Tahsil – Sandila,District – Hardoi, Uttar Pradesh – 241304  |
| 1694. | Ulaga Makkal Katchi                           | No. 15/24A, Methukummal Junction, Methukummal Post,Kanyakumari District, Tamil Nadu – 629172.  |
| 1695. | Ulzaipali Makkal Katchy                       | 74, Santhi Nagar, Ist Street,S.M. Nagar Post, Chennai – 600 062Tamil Nadu.   |
| 1696. | Union Party of India                          | TA – 208 A, Ravi Dass Marg, Tughlakabad Extension,New Delhi-110019.  |
| 1697. | United Bodo Nationalist Liberation Front      | C/o Deori Bora, Rambhapuri, Kahilipara, Guwahati, (Assam).   |
| 1698. | United Citizen Party                          | D-29, Kondli, Delhi-110096.  |
| 1699. | United Communist Party of India               | 29/116, Gali No.10, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi-110 032.   |
| 1700. | United Congress Party                         | 201/202, 2 <sup>nd</sup> Floor,Sukumar Corner, 127- J.P.Road, Dawood Baug Lane, Andheri (West),Mumbai, Maharashtra-400058.           |
| 1701. | United Democratic Front Secular               | 539/13, Shastri Nagar, Meerut,Uttar Pradesh.   |
| 1702. | United Front (Party)                          | Abu Fakharuddin Plaza,Langar Toli Chauraha, Bari Path,Patna-800004,Bihar.  |
| 1703. | United Goans Democratic Party                 | 1st Floor, Casa Dos Aliados, Behind Gomat Vidya Niketan, Absde Faria Road, Margao, Goa-403601.                                       |
| 1704. | United India Peoples Party                    | Manjamattam, Moozhoor P.O., Kottayam Distt. (Kerala).  |
| 1705. | United Indian Democratic Council              | No.1205, II-Stage, Rajaji Nagar, Bangalore-560010 (Karnataka).   |
| 1706. | United Minorities Front, Assam                | Ulubari, Guwahati-781007 (Assam).  |
| 1707. | United Naga Democratic Party, Nagaland        | Ward No. 7, Near Agape School,Chumukedima – 797 103,Dimapur – 797 112 (Nagaland).  |
| 1708. | United National Loktantrik Party              | D-786, Jaidpur Extn., Part – II, Badarpur, Delhi - 110044.   |
| 1709. | United National Party                         | Village Shantinagar,Mauja - Sannpura, Post – Gonsili, Tehsil – Baah, District - Agra, Uttar Pradesh – 283104                         |
| 1710. | United People's Front                         | City Regency Building,R.K.B. Road, Dibrugarh,ASSAM-786001  |
| 1711. | United People's Party, Liberal                | J.D. Road, Ward No.4,P.O. – Kokrajhar, District – Kokrajhar, BTAD,Assam – 783370   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1712. | United People's Democratic Party (Socialist) | Tangkhum Avenue, Imphal, Manipur-795001.   |
| 1713. | United Peoples Party of Assam                | S.S. Road, Lakhtokia, Guwahati-781001, Assam.  |
| 1714. | United Reservation Movement Council Of Assam | Post Box No. 2, P.O.Rehabari, Guwahati-781008 (Assam).   |
| 1715. | United Secular Congress Party of India       | 2/104 B, Kurla Jai Hind Budhvikas, SRA Grihnirman Sanstha, Maryadit Nehru Nagar, Kurla (East), Mumbai-400024, Maharashtra.         |
| 1716. | United Tribal Nationalists Liberation Front  | Deulguri, Harisingh Darrong-784510 (Assam).  |
| 1717. | United Women Front                           | At-Parabil, P.O.-Kandarpur, Dist-Cuttack-754100, Odisha.   |
| 1718. | Upekshit Samaj Party                         | F-15, Bhagat Singh Market, Near Gole Market, New Delhi-110001.   |
| 1719. | Urimai Meetppu Kazhagam                      | New No. 10A, Krishna Street, Irumbuliyur, West Tambaram, Chennai-600045, Kanchi Street, Tamil Nadu.                                |
| 1720. | Urs Samyuktha Paksha                         | No. 46, Palace Road, Bangalore – 560 001, Karnataka.   |
| 1721. | Utkal Bharat                                 | Plot No. 296/2624, At – Govinda Prasad, East Canal Road, In front of Twin Bridge, P.O. – G.G.P. Colony, Bhubaneswar-751010 Odisha. |
| 1722. | Utkal Samaj                                  | Anandayan, Plot No.-567/2, Kanan Vihar, Phase – II, Bhubaneswar – 751 031 Orissa.  |
| 1723. | Utkrisht Party                               | 1 <sup>st</sup> Floor, Rakesh Cloth House, Main Bazar, Village- Narot Mehra, Tehsil & District- Pathankot, Punjab.                 |
| 1724. | Uttar Pradesh Republican Party               | 552/2, Rajendra Nagar, 2nd Street, Lucknow-226004 (U.P.).  |
| 1725. | Uttar Pradesh United Democratic Front        | 38-Royal Hotel, Vidhan Sabha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 1726. | Uttarakhand Janshakti Party                  | Sushila Berthwal Niwas, Near Doordarshan Prasar Bharti Office, Haridwar Bye-Pass Road, Dehradun, Uttarakhand- 248001.              |
| 1727. | Uttarakhand Kranti Dal                       | Rochipura, P.O. Majra, Dehradun, Uttarakhand.  |
| 1728. | Uttarakhand Kranti Dal (Democratic)          | 85/12 – B, Nash Villa Road, Dehradun-248001, (Uttaranchal).  |
| 1729. | Uttarakhand Parivartan Party                 | Sah Bhavan, Veer Chandra Singh Garhwali Marg, Gairsain, Distt. – Chamoli, Uttarakhand.   |
| 1730. | Uttarakhand Pragatisheel Party               | 13, Subhash Road, Opposite back gate of St. Joseph School, Dehradun-248001, Uttarakhand.   |
| 1731. | Uttarakhand Raksha Morcha                    | H. No. 1, Village – Nouka (Dour Wala), Post - Mothronwala, Vikaskhand Raipur, District – Dehradun, Uttarakhand.                    |
| 1732. | Uttarakhand Sanskriti Parishad               | D-355, Vinod Nagar (West), Delhi-110092.   |

|       |                                       |   |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1733. | Uttarakhand Sena Party                | Jai Matadi Apartment, 10/1, Near Shankar Mandir, Juna Kalwa, Bela Road, Kalwa, Thane (W), Maharashtra-400605.                 |
| 1734. | Uttarkhand Janwadi Party              | 53-K, Rajpur Road, Dehradun, Uttaranchal.   |
| 1735. | Vaicharik Kranti Party                | F- 11, 12, 13, Ishwari Dayal Complex-92, Gautam Buddha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 1736. | Valamaana Tamizhagam Katchi           | H-982, 23 <sup>rd</sup> Street, 13 <sup>th</sup> Main Road, Annanagar, Chennai, Tamil Nadu- 600040.                           |
| 1737. | Valimai Valartchi Indians Party       | 411 D, Goundachi Palayam, Vadamugam Vellode, Erode District, Tamil Nadu - 638112.   |
| 1738. | Vanchitsamaj Insaaf Party             | 39, Adarsh Nagar, c/o Dr. Sheikh Maholi Road, Mathura, Uttar Pradesh.   |
| 1739. | Varthur Congress Party                | No.98, Varthur Main Road, Bangalore East, Bangalore – 560087 Karnataka.   |
| 1740. | Vichara Jagruthi Congress Paksha      | Door No. 275 of Hebbalu Village and Post, Davangere Taluk and District, Karnataka.  |
| 1741. | Vidarbh Maza Party                    | 237, Post- Ubali, Tahsil- Kalmeshwar, District- Nagpur, Maharashtra.  |
| 1742. | Vidarbha Vikas Party                  | Block A, Second Floor, Poonam Chambers, Chhindwara Road, Nagpur-13 (Maharashtra).   |
| 1743. | Vidharbha Rajya Party                 | Kamgar Bhawan, Near Baidyanath Chowk, Great Nag Road, Nagpur-3, Maharashtra.  |
| 1744. | Vidhayak Dal                          | HIG-205, Sector-1, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.   |
| 1745. | Vidial Valarchi Perani                | 37-B, Keela theru, Ichikamalai Patti, K.Sathanur (Post), Thiruchirapalli, Tamil Nadu - 620021                                 |
| 1746. | Vidiyalai Thedum Indhiyargal Party    | #10/2032, South Thiruppachethi, Post - Thiruppachethi, Taluk - Thiruppuvanam, District – Sivagangai, Tamil Nadu 630610.       |
| 1747. | Viduthalai Chiruthaigal Katchi        | No. 16, Chinnaiah Street, T-Nagar, Chennai – 17, Tamil Nadu.  |
| 1748. | Viduthalai Makkal Munnetra Kazhagam   | No. 11, Kabilar Street, Devanampattinam, Cuddalore District, Tamil Nadu.  |
| 1749. | Vijaya Bharatha Makkal (People) Party | 70, 2 <sup>nd</sup> Floor, Braod Bazzar Street, Ambur-635802, Vellore District, TAMIL NADU                                    |
| 1750. | Vikas India Party                     | T-192, Street No.2, Gautam Puri, Delhi-110053   |
| 1751. | Vikas Insaaf Party                    | House No. 23, Ward No.10, Mahmoodpur Pargana, Near P. C. F. Godown, Tehsil- Sadar, District – Fatehpur, Uttar Pradesh -212601 |
| 1752. | Vikas Parishad                        | 62A, Shastri Colony, Ambala Cantt. Haryana – 133001.  |
| 1753. | Vikas Party                           | Satyagarh Marg, Darul Safa Compound, Lucknow (Uttar Pradesh).   |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1754. | Vikassheel Samaj Party                     | H. No. 5E-5/70 Vrindavan Yojana, Raibareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh.  |
| 1755. | Vishal Party of India                      | Village – Chaurha, P.O.-Degham, Tehsil – Garhshankar, District – Hoshiarpur, Punjab – 144527.                     |
| 1756. | Vishva Shakti Party                        | B-10/144, Pradeep Vihar, Nathupura More Delhi -110084.  |
| 1757. | Vishwa Hindustani Sangathan                | 3/105, Anandnagar, 100 ft. Ring Road, Satellite Vejalpur, Ahmedabad, Gujarat.                                     |
| 1758. | Vishwa Manav Samaj Kalyan Parishad         | Village & Post – Chandapur, Wazirganj, District – Gonda, Uttar Pradesh.   |
| 1759. | Vishwa Vikas Sangh                         | F-53/F-1, Dilshad Colony, Delhi – 110 095.  |
| 1760. | Vivasayi Anbhu Katchi                      | No.14, Raghava Nattan Street, Uthiramerur-603 406, Tamil Nadu.  |
| 1761. | Voters Party                               | A, 1/75, Freedom Enclave, Neb Sarai, IGNOU Road, New Delhi – 110068   |
| 1762. | Voters Party International                 | H. No. 385, Street No. 12/3, Wazirabad Village, Delhi- 110084.  |
| 1763. | Vyabasayi Kisan Alpasankhyak Morcha        | H. No.12, Maharajganj, Jamui, District – Jamui, Bihar – 811307.   |
| 1764. | War Veterans Party                         | A/301-302, Pearl Aptt., I.C. Colony, Borivali (West), Mumbai-400 103, Maharashtra.                                |
| 1765. | Watan Janta Party                          | 3/4/7 A, Mugalpura, Ayodhya, Faizabad, Uttar Pradesh  |
| 1766. | Welfare Party of India                     | 122/1, Zakir Nagar, Jamia Nagar, New Delhi-110025.  |
| 1767. | West Bengal Pragatishil Indira Congress    | 68 – B, A.P.C. Road, Kolkata – 700 009, West Bengal.  |
| 1768. | West Bengal Socialist Party                | 42-Ananda Palit Road, Kolkata-700014, (West Bengal).  |
| 1769. | Yekikrutha Sankshema Rashtriya Praja Party | D No7-1-500, NGO Colony, YSR Street, Siddavatam Road, Badvel-516227, YSR District, Andhra Pradesh.                |
| 1770. | Young India Party                          | Circle No. 28, Holding No. 128/113, Arya Kumar Road, Machhuatoli, P.S- Kadamkuan, District - Patna, Bihar -800004 |
| 1771. | Young India Tangress Party                 | Yelam Galli, Tugav(H), Taluk – Bhalki, Distt. – Bidar, Karnataka.   |
| 1772. | Youth and Students Party                   | R.P. Estates, 4/1, Poonamallee High Road, Koyambedu, Chennai-600 107.   |
| 1773. | Youth Brigade                              | Village Kakgachi, P.O-Bhanderhali, District Hooghly, West Bengal.   |
| 1774. | Youth Democratic Front                     | H.No.1-10-63/5, Plot No.44, Chikoti Gardens, Begumpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500016.                          |
| 1775. | Youth For Equality                         | P-90A, IInd Floor, South Extension-II, New Delhi - 110034.  |



|       |                         |   |
|-------|-------------------------|---|
| 1776. | YSR Bahujana Party      | 28/434, Rameshwaram, Proddatur-516360, Kadapa District, Andhra Pradesh.                                   |
| 1777. | Yuva Anubhav Party      | House No. – 393 – I, Haritima, Rajiv Nagar, West Basharatpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh.                   |
| 1778. | Yuva Jagriti Dal        | 3-B, Prayosha Flats, Near Gymkhana, Sector-19, Gandhinagar-382 019, Gujarat.                              |
| 1779. | Yuva Jankranti Party    | Kasba – Kerakat, Mohalla – Shekhzada 2 <sup>nd</sup> , Post – Kerakat, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.   |
| 1780. | Yuva Janta Party        | Building No. 91/1, Grant Ganj, Main Market Mahoba, District – Mahoba, Uttar Pradesh - 210427.             |
| 1781. | Yuva Kranti Dal         | B-667, Aman Vihar, Post Office-Sultanpuri, Distt.-North-West, New Delhi-110 086.                          |
| 1782. | Yuva Party              | 1-8-1-83, Garage No.83, Ground Floor, Baghlingampally, Hyderabad, Andhra Pradesh.                         |
| 1783. | Yuva Sarkar             | 161, Vanmali Park Society, Hari Krishna Chowk, Dharmakul Ashrit Road, Puna-Simada, Surat-394211, GUJARAT. |
| 1784. | Yuva Shakti Sanghathana | Bhangdia Wada, Tilak Ward, Tah. Chimur, District – Chandrapur, Maharashtra                                |
| 1785. | Yuva Telangana Party    | Plot No. 143&144, Rock Town Colony, Alkapuri, Monsoorabad, Hyderabad- 500068.                             |
| 1786. | Yuva Vikas Party        | Serawan, Atrampur, Allahabad, Uttar Pradesh.  |

TABLE-IV

## (LIST OF FREE SYMBOLS)

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | Air Conditioner  |
| 2.  | Almirah  |
| 3.  | Auto- Rickshaw<br>(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana) |
| 4.  | Balloon  |
| 5.  | Bangles  |
| 6.  | Basket containing Fruits<br>(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)          |
| 7.  | Bat  |
| 8.  | Batsman  |
| 9.  | Battery Torch  |
| 10. | Bead Necklace  |
| 11. | Belt   |
| 12. | Bench  |
| 13. | Binoculars   |
| 14. | Biscuit  |
| 15. | Black Board  |
| 16. | Boat with Man and Sail   |



|     |  |
|-----|--|
| 17. | Bottle   |
| 18. | Box  |
| 19. | Bread  |
| 20. | Brief Case   |
| 21. | Brush  |
| 22. | Bucket   |
| 23. | Cake   |
| 24. | Calculator   |
| 25. | Camera   |
| 26. | Can  |
| 27. | Candles  |
| 28. | Carpet   |
| 29. | Carrom Board   |
| 30. | Cauliflower  |
| 31. | Chakki   |
| 32. | Chapati Roller   |
| 33. | Chappals   |
| 34. | Chess Board  |
| 35. | Clip   |
| 36. | Coat   |
| 37. | Coconut  |
| 38. | Coconut Farm   |
| 39. | Colour Tray & Brush  |
| 40. | Cot<br>(In all States and Union Territories except in the State of Kerala) |
| 41. | Cube   |
| 42. | Cup & Saucer   |
| 43. | Cutting Pliers   |
| 44. | Dao  |
| 45. | Diamond  |
| 46. | Diesel Pump  |
| 47. | Dish Antenna   |
| 48. | Dolli  |
| 49. | Door Bell  |
| 50. | Electric Pole  |
| 51. | Envelope   |
| 52. | Flute  |
| 53. | Frock  |
| 54. | Frying Pan   |
| 55. | Funnel   |
| 56. | Gas Cylinder   |
| 57. | Gas Stove  |
| 58. | Glass Tumbler  |
| 59. | Grapes   |
| 60. | Green Chilli   |
| 61. | Harmonium  |

|      |   |
|------|---|
| 62.  | Hat<br>(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana) |
| 63.  | Helmet  |
| 64.  | Hockey and Ball   |
| 65.  | Ice Cream<br>(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)              |
| 66.  | Iron  |
| 67.  | Lady Finger   |
| 68.  | Letter Box  |
| 69.  | Mixee   |
| 70.  | Nail Cutter   |
| 71.  | Neck Tie  |
| 72.  | Pears<br>(Except in Tamil Nadu and Pudducherry)   |
| 73.  | Peas  |
| 74.  | Pen Nib with Seven Rays   |
| 75.  | Pen Stand   |
| 76.  | Pencil Sharpener  |
| 77.  | Pestle and Mortar   |
| 78.  | Pillow  |
| 79.  | Plate Containing Food   |
| 80.  | Plate Stand   |
| 81.  | Pot   |
| 82.  | Pressure Cooker   |
| 83.  | Razor   |
| 84.  | Refrigerator  |
| 85.  | Ring  |
| 86.  | Safety Pin  |
| 87.  | Saw<br>(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)                        |
| 88.  | School Bag  |
| 89.  | Scissors  |
| 90.  | Sewing Machine  |
| 91.  | Shoe  |
| 92.  | Skipping Rope   |
| 93.  | Slate   |
| 94.  | Stethoscope   |
| 95.  | Stool   |
| 96.  | Swing   |
| 97.  | Syringe   |
| 98.  | Table   |
| 99.  | Tea Filter  |
| 100. | Telephone   |
| 101. | Television  |
| 102. | Tennis Racket & Ball  |
| 103. | Tent  |

|      |               |
|------|---------------|
| 104. | Tooth Brush   |
| 105. | Trumpet       |
| 106. | Violin        |
| 107. | Walking Stick |
| 108. | Water Melon   |
| 109. | Whistle       |
| 110. | Window        |

By order,  
(VARINDER KUMAR),  
PRINCIPAL SECRETARY,  
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश  
**STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH**

आमर्जडेल शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152  
e-mail: secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

*Dated, the 4<sup>th</sup> January, 2017*

**No.SEC-13-90/2016-IV-59-104.**—In exercise of the powers vested in it under Article 243-ZA of the Constitution of India, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 2015, the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the Election Programme for the conduct of by-elections to vacancies in Municipal Council Ner-Chowk and Nagar Panchayat Karsog District Mandi as under:—

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Nomination papers shall be presented:  | On 11th, 12th and 13th January, 2017 (between 11 am to 3 pm). Nomination papers shall be filed at specified places and before the Officers appointed by the Returning Officer. |
| 2. | The nomination papers shall be scrutinized:  | On 16th January, 2017 (From 10.00 am onwards)  |
| 3. | A candidate may withdraw his candidature:  | On 18th January, 2017 (Between 10.00 am to 3.00 p.m.)  |
| 4. | List of contesting candidates showing the name of symbol allotted to them shall be prepared and affixed: | On 18th January, 2017 immediately after the time of withdrawal is over.  |
| 5. | List of Polling stations shall be published:   | On or before 11th January, 2017  |
| 6. | The Poll, if necessary, shall be held from <u>7 AM to 3 PM</u> :   | On 29th January, 2017.   |
| 7. | Counting of votes, in the event of Poll, shall be done:  | The counting of votes shall be taken up immediately after the close of the poll at the Municipal Headquarters.   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 8. | The results of election shall be declared. | The results of the election shall be declared immediately after the counting is over. |
|----|--|---|

*Note:—*The process of election shall be completed by 31st January, 2017

By order,  
Sd/-  
State Election Commissioner,  
Himachal Pradesh.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश  
**STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH**

आमजडेल शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152  
e-mail: secysec-hp@nic.in

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers vested in it under Rule 17(a) of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 2015 the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the First day January, 2017 as the date for determining whether a person is qualified to be enrolled as an elector in the electoral rolls to be prepared for the conduct of by- elections in Municipal Council Ner-Chowk and Nagar Panchayat Karsog of District Mandi with reference to the fact that he/she is not less than 18 years of age on this date.

By order,  
Sd/-  
State Election Commissioner,  
Himachal Pradesh.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश  
**STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH**

आमजडेल शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152  
e-mail: secysec-hp@nic.in

**NOTIFICATION**

Whereas the State Election Commission has issued election programme for the conduct of by-elections to vacancies in Municipal Council Ner-Chowk and Nagar Panchayat Karsog District Mandi vide Notification No.SEC-13-90//2016-IV dated 04th January, 2017.

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243-ZA of the Constitution of India, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 hereby directs that the Model Code of Conduct shall come into force in the Municipal Council Ner-Chowk and Nagar Panchayat Karsog District Mandi with immediate effect, till the election process is over.

By order,  
Sd/-  
State Election Commissioner,  
Himachal Pradesh.

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,  
District Shimla H.P.**

In the matter of :

1. Mr. Jai Pal s/o Shri Ram Lal, aged 31 years, r/o Village Chhagog, P.O. Shiwan, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P.
2. Mrs. Nisha w/o Shri Jai Pal aged 23 years, r/o Village Chhagog, P.O. Shiwan, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P. . . Applicants.

*Versus*

General Public

.. Respondent.

*Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.*

Mr. Jai Pal s/o Shri Ram Lal, aged 31 years, r/o Village Chhagog, P.O. Shiwan, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P. and Mrs. Nisha w/o Shri Jai Pal aged 23 years, r/o Village Chhagog, P.O. Shiwan, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-07-2016 at Village Chhagog, P.O. Shiwan, Tehsil Kumarsain, District Shimla, H.P. according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-01-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5<sup>th</sup> day of the December, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,  
District Shimla H.P.**

In the matter of :

1. Mr. Daleep Singh s/o Shri Padam Singh, aged 38 years, r/o Village Majhgaon, P.O. Shahdhar, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P.
2. Seema Thakur d/o Shri Harbhajan Singh, aged 32 years, r/o House No. 334 Type 1-A, Sector 2, Naya Nangal, District Ropar, Punjab . . Applicants.

*Versus*

General Public

.. Respondent.

*Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.*

Mr. Daleep Singh s/o Shri Padam Singh, aged 38 years, r/o Village Majhgaon, P.O. Shahdhar, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. and Seema Thakur d/o Shri Harbhajan Singh, aged 32 years, r/o House No. 334 Type 1-A, Sector 2, Naya Nangal, District Ropar, Punjab have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-10-2015 at Ghanahti, District Shimla, H.P. according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-01-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5<sup>th</sup> day of the December, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,  
District Shimla H.P.**

In the matter of :

1. Mr. Manoj Kumar s/o Shri Prabhu Dayal Singh, aged 32 years, r/o Village Chunja, P.O. Delath, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P.
2. Mrs. Anjna Khachi d/o Shri Santosh Kumar, aged 26 years, r/o Village Dharan, P.O. & Sub-Tehsil Nankhari, District Shimla, H.P. .. *Applicants.*

*Versus*

General Public

.. *Respondent.*

*Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.*

Mr. Manoj Kumar s/o Shri Prabhu Dayal Singh, aged 32 years, r/o Village Chunja, P.O. Delath, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. and Mrs. Anjna Khachi d/o Shri Santosh Kumar, aged 26 years, r/o Village Dharan, P.O. & Sub-Tehsil Nankhari, District Shimla, H.P. have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-10-2016 at Village Chunja, P.O. Delath, Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-01-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5<sup>th</sup> day of the December, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,  
District Shimla H.P.**

In the matter of :

1. Mr. Mayank Singla s/o Shri Dinesh Singla, aged 26 years, r/o Village Ward No. 3, Main Bazar Rampur Bsr., Tehsil Rampur Bsr., District Shimla, H.P.
2. Mrs. Aayushi Gupta d/o Shri Parveen Kumar, aged 23 years, r/o 1164 A Sector-1 Karnal Haryana. . . Applicants.

*Versus*

General Public

.. Respondent.

*Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.*

Mr. Mayank Singla s/o Shri Dinesh Singla, aged 26 years, r/o Village Ward No. 3, Main Bazar Rampur Bsr., Tehsil Rampur Bsr., District Shimla, H. P. and Mrs. Aayushi Gupta d/o Shri Parveen Kumar, aged 23 years, r/o 1164 A Sector-1 Karnal Haryana have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-04-2016 at Panchkula, Haryana according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-01-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5<sup>th</sup> day of the December, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,  
District Shimla H.P.**

In the matter of :

1. Mr. Rajiv Shastri s/o Shri Lal Jeet Sharma, r/o Sharma Bhawan, M/s Ajodhya Dass & Sons, Main Bazar, Rampur Bsr., District Shimla, H.P.



2. Himani Panwar d/o Shri Mool Raj, r/o Village Saini Nagar Khatauli, P.S. Khatauli, District Muzaffar Nagar, U.P. . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.*

Mr. Rajiv Shastri s/o Shri Lal Jeet Sharma, r/o Sharma Bhawan, M/s Ajodhya Dass & Sons, Main Bazar Rampur Bsr., District Shimla, H.P. and Mrs. Himani Panwar d/o Shri Mool Raj, r/o Village Saini Nagar Khatauli, P.S. Khatauli, District Muzaffar Nagar, U.P. have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-04-2009 at Rampur Bushahr, District Shimla, H.P. according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-01-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5<sup>th</sup> day of the December, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Rampur Bushahr.*